



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1160]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938

No. 1160]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/ VAISAKHA 22, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2016

**का.आ. 1729(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2562 (अ), तारीख 18 सितम्बर, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में लड़डूवाल बाइपास लुधियाना के 0.000 कि.मी. से 17.041 कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 12 अक्टूबर, 2015 को "दि ट्रिब्यून" (अंग्रेजी) और "जगबाणी" (पंजाबी) में तथा तारीख 13 अक्टूबर, 2015 को "पंजाब केसरी" (हिन्दी) में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

पंजाब राज्य में लड्डूवाल बाइपास के 0.000 कि.मी. से 17.041 कि.मी. तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	खसरा संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल में			हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
								कनाल	मरला	हेक्टेयर	
1	2	3	4	5		6	7	8			9
1	1. लुधियाना	1. लुधियाना पश्चिम	1. अयाली खुर्द	36// 8	मिन	निजी	सिंचित	0	11	0.0278	प्रीतम सिंह पुत्र जयराम सिंह, धरमजीत सिंह पुत्र जसवीर सिंह, जसवीर सिंह पुत्र करनैल सिंह, ईदरजीत कौर पत्नी जसवीर सिंह
				182	मिन	सरकारी	रास्ता	0	6	0.0152	मुस्तरका मालकान
				58	मिन	सरकारी	नाला	2	6	0.1163	प्रोविशनल सरकार
				183	मिन	सरकारी	रास्ता	0	16	0.0405	मुस्तरका मालकान
				184	मिन	सरकारी	रास्ता	0	12	0.0303	मुस्तरका मालकान
				36// 12	मिन	निजी	सिंचित	2	14	0.1366	सुरजीत सिंह, दिलबाग सिंह, संतोष सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, पी0डब्ल्यू0डी0 चंडीगढ़, गुरमीत सिंह, सुखमंदर सिंह पुत्र बलदेव सिंह, हरजिंदर सिंह पुत्र बरकत सिंह, भूपिंदरकौर पत्नी दविन्दर सिंह, रविन्दर मितल पुत्र सामलाल व अन्य
				36// 13	मिन	निजी	सिंचित	1	11	0.0784	दिलबाग सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, संतोख सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, दलवीर सिंह पुत्र बंता सिंह, परमिला गुप्ता पत्नी प्रदीप कुमार, वरिंदर कौर पत्नी तेजेंदरपाल, गुरदीप सिंह पुत्र जसवंत सिंह, रमेश कुमार सहनी पुत्र बलाकीराम व अन्य

				36// 18	मिन	निजी	सिंचित	2	15	0.1391	दिलबाग सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, संतोख सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, दलवीर सिंह पुत्र बंता सिंह, परमिला गुप्ता पत्नी प्रदीप कुमार, वरिंदर कौर पत्नी तेजेंदरपाल, गुरदीप सिंह पुत्र जसवंत सिंह, रमेश कुमार सहनी पुत्र बलाकीराम व अन्य
				36// 19	मिन	निजी	सिंचित	2	1	0.1037	सुरजीत सिंह , दिलबाग सिंह, संतोष सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, च्व बेवपहंती, गुरमीत सिंह, सुखमंदर सिंह पुत्र बलदेव सिंह, हरजिंदर सिंह पुत्र बरकत सिंह, भूपिंदरकौर पत्नी दविन्दर सिंह, रविन्दर मितल पुत्र सामलाल व अन्य
			2. झामट	3// 18	मिन	निजी	सिंचित	2	10	0.1265	बलवीर सिंह पुत्र लाल सिंह, रणजीत कौर पत्नी बलवीर सिंह
				3// 19/1	मिन	निजी	सिंचित	0	5	0.0126	रमेश सैनी पुत्र बालकी राम, अनिल कुमार मित्तल पुत्र धर्मपाल
				276	मिन	सरकारी	रास्ता	0	10	0.0253	पंचायत देह
				22/2	मिन	निजी	सिंचित	0	2	0.0051	दर्शन सिंह उप्पल पुत्र सरदारा सिंह, रमेश सैनी पुत्र बालकी राम, अनिल कुमार मित्तल पुत्र धर्मपाल
				3// 23/1	मिन	निजी	सिंचित	2	17	0.1442	निर्मला कुमारी पत्नी रणवीर सिंह
				3// 23/2	मिन	निजी	सिंचित	3	11	0.1796	बलवीर सिंह पुत्र लाल सिंह, रणजीत कौर पत्नी बलवीर सिंह
				3// 24	मिन	निजी	सिंचित	1	4	0.0607	बलवीर सिंह पुत्र लाल सिंह, रणजीत कौर पत्नी बलवीर सिंह
				274	मिन	सरकारी	नाला	0	10	0.0253	पंचायत देह
				7// 9	मिन	निजी	सिंचित	1	17	0.0936	गौतम जैन पुत्र विशन जैन, अबरसी जैन पुत्र विशन जैन, अमित जैन पुत्र अरिंरत जैन, आदर्श झाम पुत्र प्रेम सागर, विनय झाम पुत्र प्रेम सागर, नवतेज पुत्र प्रेम सागर, सरबजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह, जसविन्दर सिंह पुत्र तरलोचन सिंह, रविन्दर कुमार पुत्र मदनलाल, जसप्रीत कौर पुत्री दर्शन सिंह व अन्य
				7// 10	मिन	निजी	सिंचित	3	2	0.1568	बलवीर सिंह पुत्र लाभ सिंह
				7// 11		निजी	सिंचित	3	2	0.1568	बलवीर सिंह पुत्र लाभ सिंह

				7// 12		निजी	सिंचित	1	4	0.0607	गौतम जैन पुत्र विशन जैन, अबरसी जैन पुत्र विशन जैन, अमित जैन पुत्र अरिरंत जैन, आदर्श झाम पुत्र प्रेम सागर, विनय झाम पुत्र प्रेम सागर, नवतेज पुत्र प्रेम सागर, सरबजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह, जसविन्दर सिंह पुत्र तरलोचन सिंह, रविन्दर कुमार पुत्र मदनलाल, जसप्रीत कौर पुत्री दर्शन सिंह व अन्य
				8// 3	मिन	निजी	सिंचित	3	4	0.1619	मेसर्स भसिन व कम्पनी लुधियाना, यूनिटेक फार्मान्यूटिकल, दीपक गोयल पुत्र हेमराज
				8//4/1/1	मिन	निजी	सिंचित	5	13	0.2858	रविन्दर कौर पत्नी अमरजीत सिंह, मेसर्स भसिन व कम्पनी लुधियाना
				8//4/1/2	मिन	निजी	सिंचित	0	6	0.0152	मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र कस्तूरी लाल
				8// 4/2	मिन	निजी	सिंचित	0	2	0.0051	मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र कस्तूरी लाल
				8// 5	मिन	निजी	सिंचित	0	4	0.0101	बलवीर सिंह पुत्र लाल सिंह, रणजीत कौर पत्नी बलवीर सिंह, मुरारी अग्रवाल पत्नी कस्तूरी लाल
				8// 6	मिन	निजी	सिंचित	6	8	0.3237	मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र कस्तूरी लाल
				8// 7	मिन	निजी	सिंचित	6	7	0.3212	चेतन जैन पुत्र राधेराम, मनीष जैन पुत्र राधेश्याम
				8// 8	मिन	निजी	सिंचित	0	3	0.0076	चेतन जैन पुत्र राधेराम, मनीष जैन पुत्र राधेश्याम
				8//14/2	मिन	निजी	सिंचित	0	17	0.043	चेतन जैन पुत्र राधेराम, मनीष जैन पुत्र राधेश्याम
				8// 15	मिन	निजी	सिंचित	5	1	0.2554	मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र कस्तूरी लाल
				275	मिन	सरकारी	रास्ता	0	16	0.0405	पंचायत देह
			3. मालक पुर	29// 8	मिन	निजी	सिंचित	0	5	0.0126	दिलबाग सिंह पुत्र कपूर सिंह
				90	मिन	सरकारी	रास्ता	2	1	0.1037	प्रोविजनल गोरमैट
				29// 12	मिन	निजी	सिंचित	1	19	0.0986	डिम्पल पुत्र खिंजानची लाल, महाराज सिंह एच. यू.एफ. पुत्र बलवीर सिंह
				29//13	मिन	निजी	सिंचित	3	8	0.172	तरसेम लाल पुत्र खिंजानची लाल, नवदीप कौर पत्नी महाराज सिंह, हरीश जैन पुत्र राममूर्ति जैन, शशी रानी पत्नी हरीश जैन, तमन्ना अरोड़ा पत्नी रोबिन

											अरोड़ा
				29//18	मिन	निजी	सिंचित	2	4	0.1113	तरसेम लाल पुत्र खिजांची लाल, नवदीप कौर पत्नी महाराज सिंह, तमन्ना अरोड़ा पत्नी रोबिन अरोड़ा
				29//19	मिन	निजी	सिंचित	5	14	0.2883	अमरजीत सिंह पुत्र आत्मा सिंह
				29//21/2	मिन	निजी	सिंचित	0	12	0.0303	प्रेम सिंह पुत्र पूरन सिंह, कुलवंत कौर विधवा नागर सिंह, भगवंत सिंह पुत्र नागर सिंह, जीत सिंह पुत्र पूरन सिंह, दिलबाग सिंह पुत्र पूरन सिंह, खजांचीलाल पुत्र रामचन्द्र, संतोख सिंह पुत्र दर्शन सिंह, बृजबाला सरीन पत्नी केदारनाथ सरीन व अन्य
				29//22	मिन	निजी	सिंचित	6	18	0.349	प्रेम सिंह पुत्र पूरन सिंह, कुलवंत कौर विधवा नागर सिंह, भगवंत सिंह पुत्र नागर सिंह, जीत सिंह पुत्र पूरन सिंह, दिलबाग सिंह पुत्र पूरन सिंह, खजांचीलाल पुत्र रामचन्द्र, संतोख सिंह पुत्र दर्शन सिंह, बृजबाला सरीन पत्नी केदारनाथ सरीन व अन्य
				29//23	मिन	निजी	सिंचित	0	1	0.0025	प्रेम सिंह पुत्र पूरन सिंह, कुलवंत कौर विधवा नागर सिंह, भगवंत सिंह पुत्र नागर सिंह, जीत सिंह पुत्र पूरन सिंह, दिलबाग सिंह पुत्र पूरन सिंह, खजांचीलाल पुत्र रामचन्द्र, संतोख सिंह पुत्र दर्शन सिंह, बृजबाला सरीन पत्नी केदारनाथ सरीन व अन्य
				31//1	मिन	निजी	सिंचित	2	18	0.1467	हरजिन्दर सिंह पुत्र लाम सिंह, प्रेम सिंह पुत्र पूरन सिंह, दिलबाग सिंह पुत्र पूरन सिंह, जीत सिंह पुत्र पूरन सिंह, कुलवंत कौर विधवा नागर सिंह, भगवंत सिंह पुत्र नागर सिंह, खजांचीलाल पुत्र रामचन्द्र, संतोख सिंह पुत्र दर्शन सिंह, व अन्य

				31//2	मिन	निजी	सिंचित	4	8	0.2226	प्रेम सिंह पुत्र पूरन सिंह, कुलवंत कौर विधवा नागर सिंह, भवंत सिंह पुत्र नागर सिंह, जीत सिंह पुत्र पूरन सिंह, दिलबाग सिंह पुत्र पूरन सिंह, खजांचीलाल पुत्र रामचन्दर, संतोख सिंह पुत्र दर्शन सिंह, बृजबाला सरीन पत्नी केदारनाथ सरीन व अन्य
				31//9	मिन	निजी	सिंचित	2	8	0.1214	हरजिन्दर सिंह पुत्र लाभ सिंह, प्रेम सिंह पुत्र पूरन सिंह, दिलबाग सिंह पुत्र पूरन सिंह, जीत सिंह पुत्र पूरन सिंह, कुलवंत कौर विधवा नागर सिंह, भगवंत सिंह पुत्र नागर सिंह, खजांचीलाल पुत्र रामचन्दर, संतोख सिंह पुत्र दर्शन सिंह, व अन्य
				31//10	मिन	निजी	सिंचित	4	16	0.2428	प्रेम सिंह पुत्र पूरन सिंह, कुलवंत कौर विधवा नागर सिंह, भगवंत सिंह पुत्र नागर सिंह, जीत सिंह पुत्र पूरन सिंह, दिलबाग सिंह पुत्र पूरन सिंह, खजांचीलाल पुत्र रामचन्दर, संतोख सिंह पुत्र दर्शन सिंह, बृजबाला सरीन पत्नी केदारनाथ सरीन व अन्य
				31//11	मिन	निजी	सिंचित	5	8	0.2731	बूटा सिंह पुत्र गुरबख्खा सिंह
				31//12	मिन	निजी	सिंचित	1	8	0.0708	बूटा सिंह पुत्र गुरबख्खा सिंह
				31//19	मिन	निजी	सिंचित	1	8	0.0708	गुरबख्खा सिंह पुत्र बग्गा सिंह
				31//20	मिन	निजी	सिंचित	6	0	0.3035	गुरबख्खा सिंह पुत्र बग्गा सिंह
				31//21	मिन	निजी	सिंचित	5	2	0.258	जगजीवन सिंह पुत्र बचीतर सिंह, गुरप्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह, सुखजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह, बलजीत कौर विधवा मक्खन सिंह, पवनदीप कौर पुत्री मक्खन सिंह
				31//22/1		निजी	सिंचित	1	12	0.0809	जगजीवन सिंह पुत्र बचीतर सिंह, गुरप्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह, सुखजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह, बलजीत कौर विधवा मक्खन सिंह, पवनदीप कौर पुत्री मक्खन सिंह
				31//22/2	मिन	निजी	सिंचित	0	12	0.0303	प्रदीप गुप्ता पुत्र किशनचंद, संदीप गुप्ता पुत्र किशन चंद, दीपक गुप्ता पुत्र किशन चंद व अन्य

				351	मिन	सरकारी	रास्ता	0	8	0.0202	गांव पचायंत
				41//1/2	मिन	निजी	सिंचित	3	6	0.1669	पूनम गुप्ता पत्नी प्रदीप सिंह, प्रदीप, दीपक पुत्रान किशन चंद, सोनिया गुप्ता पत्नी दीपक, संदीप गुप्ता पुत्र कृष्ण चंद, मीना गुप्ता पत्नी संदीप गुप्ता
				41//2	मिन	निजी	सिंचित	3	19	0.1998	पूनम गुप्ता पत्नी प्रदीप सिंह, प्रदीप, दीपक पुत्रान किशन चंद, सोनिया गुप्ता पत्नी दीपक, संदीप गुप्ता पुत्र कृष्ण चंद, मीना गुप्ता पत्नी संदीप गुप्ता
				41//8	मिन	निजी	सिंचित	0	1	0.0025	पूनम गुप्ता पत्नी प्रदीप सिंह, प्रदीप, दीपक पुत्रान किशन चंद, सोनिया गुप्ता पत्नी दीपक, संदीप गुप्ता पुत्र कृष्ण चंद, मीना गुप्ता पत्नी संदीप गुप्ता
				41//9	मिन	निजी	सिंचित	6	0	0.3035	पूनम गुप्ता पत्नी प्रदीप सिंह, प्रदीप, दीपक पुत्रान किशन चंद, सोनिया गुप्ता पत्नी दीपक, संदीप गुप्ता पुत्र कृष्ण चंद, मीना गुप्ता पत्नी संदीप गुप्ता
				41//10/1		निजी	सिंचित	0	17	0.043	पूनम गुप्ता पत्नी प्रदीप सिंह, प्रदीप, दीपक पुत्रान किशन चंद, सोनिया गुप्ता पत्नी दीपक, संदीप गुप्ता पुत्र कृष्ण चंद, मीना गुप्ता पत्नी संदीप गुप्ता
				41//12/2		निजी	सिंचित	4	12	0.2327	चरनजीत सिंह, हरदेव सिंह पुत्रान मोहन सिंह, सुरिन्दर सिंह पुत्र चरन सिंह, मलकीत सिंह पुत्र चरन सिंह, प्रीतम सिंह पुत्र चरन सिंह, मोहन सिंह पुत्र जैमल सिंह, करनैल सिंह पुत्र जैमल सिंह, हरदेव सिंह, गुरदेव सिंह पुत्रान नत्था सिंह व अन्य
				41//13	मिन	निजी	सिंचित	2	8	0.1214	चरनजीत सिंह, हरदेव सिंह पुत्रान मोहन सिंह, सुरिन्दर सिंह पुत्र चरन सिंह, मलकीत सिंह पुत्र चरन सिंह, प्रीतम सिंह पुत्र चरन सिंह, मोहन सिंह पुत्र जैमल सिंह, करनैल सिंह पुत्र जैमल सिंह, हरदेव सिंह, गुरदेव सिंह पुत्रान नत्था सिंह व अन्य

				41//18	मिन	निजी	सिंचित	6	1	0.306	हरदेव सिंह, गुरदेव सिंह पुत्रान नत्था सिंह, लाभ सिंह पुत्र निधान सिंह, करनैल सिंह पुत्र जैमल सिंह, मोहन सिंह पुत्र जैमल सिंह, जोगिन्दर सिंह पुत्र निधान सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र निधान सिंह, गुरवचन कौर पत्नी नत्था सिंह, नत्था सिंह पुत्र जगत सिंह, अमरिन्दर सिंह पुत्र हरदेव सिंह व अन्य
				41//19/2		निजी	सिंचित	0	17	0.043	दर्शन सिंह पूत्र जंगीर सिंह, मास्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल अस्टेट डवैलपरज लिम0 प्रदीप कुमार पुत्र परमवीर अग्रवाल, कुलवंत कौर पत्नी दर्शन सिंह, रवित जैन पुत्र रजिन्द्र कुमार जैन और अन्य
				41//23/2		निजी	सिंचित	4	5	0.215	हरदेव सिंह, गुरदेव सिंह पुत्रान नत्था सिंह, लाभ सिंह पुत्र निधान सिंह, करनैल सिंह पुत्र जैमल सिंह, मोहन सिंह पुत्र जैमल सिंह, जोगिन्दर सिंह पुत्र निधान सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र निधान सिंह, गुरवचन कौर पत्नी नत्था सिंह, नत्था सिंह पुत्र जगत सिंह, अमरिन्दर सिंह पुत्र हरदेव सिंह व अन्य
				41//24	मिन	निजी	सिंचित	2	3	0.1087	करनैल पुत्र जैमल सिंह, सोहन सिंह जैमल सिंह, लाभ सिंह, जोगिन्द्र सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रान निधान सिंह, गुरदेव सिंह, हरदेव सिंह पुत्र नत्था सिंह, नत्था सिंह, जगत सिंह पुत्रान मस्तान सिंह और अन्य
				370	मिन	सरकारी	रास्ता	0	7	0.0177	ग्राम पंचायत
				44//11	मिन	निजी	सिंचित	0	1	0.0025	करनैल पुत्र जैमल सिंह, सोहन सिंह जैमल सिंह, लाभ सिंह, जोगिन्द्र सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रान निधान सिंह, गुरदेव सिंह, हरदेव सिंह पुत्र नत्था सिंह, नत्था सिंह, जगत सिंह पुत्र मस्तान सिंह और अन्य



				44//20/1	मिन	निजी	सिंचित	1	4	0.0607	करनैल पुत्र जैमल सिंह, सोहन सिंह जैमल सिंह, लाभ सिंह, जोगिन्द्र सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रान निधान सिंह, गुरदेव सिंह, हरदेव सिंह पुत्र नत्था सिंह, नत्था सिंह, जगत सिंह पुत्र मस्तान सिंह और अन्य
				44//20/2	मिन	निजी	सिंचित	1	0	0.0506	20/2/1— जैमल सिंह पुत्र अमीर सिंह, आशीष बंसल पुत्र पवन बंसल, सतीश कुमार पुत्र अमरनाथ, जतिन्दर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, नंदलाल गुप्ता पुत्र कमल दास व अन्य, 20/2/2— प्रवीन कुमार जैन पुत्र राजकुमार जैन, प्रोमिला जैन पुत्र नेमचंद जैन, विकास जैन पुत्र प्रेमचंद जैन, त्रिभवन कुमार जैन पुत्र देसराज जैन
				44//21	मिन	निजी	सिंचित	6	4	0.3136	21/1— प्रवीन कुमार जैन पुत्र राजकुमार जैन, प्रोमिला जैन पुत्र नेमचंद जैन, विकास जैन पुत्र प्रेमचंद जैन, त्रिभवन कुमार जैन पुत्र देसराज जैन, 21/2—जैमल सिंह पुत्र अमीर सिंह, आशीष बंसल पुत्र पवन बंसल, सतीश कुमार पुत्र अमरनाथ, जतिन्दर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, नंदलाल गुप्ता पुत्र कमल दास व अन्य,
				349	मिन	सरकारी	रास्ता	0	8	0.0202	ग्राम पंचायत
				45//3/2		निजी	सिंचित	0	15	0.0379	सरला अग्रवाल पत्नी किशन मोहन अग्रवाल, मोहन सिंह, करनैल सिंह पुत्र जैमल सिंह, लाभ सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र निधान सिंह, लक्खा सिंह पुत्र जगत सिंह, गुरचरण कौर पत्नी नत्था सिंह व अन्य
				45//4	मिन	निजी	सिंचित	6	2	0.3085	सरला अग्रवाल पत्नी किशन मोहन अग्रवाल, मोहन सिंह, करनैल सिंह पुत्र जैमल सिंह, लाभ सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र निधान सिंह, लक्खा सिंह पुत्र जगत सिंह, गुरचरण कौर पत्नी नत्था सिंह व अन्य

				45//6	मिन	निजी	सिंचित	2	8	0.1214	सरला अग्रवाल पत्नी किशन मोहन अग्रवाल, मोहन सिंह, करनैल सिंह पुत्र जैमल सिंह, लाभ सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र निधान सिंह, लक्खा सिंह पुत्र जगत सिंह, गुरचरण कौर पत्नी नत्था सिंह व अन्य
				45//7/1		निजी	सिंचित	4	12	0.2327	सरला अग्रवाल पत्नी किशन मोहन अग्रवाल, मोहन सिंह, करनैल सिंह पुत्र जैमल सिंह, लाभ सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र निधान सिंह, लक्खा सिंह पुत्र जगत सिंह, गुरचरण कौर पत्नी नत्था सिंह व अन्य
				45//14/2		निजी	सिंचित	0	17	0.043	सरला अग्रवाल पत्नी किशन मोहन अग्रवाल, मोहन सिंह, करनैल सिंह पुत्र जैमल सिंह, लाभ सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र निधान सिंह, लक्खा सिंह पुत्र जगत सिंह, गुरचरण कौर पत्नी नत्था सिंह व अन्य
				45//15	मिन	निजी	सिंचित	5	9	0.2757	सरला अग्रवाल पत्नी किशन मोहन अग्रवाल, मोहन सिंह, करनैल सिंह पुत्र जैमल सिंह, लाभ सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र निधान सिंह, लक्खा सिंह पुत्र जगत सिंह, गुरचरण कौर पत्नी नत्था सिंह व अन्य
				45//16/1		निजी	सिंचित	2	15	0.1391	सरला अग्रवाल पत्नी किशन मोहन अग्रवाल, मोहन सिंह, करनैल सिंह पुत्र जैमल सिंह, लाभ सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र निधान सिंह, लक्खा सिंह पुत्र जगत सिंह, गुरचरण कौर पत्नी नत्था सिंह व अन्य
				45//16/2		निजी	सिंचित	0	12	0.0304	परवीन कुमार जैन पुत्र राजकुमार जैन, प्रमिला जैन पुत्र नेमचंद जैन, विकास जैन पुत्र प्रेमचंद जैन, त्रिभवन कुमार जैन पुत्र देसराज जैन
				45//25/2		निजी	सिंचित	0	17	0.043	परवीन कुमार जैन पुत्र राजकुमार जैन, प्रमिला जैन पुत्र नेमचंद जैन, विकास जैन पुत्र प्रेमचंद जैन, त्रिभवन कुमार जैन पुत्र देसराज जैन
				369	मिन	सरकारी	रास्ता	0	10	0.0253	ग्राम पंचायत

				54//1/2		निजी	सिंचित	4	12	0.2327	जैमल सिंह पुत्र अमीर सिंह, आशिष बांसल पुत्र पवन बांसल, सतीश कुमार पुत्र अमरनाथ, जतिन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, नंदलाल गुप्ता पुत्र कमल दास और अन्य
				54//2	मिन	निजी	सिंचित	2	10	0.1265	जैमल सिंह पुत्र अमीर सिंह, आशिष बांसल पुत्र पवन बांसल, सतीश कुमार पुत्र अमरनाथ, जतिन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, नंदलाल गुप्ता पुत्र कमल दास और अन्य
				54//8	मिन	निजी	सिंचित	0	1	0.0025	8/1-सतीश कुमार पुत्र अमरनाथ, जतिन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, सुकोमल जैन पत्नी महिन्दरपाल जैन, वन्दना जैन पत्नी अमन जैन, 8/2-जैमल सिंह पुत्र अमीर सिंह, आशिष बांसल पुत्र पवन बांसल, नंदलाल गुप्ता पुत्र कमल दास अश्वनी कुमार पुत्र सुरेश कुमार
				54//9	मिन	निजी	सिंचित	6	4	0.3136	9/1-सतीश कुमार पुत्र अमरनाथ, जतिन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, सुकोमल जैन पत्नी महिन्दरपाल जैन, वन्दना जैन पत्नी अमन जैन, 9/2-जैमल सिंह पुत्र अमीर सिंह, आशिष बांसल पुत्र पवन बांसल, नंदलाल गुप्ता पुत्र कमल दास अश्वनी कुमार पुत्र सुरेश कुमार
				54//10/1		निजी	सिंचित	0	17	0.043	जैमल सिंह पुत्र अमीर सिंह, आशिष बांसल पुत्र पवन बांसल, सतीश कुमार पुत्र अमरनाथ, जतिन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, नंदलाल गुप्ता पुत्र कमल दास और अन्य
				54//12/2		निजी	सिंचित	4	12	0.2327	जैमल सिंह पुत्र अमीर सिंह, आशिष बांसल पुत्र पवन बांसल, नंदलाल गुप्ता पुत्र कौशल दास गुप्ता, अश्वनी कुमार पुत्र सुरेश कुमार
				54//13	मिन	निजी	सिंचित	2	12	0.1315	जैमल सिंह पुत्र अमीर सिंह, आशिष बांसल पुत्र पवन बांसल, नंदलाल गुप्ता पुत्र कौशल दास गुप्ता, अश्वनी कुमार पुत्र सुरेश कुमार

				54//17/2	मिन	निजी	सिंचित	0	1	0.0025	17/2/1- जैमल सिंह पुत्र अमीर सिंह, आशिष बांसल पुत्र पवन बांसल, नंदलाल गुप्ता पुत्र कौशल दास गुप्ता, अश्वनी कुमार पुत्र सुरेश कुमार, 17/2/2- साधु सिंह सिंह निरंजन सिंह
				54//18	मिन	निजी	सिंचित	6	4	0.3136	18/1- जैमल सिंह पुत्र अमीर सिंह, आशिष बांसल पुत्र पवन बांसल, नंदलाल गुप्ता पुत्र कौशल दास गुप्ता, अश्वनी कुमार पुत्र सुरेश कुमार, 18/2,18/3-साधु सिंह पुत्र निरंजन सिंह
				54//19/1		निजी	सिंचित	0	17	0.043	19/1/1- जैमल सिंह पुत्र अमीर सिंह, आशिष बांसल पुत्र पवन बांसल, नंदलाल गुप्ता पुत्र कौशल दास गुप्ता, अश्वनी कुमार पुत्र सुरेश कुमार, 19/1/2-साधु सिंह पुत्र निरंजन सिंह
				54//23/2		निजी	सिंचित	4	12	0.2327	जीत सिंह पुत्र पाल सिंह
				54//24	मिन	निजी	सिंचित	2	10	0.1265	24/1- जीत सिंह पुत्र पाल सिंह, 24/2- हरविन्दर सिंह पुत्र जीत सिंह, साधु सिंह पुत्र निरंजन सिंह, 24/3-साधु सिंह पुत्र निरंजन सिंह
				56//20	मिन	निजी	सिंचित	2	6	0.1163	गुरदीप सिंह, संतोख सिंह, अजीत सिंह दिलबाग सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह
				56//21	मिन	निजी	सिंचित	5	17	0.2959	गुरदीप सिंह, संतोख सिंह, अजीत सिंह दिलबाग सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह
				57//3/2		निजी	सिंचित	0	17	0.043	3/2/1 जीत सिंह पुत्र पाल सिंह, 3/2/2- मंजीत कौर विधवा जगत सिंह उर्फ जगदेव सिंह
				57//4	मिन	निजी	सिंचित	6	4	0.3136	4/1 जीत सिंह पुत्र पाल सिंह, 4/2- मंजीत कौर विधवा जगत सिंह उर्फ जगदेव सिंह
				57//5	मिन	निजी	सिंचित	0	1	0.0025	जीत सिंह पुत्र पाल सिंह
				57//6	मिन	निजी	सिंचित	2	10	0.1265	6/1- मंजीत कौर विधवा जगत सिंह उर्फ जगदेव सिंह, 6/2- भजन सिंह पुत्र गोपाल सिंह
				57//7/1		निजी	सिंचित	4	12	0.2327	7/1/1- मंजीत कौर विधवा जगत सिंह उर्फ जगदेव सिंह, 7/1/2- भजन सिंह पुत्र गोपाल सिंह

				57//14/2		निजी	सिंचित	0	16	0.0405	14/2/1- भजन सिंह पुत्र गोपाल सिंह, 14/2/2- करनैल कौर विधवा गुरदेव सिंह, रविन्दर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह, गुरविन्दर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह
				57//15	मिन	निजी	सिंचित	6	2	0.3085	15/1- भजन सिंह पुत्र गोपाल सिंह, 15/2- करनैल कौर विधवा गुरदेव सिंह, रविन्दर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह, गुरविन्दर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह
				57//16/1		निजी	सिंचित	4	12	0.2327	गुरप्रीत सिंह, संतोख सिंह, अजीत सिंह दिलबाग सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह
				57//25/2		निजी	सिंचित	0	17	0.043	गुरप्रीत सिंह, संतोख सिंह, अजीत सिंह दिलबाग सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह
				66//1/2		निजी	सिंचित	4	12	0.2327	गुरप्रीत सिंह, संतोख सिंह, अजीत सिंह दिलबाग सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह
				66//2	मिन	निजी	सिंचित	2	0	0.1012	गुरप्रीत सिंह, संतोख सिंह, अजीत सिंह दिलबाग सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह
				66//9	मिन	निजी	सिंचित	4	10	0.2276	गुरप्रीत सिंह, संतोख सिंह, अजीत सिंह दिलबाग सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह
				66//10/1		निजी	सिंचित	0	17	0.043	गुरप्रीत सिंह, संतोख सिंह, अजीत सिंह दिलबाग सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह
				98-100	मिन	सरकारी	रास्ता	22	15	1.1507	ग्राम पंचायत
				348-367	मिन	सरकारी	नाला	9	2	0.4603	ग्राम पंचायत
			4. जैनपुर	3//12/2	मिन	निजी	सिंचित	1	4	0.0607	पंचायत देह
				50	मिन	सरकारी	असिंचित	4	2	0.2074	सरकारी नाला
				3//13/1	मिन	निजी	सिंचित	1	19	0.0986	पंचायत देह
				3//18	मिन	निजी	सिंचित	5	0	0.2529	आशू गुप्ता पुत्र प्यारेलाल, केवल कृष्ण पुत्र पुरुषोत्तम दास
				3//19/1	मिन	निजी	सिंचित	0	5	0.0126	केशव कृष्ण पुत्र पुरुषोत्तम दास
				3//19/2	मिन	निजी	सिंचित	2	3	0.1087	केशव कृष्ण पुत्र पुरुषोत्तम दास
				3//22/2	मिन	निजी	सिंचित	2	0	0.1012	केशव कृष्ण पुत्र पुरुषोत्तम दास, आशू गुप्ता पुत्र प्यारे लाल, जसविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, बलविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह
				3//23	मिन	निजी	सिंचित	4	12	0.2327	केशव कृष्ण पुत्र पुरुषोत्तम दास, आशू गुप्ता पुत्र प्यारे लाल

				10//2	मिन	निजी	सिंचित	2	4	0.1113	प्रकाश कौर पत्नी गुरचरण सिंह, सवरन सिंह पुत्र बुधा सिंह, कर्मजीत सिंह पुत्र बुधा सिंह
				166	मिन	सरकारी	असिंचित	0	12	0.0303	पंचायत देह
				10//3	मिन	निजी	सिंचित	5	0	0.2529	अमरजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह, हरदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह
				10//8	मिन	निजी	सिंचित	5	0	0.2529	अमरजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह, हरदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह
				10//9	मिन	निजी	सिंचित	2	4	0.1113	प्रकाश कौर पत्नी गुरचरण सिंह, सवरन सिंह पुत्र बुधा सिंह, कर्मजीत सिंह पुत्र बुधा सिंह
				10//12/1	मिन	निजी	सिंचित	1	15	0.0885	प्रकाश कौर पत्नी गुरचरण सिंह, सवरन सिंह पुत्र बुधा सिंह, कर्मजीत सिंह पुत्र बुधा सिंह
				10//12/2	मिन	निजी	सिंचित	0	10	0.0253	पंचायत देह
				10//13/1	मिन	निजी	सिंचित	2	10	0.1265	वचितर सिंह पुत्र हरी सिंह, गुरप्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह, सुखजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह, बलजीत कौर विधवा मकखन सिंह, पवनदीप कौर पुत्री मकखन सिंह
				10//13/2	मिन	निजी	सिंचित	2	10	0.1265	अमरजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह, हरदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह
				10//18	मिन	निजी	सिंचित	5	0	0.2529	वचितर सिंह पुत्र हरी सिंह, गुरप्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह, सुखजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह, बलजीत कौर विधवा मकखन सिंह, पवनदीप कौर पुत्री मकखन सिंह
				10//19	मिन	निजी	सिंचित	2	4	0.1113	19/1— पंचायत, 19/2— प्रकाश कौर पत्नी गुरचरण सिंह, सवरन सिंह पुत्र बुधा सिंह, कर्मजीत सिंह पुत्र बुधा सिंह
				10//22	मिन	निजी	सिंचित	2	4	0.1113	पंचायत देह
				10//23	मिन	निजी	सिंचित	5	0	0.2529	वक्फ बोर्ड मस्जिद
				13//2	मिन	निजी	सिंचित	2	4	0.1113	पंचायत देह
				13//3	मिन	निजी	सिंचित	5	0	0.2529	वक्फ बोर्ड मस्जिद
				13//8/1	मिन	निजी	सिंचित	4	5	0.2150	सुखवंत सिंह पुत्र सुरिन्दर सिंह, तजिन्द सिंह पुत्र परमजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह, सुनील कुमार पुत्र रामपाल, रामपाल पुत्र वीरु राम और अन्य
				13//8/2	मिन	निजी	सिंचित	0	6	0.0152	वक्फ बोर्ड मस्जिद

				63	मिन	सरकारी	असिंचित	1	18	0.0961	पंचायत देह
				13//9	मिन	निजी	सिंचित	2	6	0.1163	पंचायत देह
				13//12	मिन	निजी	सिंचित	2	10	0.1265	पंचायत देह
				13//13/1		निजी	सिंचित	3	4	0.1619	सुनील कुमार पुत्र रामपाल, रामपाल पुत्र वीरुराम, सुनीता जैन पुत्र धनीराम, साहिला जैन पुत्र लविन्द्र जैन, हरप्रीत सिंह ग्रेवाल पुत्र सुरजीत सिंह और अन्य
				13//13/2	मिन	निजी	सिंचित	1	2	0.0556	रामपाल पुत्र वीरु राम, सुनील कुमार पुत्र रामपाल, चेतन कुमार पुत्र रामपाल, रानी वर्मा पत्नी अनिल कुमार, विवेक भूषण पुत्र ज्ञान चंद और अन्य
				13//18/1	मिन	निजी	सिंचित	0	10	0.0253	रामपाल पुत्र वीरु राम, सुनील कुमार पुत्र रामपाल, चेतन कुमार पुत्र रामपाल, रानी वर्मा पत्नी अनिल कुमार, विवेक भूषण पुत्र ज्ञान चंद और अन्य
				13//18/2		निजी	सिंचित	3	4	0.1619	सुनील कुमार पुत्र रामपाल, रामपाल पुत्र वीरुराम, सुनीता जैन पुत्र धनीराम, साहिला जैन पुत्र लविन्द्र जैन, हरप्रीत सिंह ग्रेवाल पुत्र सुरजीत सिंह और अन्य
				13//19	मिन	निजी	सिंचित	3	0	0.1517	सतपाल सिंह पुत्र बलवीर सिंह
				13//22/2	मिन	निजी	सिंचित	3	8	0.1720	सतपाल सिंह पुत्र बलवीर सिंह
				13//23/1	मिन	निजी	सिंचित	2	5	0.1138	सुनील कुमार पुत्र रामपाल, रामपाल पुत्र वीरुराम, सुनीता जैन पुत्र धनीराम, साहिला जैन पुत्र लविन्द्र जैन, हरप्रीत सिंह ग्रेवाल पुत्र सुरजीत सिंह और अन्य
				83	मिन	सरकारी	असिंचित	0	16	0.0405	पंचायत देह
				19//16/1	मिन	निजी	सिंचित	0	7	0.0177	सरिता गुप्ता पत्नी सुशील गुप्ता, अनिता गुप्ता पत्नी सुनील गुप्ता
				19//23	मिन	निजी	सिंचित	0	13	0.0329	जगजीत कोर विधवा गुरदीप सिंह, दविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, परमिन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, प्रितपाल सिंह पुत्र हरदेव सिंह, बूटा सिंह पुत्र अजीत सिंह और अन्य

				19//24	मिन	निजी	सिंचित	0	1	0.0025	संजीव कुमार पुत्र परवेश चन्द्र, परवेश चन्द्र पुत्र कृष्ण लाल, सैनी सलूजा कमारी पत्नी परवेश चन्द्र, अनुभव कुमार पुत्र सुनील कुमार, सगुन कुमार पुत्री सुशील कुमार और अन्य
				19//25/1	मिन	निजी	सिंचित	0	19	0.0481	संजीव कुमार पुत्र परवेश चन्द्र, परवेश चन्द्र पुत्र कृष्ण लाल, सैनी सलूजा कमारी पत्नी परवेश चन्द्र, अनुभव कुमार पुत्र सुनील कुमार, सगुन कुमार पुत्री सुशील कुमार और अन्य
				19//25/2	मिन	निजी	सिंचित	1	4	0.0607	अनिता गुप्ता पत्नी अनिल गुप्ता, परमजीत सिंह पुत्र नंद सिंह, इन्द्रमोहन जैन, अमृतलाल जैन, मनोज कुमार पुत्र रोशनलाल
				20//1	मिन	निजी	सिंचित	0	1	0.0025	सतपाल सिंह पुत्र बलवीर सिंह
				20//2	मिन	निजी	सिंचित	6	19	0.3515	कैलाश बजाज पुत्र समीर लाल बजाज, नन्द लाल पुत्र वेदप्रकाश, दर्शन लाल पुत्र वेद प्रकाश
				20//3	मिन	निजी	सिंचित	0	18	0.0455	मनदीप सिंह पुत्र हरजिन्दर सिंह, राजेश जैन पुत्र देसराज जैन, संजीव जैन पुत्र शीतल कुमार जैन, इन्द्रमोहन जैन पुत्र अमृतलाल जैन, सतीश बजाज पुत्र सुमेरलाल बजाज, सरिता जैन पत्नी अमृत लाल जैन
				20//9/1	मिन	निजी	सिंचित	2	0	0.1012	नंद लाल पुत्र वेदप्रकाश, दर्शनलाल पुत्र वेद प्रकाश
				20//9/2		निजी	सिंचित	3	16	0.1922	गुरवंश कौर विधवा महिन्द्र सिंह, सुखचैन पुत्र महिन्द्र सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र सतपाल सिंह
				20//10	मिन	निजी	सिंचित	1	14	0.0860	गुरवंश कौर विधवा महिन्द्र सिंह, सुखचैन पुत्र महिन्द्र सिंह
				20//11	मिन	निजी	सिंचित	4	14	0.2377	नरेश कुमार पुत्र तिलक राम
				20//12/1	मिन	निजी	सिंचित	3	4	0.1619	नरेश कुमार पुत्र तिलक राम
				20//12/2	मिन	निजी	सिंचित	0	2	0.0051	नरेश कुमार पुत्र तिलक राम
				20//19	मिन	निजी	सिंचित	0	10	0.0253	रमेश कुमार पुत्र तिलक राज, राधा जैन पत्नी मनोज कुमार, परमजीत सिंह पुत्र नंद सिंह, इन्द्रमोहन जैन, अमृत लाल जैन, मनोज कुमार पुत्र रोशन लाल



				65	मिन	सरकारी	असिंचित	1	17	0.0936	पंचायत देह
				20//20	मिन	निजी	सिंचित	7	2	0.3591	सरिता गुप्ता पत्नी सुशील गुप्ता, अनिता गुप्ता पत्नी सुनील गुप्ता
				20//21	मिन	निजी	सिंचित	4	11	0.2301	अनिता गुप्ता पत्नी अनिल गुप्ता, परमजीत सिंह पुत्र नंद सिंह, इन्द्रमोहन जैन, अमृतलाल जैन, मनोज कुमार पुत्र रोशनलाल
				170	मिन	सरकारी	असिंचित	0	4	0.0101	पंचायत देह
				60	मिन	सरकारी	असिंचित	0	4	0.0101	पंचायत देह
				61	मिन	सरकारी	असिंचित	0	4	0.0101	पंचायत देह
				23//1/1	मिन	निजी	सिंचित	0	9	0.0228	संजीव कुमार पुत्र परवेश चन्द्र, परवेश चन्द्र पुत्र कृष्ण लाल, सैनी सलूजा कमारी पत्नी परवेश चन्द्र, अनुभव कुमार पुत्र सुनील कुमार, सगुन कुमार पुत्री सुशील कुमार और अन्य
				23//1/2	मिन	निजी	सिंचित	1	1	0.0531	जसवंत कौर पत्नी अवतार सिंह, भगवंत सिंह पुत्र जोधा सिंह, वहादर सिंह पुत्र जोध सिंह, दलीप कौर माता बेंअत सिंह, परमजीत कौर पत्नी सौदागर सिंह
				23//10/2	मिन	निजी	सिंचित	0	1	0.0025	संजीव कुमार पुत्र परवेश चन्द्र, परवेश चन्द्र पुत्र कृष्ण लाल, सैनी सलूजा कमारी पत्नी परवेश चन्द्र, अनुभव कुमार पुत्र सुनील कुमार, सगुन कुमार पुत्री सुशील कुमार और अन्य
				23//21	मिन	निजी	सिंचित	1	1	0.0531	जसवंत कौर पत्नी अवतार सिंह, भगवंत सिंह पुत्र जोधा सिंह, वहादर सिंह पुत्र जोध सिंह, दलीप कौर माता बेंअत सिंह, परमजीत कौर पत्नी सौदागर सिंह
				24//3	मिन	निजी	सिंचित	5	8	0.2731	जगजीत कौर विधवा गुरदीप सिंह, दविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, परमिन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, जसविन्द सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, प्रितपाल सिंह पुत्र हरदेव सिंह, बूटा सिंह पुत्र अजीत सिंह और अन्य
				24//4	मिन	निजी	सिंचित	6	16	0.3439	संजीव कुमार पुत्र परवेश चन्द्र, परवेश चन्द्र पुत्र कृष्ण लाल, सैनी सलूजा कमारी पत्नी परवेश चन्द्र, अनुभव कुमार पुत्र सुनील कुमार, सगुन कुमार पुत्री सुशील कुमार और अन्य

				24//5	मिन	निजी	सिंचित	6	10	0.3288	संजीव कुमार पुत्र परवेश चन्द्र, परवेश चन्द्र पुत्र कृष्ण लाल, सैनी सलूजा कमारी पत्नी परवेश चन्द्र, अनुभव कुमार पुत्र सुनील कुमार, सगुन कुमार पुत्री सुशील कुमार और अन्य
				24//6	मिन	निजी	सिंचित	6	17	0.3465	संजीव कुमार पुत्र परवेश चन्द्र, परवेश चन्द्र पुत्र कृष्ण लाल, सैनी सलूजा कमारी पत्नी परवेश चन्द्र, अनुभव कुमार पुत्र सुनील कुमार, सगुन कुमार पुत्री सुशील कुमार और अन्य
				24//7	मिन	निजी	सिंचित	8	0	0.4046	संजीव कुमार पुत्र परवेश चन्द्र, परवेश चन्द्र पुत्र कृष्ण लाल, सैनी सलूजा कमारी पत्नी परवेश चन्द्र, अनुभव कुमार पुत्र सुनील कुमार, सगुन कुमार पुत्री सुशील कुमार और अन्य
				24//8	मिन	निजी	सिंचित	7	15	0.3920	जगजीत कौर विधवा गुरदीप सिंह, दविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, परमिन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, जसविन्द सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, प्रितपाल सिंह पुत्र हरदेव सिंह, बूटा सिंह पुत्र अजीत सिंह और अन्य
				24//9	मिन	निजी	सिंचित	0	12	0.0303	
				24//12	मिन	निजी	सिंचित	0	2	0.0051	जगजीत कौर विधवा गुरदीप सिंह, दविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, परमिन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, जसविन्द सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, प्रितपाल सिंह पुत्र हरदेव सिंह, बूटा सिंह पुत्र अजीत सिंह और अन्य
				24//13	मिन	निजी	सिंचित	3	0	0.1517	जगजीत कौर विधवा गुरदीप सिंह, दविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, परमिन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, जसविन्द सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, प्रितपाल सिंह पुत्र हरदेव सिंह, बूटा सिंह पुत्र अजीत सिंह और अन्य
				24//14	मिन	निजी	सिंचित	7	6	0.3692	संजीव कुमार पुत्र परवेश चन्द्र, परवेश चन्द्र पुत्र कृष्ण लाल, सैनी सलूजा कमारी पत्नी परवेश चन्द्र, अनुभव कुमार पुत्र सुनील कुमार, सगुन कुमार पुत्री सुशील कुमार और अन्य
				24//15	मिन	निजी	सिंचित	4	0	0.2023	संजीव कुमार पुत्र परवेश चन्द्र, परवेश चन्द्र पुत्र कृष्ण लाल, सैनी सलूजा कमारी पत्नी परवेश चन्द्र, अनुभव कुमार पुत्र सुनील कुमार, सगुन कुमार पुत्री सुशील कुमार और अन्य

				24//16/2	मिन	निजी	सिंचित	1	2	0.0556	अनिल जैन पुत्र सरदारी लाल, दीपक बजाज पुत्र श्याम लाल बजाज, रजिन्द्र परमार पुत्र लालजी राम, हरेदेव सिंह पुत्र निक्का सिंह, चन्द्र किरण जैन पुत्र राम चंद जैन, सुनीता रानी पत्नी चन्द्र किरण जैन, अभिनंदन जैन पुत्र सुशील कुमार जैन, अनिकेत जैन पुत्र भूषण कुमार और अन्य
				24//17/1	मिन	निजी	सिंचित	5	3	0.2605	अनिल जैन पुत्र सरदारी लाल, दीपक बजाज पुत्र श्याम लाल बजाज, रजिन्द्र परमार पुत्र लालजी राम, हरेदेव सिंह पुत्र निक्का सिंह, चन्द्र किरण जैन पुत्र राम चंद जैन, सुनीता रानी पत्नी चन्द्र किरण जैन, अभिनंदन जैन पुत्र सुशील कुमार जैन, अनिकेत जैन पुत्र भूषण कुमार और अन्य
				24//17/2	मिन	निजी	सिंचित	1	10	0.0759	अनिल जैन पुत्र सरदारी लाल, दीपक बजाज पुत्र श्याम लाल बजाज, रजिन्द्र परमार पुत्र लालजी राम, हरेदेव सिंह पुत्र निक्का सिंह, चन्द्र किरण जैन पुत्र राम चंद जैन, सुनीता रानी पत्नी चन्द्र किरण जैन, अभिनंदन जैन पुत्र सुशील कुमार जैन, अनिकेत जैन पुत्र भूषण कुमार और अन्य
				24//23	मिन	निजी	सिंचित	1	14	0.0860	राधिका रानी पत्नी हरीश कुमार, मोनिका रानी पत्नी ललित कुमार, हरीश कुमार पुत्र एन.डी. कुमार, ललित चापेड़ा पुत्र एन.डी. चापेड़ा, सुनील मोदी पुत्र रामसरूप, सपना मोदी पत्नी सुनील मोदी और अन्य
				24//24	मिन	निजी	सिंचित	8	0	0.4046	

				24//25	मिन	निजी	सिंचित	4	13	0.2352	25/1—अनिल जैन पुत्र सरदारी लाल, दीपक बजाज पुत्र श्याम लाल बजाज, रजिन्द्र परमार पुत्र लालजी राम, हरेदेव सिंह पुत्र निक्का सिंह, चन्द्र किरण जैन पुत्र राम चंद जैन, सुनीता रानी पत्नी चन्द्र किरण जैन, अभिनंदन जैन पुत्र सुशील कुमार जैन, अंकित जैन पुत्र भूषण कुमार और अन्य 25/2—अनिल कुमार जैन पुत्र प्रदुमन कुमार जैन
				26//3/1	मिन	निजी	सिंचित	2	6	0.1163	भगवंत सिंह पुत्र जोध सिंह
				26//3/2		निजी	सिंचित	2	8	0.1214	परमजीत कौर पत्नी सौदागर सिंह, भगवंत सिंह पुत्र जोध सिंह
				26//4	मिन	निजी	सिंचित	6	18	0.3490	परमजीत कौर पत्नी सौदागर सिंह, भगवंत सिंह पुत्र जोध सिंह
				26//5	मिन	निजी	सिंचित	6	18	0.3490	परमजीत कौर पत्नी सौदागर सिंह, भगवंत सिंह पुत्र जोध सिंह
				26//6	मिन	निजी	सिंचित	1	18	0.0961	परमजीत कौर पत्नी सौदागर सिंह, भगवंत सिंह पुत्र जोध सिंह
				26//7	मिन	निजी	सिंचित	0	9	0.0228	सुरिन्द्र कौर पत्नी अरविन्द सिंह, रणधीर सिंह पुत्र अमर सिंह, दलीप कौर पत्नी रणधीर सिंह, संदीप सिंह पुत्र रंधीर सिंह, दविन्द्रजीत कौर पत्नी जरनैल सिंह, बलदेव सिंह पुत्र रणधीर सिंह
				26//8	मिन	निजी	सिंचित	5	19	0.3010	सुरिन्द्र कौर पत्नी अरविन्द सिंह, रणधीर सिंह पुत्र अमर सिंह, दलीप कौर पत्नी रणधीर सिंह, संदीप सिंह पुत्र रंधीर सिंह, दविन्द्रजीत कौर पत्नी जरनैल सिंह, बलदेव सिंह पुत्र रणधीर सिंह
				64	मिन	सरकारी	असिंचित	0	18	0.0455	प्रोविजनल सरकार
				65	मिन	सरकारी	असिंचित	0	16	0.0405	पंचायत देह
				69	मिन	सरकारी	असिंचित	0	4	0.0101	पंचायत देह
				26//13/2	मिन	निजी	सिंचित	0	1	0.0025	पंचायत देह
				27//1	मिन	निजी	सिंचित	7	9	0.3768	जसपाल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह, कमलेश पत्नी सुभाष सैनी, सतिन्द्र कुमार पुत्र खुशी राम, श्यामसुंदर पुत्र ओमप्रकाश, मनोज कुमार पुत्र बाबू राम, शशी बाला पत्नी विजय कुमार और

											अन्य
				27//2/1	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	जसपाल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह, कमलेश पत्नी सुभाष सैनी, सतिन्द्र कुमार पुत्र खुशी राम, श्यामसुंदर पुत्र ओमप्रकाश, मनोज कुमार पुत्र बाबू राम, शशी बाला पत्नी विजय कुमार और अन्य
				58	मिन	पंचायत	पथ	0	10	0.0253	पंचायत देह
				27//9	मिन	निजी	सिंचित	0	4	0.0101	जसपाल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह, कमलेश पत्नी सुभाष सैनी, सतिन्द्र कुमार पुत्र खुशी राम, श्यामसुंदर पुत्र ओमप्रकाश, मनोज कुमार पुत्र बाबू राम, शशी बाला पत्नी विजय कुमार और अन्य
				27//10	मिन	निजी	सिंचित	5	5	0.2655	जसपाल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह, कमलेश पत्नी सुभाष सैनी, सतिन्द्र कुमार पुत्र खुशी राम, श्यामसुंदर पुत्र ओमप्रकाश, मनोज कुमार पुत्र बाबू राम, शशी बाला पत्नी विजय कुमार और अन्य
			5. बग्गा कलां	5//19	मिन	निजी	सिंचित	1	10	0.0759	प्रेम सिंह, दविन्द्र सिंह, अमर सिंह, पाल सिंह उर्फ हरपाल सिंह, सुरिन्द्र पाल उर्फ छिंदर उर्फ सुरिन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह, हरजिन्दर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह और अन्य
				5//20		निजी	सिंचित	0	17	0.0430	प्रेम सिंह, दविन्द्र सिंह, अमर सिंह, पाल सिंह उर्फ हरपाल सिंह, सुरिन्द्र पाल उर्फ छिंदर उर्फ सुरिन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह, हरजिन्दर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह और अन्य
				5//21	मिन	निजी	सिंचित	5	12	0.2832	प्रेम सिंह, दविन्द्र सिंह, अमर सिंह, पाल सिंह उर्फ हरपाल सिंह, सुरिन्द्र पाल उर्फ छिंदर उर्फ सुरिन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह, हरजिन्दर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह और अन्य

				5//22	मिन	निजी	सिंचित	1	18	0.0961	प्रेम सिंह, दविन्द्र सिंह, अमर सिंह, पाल सिंह उर्फ हरपाल सिंह, सुरिन्द्र पाल उर्फ छिंदर उर्फ सुरिन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह, हरजिन्दर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह और अन्य
				10//1	मिन	निजी	सिंचित	6	18	0.3490	प्रेम सिंह, तजिन्द्र सिंह, अमर सिंह, हरपाल सिंह पुत्र तारा सिंह, सुरिन्द्र पाल उर्फ छिंदर उर्फ सुरिन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह, हरबंस कौर विधवा गुरदेव सिंह और अन्य
				10//2	मिन	निजी	सिंचित	0	10	0.0253	प्रेम सिंह, तजिन्द्र सिंह, अमर सिंह, हरपाल सिंह पुत्र तारा सिंह, सुरिन्द्र पाल उर्फ छिंदर उर्फ सुरिन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह, हरबंस कौर विधवा गुरदेव सिंह और अन्य
				10//10/1	मिन	निजी	सिंचित	3	14	0.1871	प्रेम सिंह, तजिन्द्र सिंह, अमर सिंह, हरपाल सिंह पुत्र तारा सिंह, सुरिन्द्र पाल उर्फ छिंदर उर्फ सुरिन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह, हरबंस कौर विधवा गुरदेव सिंह और अन्य
				10//10/2	मिन	निजी	सिंचित	3	12	0.1821	बालक सिंह पुत्र हरभजन सिंह
				10//11	मिन	निजी	सिंचित	7	4	0.3642	बालक सिंह पुत्र हरभजन सिंह
				10//20/1	मिन	निजी	सिंचित	1	0	0.0506	बालक सिंह पुत्र हरभजन सिंह
				10//20/2	मिन	निजी	सिंचित	6	4	0.3136	बालक सिंह पुत्र हरभजन सिंह
				10//21/1	मिन	निजी	सिंचित	5	0	0.2529	बालक सिंह पुत्र हरभजन सिंह
				10//21/2	मिन	निजी	सिंचित	1	6	0.0658	गंडा सिंह पुत्र काकू सिंह, अंजू गुप्ता पत्नी विनोद कुमार, मंजू गुप्ता पत्नी अनिल कुमार मैर्सज जैन इन्टरप्राईजिज प्राई0 लिम0, सिंकदर सिंह पुत्र साधु सिंह, रमनीक कौर पत्नी कुलविन्दर संधा
				17//1	मिन	निजी	सिंचित	7	3	0.3616	गंडा सिंह पुत्र काकू सिंह, अंजू गुप्ता पत्नी विनोद कुमार, मंजू गुप्ता पत्नी अनिल कुमार मैर्सज जैन इन्टरप्राईजिज प्राई0 लिम0, सिंकदर सिंह पुत्र साधु सिंह, रमनीक कौर पत्नी कुलविन्दर संधा

				17//10	मिन	निजी	सिंचित	7	4	0.3642	गंडा सिंह पुत्र काकू सिंह, अंजू गुप्ता पत्नी विनोद कुमार, मंजू गुप्ता पत्नी अनिल कुमार मैसर्स जैन इन्टरप्राइजिज प्राई0 लिम0, सिंकदर सिंह पुत्र साधु सिंह, रमनीक कौर पत्नी कुलविन्दर संधा
				17//11	मिन	निजी	सिंचित	7	4	0.3642	दविन्द्र सिंह, अमर सिंह, हरपाल सिंह पुत्र तारा सिंह, बलजिन्द्र कौर पुत्री गुरदेव सिंह, हंरबस कौर विधवा गुरदेव सिंह, हरिन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह और अन्य
				17//19/1	मिन	निजी	सिंचित	0	2	0.0051	जीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह
				17//20/1	मिन	निजी	सिंचित	3	2	0.1568	दविन्द्र सिंह, अमर सिंह, हरपाल सिंह पुत्र तारा सिंह, बलजिन्द्र कौर पुत्री गुरदेव सिंह, हंरबस कौर विधवा गुरदेव सिंह, हरजिन्दर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह और अन्य
				17//20/2	मिन	निजी	सिंचित	1	2	0.0556	गुरमीत सिंह पुत्र जीत सिंह, रछपाल सिंह पुत्र जीत सिंह
				70	मिन	सरकारी	रास्ता	3	0	0.1517	ग्राम पंचायत
				17//21	मिन	निजी	सिंचित	5	16	0.2934	गुरमीत सिंह पुत्र जीत सिंह, रछपाल सिंह पुत्र जीत सिंह, जीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह
				17//22	मिन	निजी	सिंचित	1	14	0.0860	जीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह
				22//1	मिन	निजी	सिंचित	3	10	0.1770	गुरमीत सिंह पुत्र जीत सिंह, रछपाल सिंह पुत्र जीत सिंह
				22//2	मिन	निजी	सिंचित	3	15	0.1897	गुरमीत सिंह पुत्र जीत सिंह, रछपाल सिंह पुत्र जीत सिंह
				22//8	मिन	निजी	सिंचित	0	16	0.0405	8/1/1- केहर सिंह पुत्र ठाकुर सिंह, 8/1/2-केहर सिंह पुत्र ठाकुर सिंह, लोहरा सिंह पुत्र इन्दर सिंह, जीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह, 8-2 गुरदीप सिंह पुत्र चरण सिंह, अजीत सिंह पुत्र चरण सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र जीत सिंह, रछपाल सिंह पुत्र जीत सिंह
				22//9	मिन	निजी	सिंचित	7	2	0.3591	गुरदीप सिंह पुत्र चरण सिंह, अजीत सिंह पुत्र चरण सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र जीत सिंह, रछपाल सिंह पुत्र जीत सिंह
				22//10	मिन	निजी	सिंचित	0	13	0.0329	गुरमीत सिंह पुत्र जीत सिंह, रछपाल सिंह पुत्र जीत सिंह

				22//12	मिन	निजी	सिंचित	3	8	0.1720	गुरदीप सिंह पुत्र चरण सिंह, अजीत सिंह पुत्र चरण सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र जीत सिंह, रछपाल सिंह पुत्र जीत सिंह
				22//13	मिन	निजी	सिंचित	5	12	0.2832	गुरदीप सिंह पुत्र चरण सिंह, अजीत सिंह पुत्र चरण सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र जीत सिंह, रछपाल सिंह पुत्र जीत सिंह
				22//14	मिन	निजी	सिंचित	0	1	0.0025	गुरदीप सिंह पुत्र चरण सिंह, अजीत सिंह पुत्र चरण सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र जीत सिंह, रछपाल सिंह पुत्र जीत सिंह
				22//17	मिन	निजी	सिंचित	3	8	0.1720	ग्राम पंचायत कास्त जीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह
				22//18	मिन	निजी	सिंचित	6	0	0.3035	गुरमीत सिंह पुत्र जीत सिंह रछपाल सिंह पुत्र जीत सिंह
				22//23	मिन	निजी	सिंचित	0	19	0.0481	गुरमीत सिंह पुत्र जीत सिंह रछपाल सिंह पुत्र जीत सिंह
				22//24	मिन	निजी	सिंचित	6	14	0.3389	ग्राम पंचायत कास्त जीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह
				22//25	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, समरीत कौर पुत्री मनरुप कौर, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह
				28//1	मिन	निजी	सिंचित	0	3	0.0076	गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, समरीत कौर पुत्री मनरुप कौर, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह
				28//10	मिन	निजी	सिंचित	4	4	0.2124	गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, समरीत कौर पुत्री मनरुप कौर, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह
				28//11	मिन	निजी	सिंचित	7	10	0.3794	गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, समरीत कौर पुत्री मनरुप कौर, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह
				28//12	मिन	निजी	सिंचित	1	8	0.0708	12/1— गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, समरीत कौर पुत्री मनरुप कौर, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह, 12/2— बिन्दरपाल सिंह पुत्र जसवीर सिंह, इंदरपाल सिंह, जगमोहन सिंह पुत्र संदर सिंह व अन्य



				28//19	मिन	निजी	सिंचित	5	16	0.2934	गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, समरीत कौर पुत्री मनरुप कौर, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह
				28//20	मिन	निजी	सिंचित	2	8	0.1214	गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, समरीत कौर पुत्री मनरुप कौर, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह
				28//22	मिन	निजी	सिंचित	5	2	0.2580	गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, समरीत कौर पुत्री मनरुप कौर, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह
				28//23	मिन	निजी	सिंचित	2	0	0.1012	गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, समरीत कौर पुत्री मनरुप कौर, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह
				29//4	मिन	निजी	सिंचित	1	16	0.0910	गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, समरीत कौर पुत्री मनरुप कौर, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह
				29//6	मिन	निजी	सिंचित	5	4	0.2630	गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, समरीत कौर पुत्री मनरुप कौर, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह
				29//15	मिन	निजी	सिंचित	0	10	0.0253	बलबीर सिंह पुत्र तख्त सिंह, अनूप राज सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह
				35//2	मिन	निजी	सिंचित	2	14	0.1366	गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, समरीत कौर पुत्री मनरुप कौर, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह
				35//3	मिन	निजी	सिंचित	4	2	0.2074	गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, समरीत कौर पुत्री मनरुप कौर, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह
				35//8	मिन	निजी	सिंचित	4	16	0.2428	ग्राम पंचायत
				35//9	मिन	निजी	सिंचित	1	16	0.0910	ग्राम पंचायत
				35//12	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	ग्राम पंचायत
				35//13	मिन	निजी	सिंचित	4	18	0.2478	ग्राम पंचायत
				35//18	मिन	निजी	सिंचित	4	16	0.2428	सुखदेव कौर विधवा हरनेक सिंह, मनजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह, उदो सिंह पुत्र राम सिंह, गुरमेज सिंह पुत्र बावा सिंह, जसवंत कौर विधवा निर्मल सिंह, वहादुर सिंह पुत्र उदो सिंह

				35//19/1	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	सुखदेव कौर विधवा हरनेक सिंह, मनजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह, गुरमेज सिंह पुत्र बाबा सिंह, जसवंत कौर विधवा निर्मल सिंह
				35//22	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	सुखदेव कौर विधवा हरनेक सिंह, मनजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह, उदो सिंह पुत्र राम सिंह, गुरमेज सिंह पुत्र बाबा सिंह, जसवंत कौर विधवा निर्मल सिंह
				35//23	मिन	निजी	सिंचित	4	16	0.2428	सुखदेव कौर विधवा हरनेक सिंह, मनजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह, उदो सिंह पुत्र राम सिंह, गुरमेज सिंह पुत्र बाबा सिंह, जसवंत कौर विधवा निर्मल सिंह, वहादुर सिंह पुत्र उदो सिंह
				40//2	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	सुखदेव कौर विधवा हरनेक सिंह, मनजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह, गुरमेज सिंह पुत्र बाबा सिंह, जसवंत कौर विधवा निर्मल सिंह
				40//3	मिन	निजी	सिंचित	4	16	0.2428	सुखदेव कौर विधवा हरनेक सिंह, मनजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह, उदो सिंह पुत्र राम सिंह, गुरमेज सिंह पुत्र बाबा सिंह, जसवंत कौर विधवा निर्मल सिंह, वहादुर सिंह पुत्र उदो सिंह
				40//8	मिन	निजी	सिंचित	4	11	0.2301	सुखदेव कौर विधवा हरनेक सिंह, मनजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह, उदो सिंह पुत्र राम सिंह, गुरमेज सिंह पुत्र बाबा सिंह, जसवंत कौर विधवा निर्मल सिंह, वहादुर सिंह पुत्र उदो सिंह
				40//9/1	मिन	निजी	सिंचित	0	12	0.0303	सुखदेव कौर विधवा हरनेक सिंह, मनजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह, उदो सिंह पुत्र राम सिंह, गुरमेज सिंह पुत्र बाबा सिंह, जसवंत कौर विधवा निर्मल सिंह, वहादुर सिंह पुत्र उदो सिंह
				40//9/2	मिन	निजी	सिंचित	1	0	0.0506	अनूप राज सिंह पुत्र रविन्दर सिंह, बलवीर सिंह पुत्र तख्त सिंह, मन्तव सिंह पुत्र मनरूप सिंह, सीमरत कौर पुत्री मनरूप, गुरदेव कौर माता मनरूप सिंह, मोहन सिंह पुत्र अमर कौर, कुलदीप कौर पुत्र अमर कौर, शकुतला देवी पत्नी जओपती राम और अन्य

				40//12	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	अनूप राज सिंह पुत्र रविन्दर सिंह, बलवीर सिंह पुत्र तख्त सिंह, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, सीमरत कौर पुत्री मनरुप, गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, मोहन सिंह पुत्र अमर कौर, कुलदीप कौर पुत्र अमर कौर, शंकुतला देवी पत्नी जओपती राम और अन्य
				40//13/1		निजी	सिंचित	3	12	0.1821	अनूप राज सिंह पुत्र रविन्दर सिंह, बलवीर सिंह पुत्र तख्त सिंह, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, सीमरत कौर पुत्री मनरुप, गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, मोहन सिंह पुत्र अमर कौर, कुलदीप कौर पुत्र अमर कौर, शंकुतला देवी पत्नी जओपती राम और अन्य
				40//13/2	मिन	निजी	सिंचित	1	4	0.0607	अनूप राज सिंह पुत्र रविन्दर सिंह, बलवीर सिंह पुत्र तख्त सिंह, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, सीमरत कौर पुत्री मनरुप, गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, मोहन सिंह पुत्र अमर कौर, कुलदीप कौर पुत्र अमर कौर, शंकुतला देवी पत्नी जओपती राम और अन्य
				40//18	मिन	निजी	सिंचित	4	16	0.2428	अनूप राज सिंह पुत्र रविन्दर सिंह, बलवीर सिंह पुत्र तख्त सिंह, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, सीमरत कौर पुत्री मनरुप, गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, मोहन सिंह पुत्र अमर कौर, कुलदीप कौर पुत्र अमर कौर, शंकुतला देवी पत्नी जओपती राम और अन्य
				40//19	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	अनूप राज सिंह पुत्र रविन्दर सिंह, बलवीर सिंह पुत्र तख्त सिंह, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, सीमरत कौर पुत्री मनरुप, गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, मोहन सिंह पुत्र अमर कौर, कुलदीप कौर पुत्र अमर कौर, शंकुतला देवी पत्नी जओपती राम और अन्य

				40//22	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	अनूप राज सिंह पुत्र रविन्दर सिंह, बलवीर सिंह पुत्र तख्त सिंह, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, सीमरत कौर पुत्री मनरुप, गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, मोहन सिंह पुत्र अमर कौर, कुलदीप कौर पुत्र अमर कौर, शंकुतला देवी पत्नी जओपती राम और अन्य
				40//23	मिन	निजी	सिंचित	4	16	0.2428	अनूप राज सिंह पुत्र रविन्दर सिंह, बलवीर सिंह पुत्र तख्त सिंह, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, सीमरत कौर पुत्री मनरुप, गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, मोहन सिंह पुत्र अमर कौर, कुलदीप कौर पुत्र अमर कौर, शंकुतला देवी पत्नी जओपती राम और अन्य
				47//2/2	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	अनूप राज सिंह पुत्र रविन्दर सिंह, बलवीर सिंह पुत्र तख्त सिंह, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, मोहन सिंह पुत्र अमर कौर, कुलदीप कौर पुत्र अमर कौर, कुलदीप सिंह पुत्र अमर सिंह, सुरिन्द्र कौर पत्नी सुरिन्द्रपाल सिंह, वरिन्द्र कुमार पुत्र वेद प्रकाश और अन्य
				47//3/1	मिन	निजी	सिंचित	2	0	0.1012	अनूप राज सिंह पुत्र रविन्दर सिंह, बलवीर सिंह पुत्र तख्त सिंह, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, सिमरत कौर पुत्री मनरुप, गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, मोहन सिंह पुत्र अमर कौर, कुलदीप कौर पुत्र अमर कौर, शकुन्तला देवी पत्नी जैपती राम और अन्य
				47//3/2	मिन	निजी	सिंचित	2	11	0.1290	गुरचरण सिंह पुत्र मान सिंह, हरकमल कौर पत्नी दवेन्दर सिंह, अरविन्दर कौर पत्नी संदीपपाल सिंह, जसकरन कौर पुत्री जितेन्दर सिंह, गुरकमल कौर पुत्री जगत सिंह
				47//8	मिन	निजी	सिंचित	4	16	0.2428	अनूप राज सिंह पुत्र रविन्दर सिंह, बलवीर सिंह पुत्र तख्त सिंह, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, सिमरत कौर पुत्री मनरुप, गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, मोहन सिंह पुत्र अमर कौर, कुलदीप कौर पुत्र अमर कौर, शकुन्तला देवी पत्नी जैपती राम और अन्य
				47//9	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	अनूप राज सिंह पुत्र रविन्दर सिंह, बलवीर सिंह पुत्र तख्त सिंह, मन्तव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, सिमरत कौर पुत्री मनरुप, गुरदेव कौर माता मनरुप सिंह, मोहन सिंह पुत्र अमर कौर, कुलदीप कौर पुत्र अमर कौर, शकुन्तला देवी पत्नी जैपती राम और अन्य

											शकुन्तला देवी पत्नी जैपती राम और अन्य
				47//12/1	मिन	निजी	सिंचित	1	10	0.0759	परमिन्दर सिंह पुत्र अजैब सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र अजैब सिंह
				47//12/2	मिन	निजी	सिंचित	0	2	0.0051	अजैब सिंह पुत्र संता सिंह
				47//13/1	मिन	निजी	सिंचित	1	7	0.0683	प्रितपाल सिंह, करनैल सिंह, त्रिलोचन सिंह पुत्र हरचंद सिंह, दविन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह, वरिन्द्रपाल पुत्र मेजर सिंह
				47//13/2	मिन	निजी	सिंचित	0	16	0.0405	अनूप सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह, बलवीर सिंह पुत्र तखत सिंह, मनतव सिंह पुत्र मनरुप सिंह, सिमरत कौर पुत्री मनरुप, गुरदेव सिंह, मोहन सिंह पुत्र अमर कौर, कुलदीप कौर पुत्र अमर कौर, शकुन्तला देवी पत्नी जैपती राम और अन्य
				47//18	मिन	निजी	सिंचित	4	16	0.2428	परमिन्दर सिंह पुत्र अजैब सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र अजैब सिंह
				47//19	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	परमिन्दर सिंह पुत्र अजैब सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र अजैब सिंह
				47//22	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	परमिन्दर सिंह पुत्र अजैब सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र अजैब सिंह
				47//23	मिन	निजी	सिंचित	4	16	0.2428	परमिन्दर सिंह पुत्र अजैब सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र अजैब सिंह
				51//2	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	परमिन्दर सिंह पुत्र अजैब सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र अजैब सिंह
				51//3	मिन	निजी	सिंचित	4	16	0.2428	परमिन्दर सिंह पुत्र अजैब सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र अजैब सिंह
				51//8	मिन	निजी	सिंचित	3	4	0.1619	परमिन्दर सिंह पुत्र अजैब सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र अजैब सिंह
				51//9	मिन	निजी	सिंचित	0	18	0.0455	परमिन्दर सिंह पुत्र अजैब सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र अजैब सिंह
				66	मिन	सरकारी	असिंचित	1	4	0.0607	ग्राम पंचायत
		6. चाहड़		5//16	मिन	निजी	सिंचित	2	16	0.1416	गुरनाम सिंह पुत्र फौजा सिंह, शमशेर सिंह पुत्र देलर सिंह, गुरदेव सिंह पुत्र दलेर सिंह, जंगीर सिंह पुत्र अमर सिंह, प्रसन्न सिंह पुत्र अमर सिंह, प्यारा सिंह पुत्र गुलाब सिंह और अन्य

				5//17	मिन	निजी	सिंचित	3	10	0.1770	गुरनाम सिंह पुत्र फौजा सिंह, शमशेर सिंह पुत्र देलर सिंह, गुरदेव सिंह पुत्र दलेर सिंह, जंगीर सिंह पुत्र अमर सिंह, प्रसन्न सिंह पुत्र अमर सिंह, प्यारा सिंह पुत्र गुलाब सिंह और अन्य
				5//22	मिन	निजी	सिंचित	0	6	0.0152	हरभजन सिंह पुत्र गुरबचन सिंह, इन्द्र सिंह पुत्र गुरमुख सिंह, जोगिन्दर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह, सतनाम सिंह पुत्र गुरमुख सिंह, प्यारा कौर पत्नी संता सिंह और अन्य
				5//23/1	मिन	निजी	सिंचित	0	1	0.0025	जोगिन्द्र सिंह, इन्द्र सिंह, सतनाम सिंह पुत्र गुरमुख सिंह, गंगा राम पुत्र गुलाब सिंह, गुरनाम सिंह पुत्र फौजी सिंह और अन्य
				5//23/2	मिन	निजी	सिंचित	1	8	0.0708	गुरनाम सिंह पुत्र फौजा सिंह, शमशेर सिंह पुत्र देलर सिंह, गुरदेव सिंह पुत्र दलेर सिंह, जंगीर सिंह पुत्र अमर सिंह, प्रसन्न सिंह पुत्र अमर सिंह, प्यारा सिंह पुत्र गुलाब सिंह और अन्य
				5//24	मिन	निजी	सिंचित	7	0	0.3541	गुरनाम सिंह पुत्र फौजा सिंह, शमशेर सिंह पुत्र देलर सिंह, गुरदेव सिंह पुत्र दलेर सिंह, जंगीर सिंह पुत्र अमर सिंह, प्रसन्न सिंह पुत्र अमर सिंह, प्यारा सिंह पुत्र गुलाब सिंह और अन्य
				5//25	मिन	निजी	सिंचित	0	14	0.0354	गुरनाम सिंह पुत्र फौजा सिंह, शमशेर सिंह पुत्र देलर सिंह, गुरदेव सिंह पुत्र दलेर सिंह, जंगीर सिंह पुत्र अमर सिंह, प्रसन्न सिंह पुत्र अमर सिंह, प्यारा सिंह पुत्र गुलाब सिंह और अन्य
				10//15		निजी	सिंचित	3	12	0.1821	गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह, हरमेल सिंह पुत्र दलीप सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी नामा राम
				10//16/1	मिन	निजी	सिंचित	6	12	0.3338	गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह, हरमेल सिंह पुत्र दलीप सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी नामा राम

				10//16/2		निजी	सिंचित	0	4	0.0101	गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरजीत सिंह, हरमेल सिंह पुत्र दलीप सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी नामा राम
				10//17		निजी	सिंचित	1	10	0.0759	गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरजीत सिंह, हरमेल सिंह पुत्र दलीप सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी नामा राम
				10//23		निजी	सिंचित	0	6	0.0152	अमरजीत सिंह पुत्र नत्था सिंह
				10//24	मिन	निजी	सिंचित	6	16	0.3439	अमरजीत सिंह पुत्र नत्था सिंह, रजिन्द्र कौर पुत्री बंता सिंह
				10//25	मिन	निजी	सिंचित	8	0	0.4046	अमरजीत सिंह पुत्र नत्था सिंह
				31	मिन	सरकारी	रास्ता	1	16	0.0910	सामलात देह
				11//1		निजी	सिंचित	0	15	0.0379	अमर सिंह पुत्र निहाल सिंह, गुरनाम सिंह, महिन्द्र सिंह, ज्ञान सिंह, बलविन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह
				11//2/1	मिन	निजी	सिंचित	3	1	0.1543	गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरजीत सिंह, नवजोत कौर पुत्री गुरजीत सिंह, गुरकीरत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह, तविन्द्र सिंह पुत्र मनमोहन सिंह, नवप्रीत कौर पुत्री मनमोहन सिंह, प्रीतम सिंह पुत्री गुरमुख सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी कमल कुमार व अन्य
				11//2/2	मिन	निजी	सिंचित	3	8	0.1720	सेवा सिंह पुत्र धर्म सिंह, रंजीत सिंह पुत्र सेवा सिंह, सुरिन्द्र कौर विधवा सेवा सिंह, हरभजन सिंह पुत्र गंगा सिंह, गुरबचन सिंह पुत्र गंगा सिंह, जोधा सिंह पुत्र करनैल सिंह
				11//3	मिन	निजी	सिंचित	7	1	0.3566	गुरनाम सिंह पुत्र फौजा सिंह, शमशेर सिंह पुत्र दलेर सिंह, गुरदेव सिंह पुत्र दलेर सिंह, जंगीर सिंह पुत्र अमर सिंह, प्रसन्न सिंह पुत्र अमर सिंह, प्यारा सिंह पुत्र गुलाब सिंह और अन्य

				11//4	मिन	निजी	सिंचित	2	4	0.1113	4/1— गुरनाम सिंह पुत्र फौजा सिंह, शमशेर सिंह पुत्र दलेर सिंह, गुरदेव सिंह पुत्र दलेर सिंह, जंगीर सिंह पुत्र अमर सिंह, प्रसन्न सिंह पुत्र अमर सिंह, प्यारा सिंह पुत्र गलाब सिंह और अन्य, 4/2— शेर सिंह पुत्र रोला सिंह
				11//7	मिन	निजी	सिंचित	2	12	0.1315	शेर सिंह पुत्र रोला सिंह
				11//8/1		निजी	सिंचित	4	0	0.2023	गुरनाम सिंह पुत्र फौजा सिंह, शमशेर सिंह पुत्र दलेर सिंह, गुरदेव सिंह पुत्र दलेर सिंह, जंगीर सिंह पुत्र अमर सिंह, प्रसन्न सिंह पुत्र अमर सिंह, प्यारा सिंह पुत्र गलाब सिंह और अन्य
				11//8/2		निजी	सिंचित	3	4	0.1619	सुचा सिंह, प्रीतम सिंह, इन्दर सिंह, जोगिन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, सतनाम सिंह पुत्रान गुरमुख सिंह
				11//9		निजी	सिंचित	8	0	0.4046	गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरजीत सिंह, नवजोत कौर पुत्री गुरजीत सिंह, गुरकीरत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह, तविन्द्र सिंह पुत्र मनमोहन सिंह, नवप्रीत कौर पुत्री मनमोहन सिंह, प्रीतम सिंह पुत्री गुरमुख सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी कमल कुमार व अन्य
				11//10	मिन	निजी	सिंचित	5	15	0.2908	गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरजीत सिंह, नवजोत कौर पुत्री गुरजीत सिंह, गुरकीरत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह, तविन्द्र सिंह पुत्र मनमोहन सिंह, नवप्रीत कौर पुत्री मनमोहन सिंह, प्रीतम सिंह पुत्री गुरमुख सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी कमल कुमार व अन्य
				11//11		निजी	सिंचित	8	0	0.4046	गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह, हरमेल सिंह पुत्र दलीप सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी नामा राम
				11//12		निजी	सिंचित	8	0	0.4046	गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह, हरमेल सिंह पुत्र दलीप सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी नामा राम



				11//13	मिन	निजी	सिंचित	7	5	0.3667	13/1- गुरमुख सिंह पुत्र निहाल सिंह, 13/2- गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरजीत सिंह, हरमेल सिंह पुत्र दलीप सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी नामा राम
				11//14/1	मिन	निजी	सिंचित	0	5	0.0126	गुरमुख सिंह पुत्र निहाल
				11//14/2	मिन	निजी	सिंचित	0	5	0.0126	शेर सिंह पुत्र रोला सिंह
				11//18	मिन	निजी	सिंचित	2	3	0.1087	गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह, हरमेल सिंह पुत्र दलीप सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी नामा राम
				11//19/1	मिन	निजी	सिंचित	7	6	0.3692	तविन्द्र सिंह पुत्र मनमोहन सिंह, गुरविन्द्र कौर पुत्र गुरजीत सिंह, गुरकीरत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी कमल कुमार और अन्य
				11//19/2		निजी	सिंचित	0	12	0.0303	गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह, हरमेल सिंह पुत्र दलीप सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी नामा राम
				11//20		निजी	सिंचित	8	0	0.4046	गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह, हरमेल सिंह पुत्र दलीप सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी नामा राम
				11//21		निजी	सिंचित	8	0	0.4046	गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरजीत सिंह, नवजोत कौर पुत्री गुरजीत सिंह, गुरकीरत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह, तविन्द्र सिंह पुत्र मनमोहन सिंह, नवप्रीत कौर पुत्री मनमोहन सिंह, प्रीतम सिंह पुत्री गुरमुख सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी कमल कुमार व अन्य
				11//22	मिन	निजी	सिंचित	4	12	0.2327	गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह, नवजोत कौर पुत्री गुरजीत सिंह, हरकीरत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह, तविन्द्र सिंह पुत्र मनमोहन सिंह, प्रीतम सिंह पुत्र गुरमुख सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम और अन्य

				13-14//1	मिन	निजी	सिंचित	6	15	0.3414	1/1— हरमेल सिंह पुत्र दलीप सिंह, 1/2—गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरजीत सिंह, नवजोत कौर पुत्री गुरजीत सिंह, गुरकीरत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह, तविन्द्र सिंह पुत्र मनमोहन सिंह, नवप्रीत कौर पुत्री मनमोहन सिंह, प्रीतम सिंह पुत्री गुरमुख सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी कमल कुमार व अन्य
				13-14//2	मिन	निजी	सिंचित	0	6	0.0152	2/1— हरमेल सिंह पुत्र दलीप सिंह, 2/2—गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरजीत सिंह, नवजोत कौर पुत्री गुरजीत सिंह, गुरकीरत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह, तविन्द्र सिंह पुत्र मनमोहन सिंह, नवप्रीत कौर पुत्री मनमोहन सिंह, प्रीतम सिंह पुत्री गुरमुख सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी कमल कुमार व अन्य
				13-14//10	मिन	निजी	सिंचित	1	10	0.0759	हरमेल सिंह पुत्र दलीप सिंह
				15//3	मिन	निजी	सिंचित	0	4	0.0101	अमरजीत सिंह पुत्र नत्था सिंह
				15//4	मिन	निजी	सिंचित	6	4	0.3136	अमरजीत सिंह पुत्र नत्था सिंह
				15//5		निजी	सिंचित	8	0	0.4046	5/1— हरमेल सिंह पुत्र दलीप सिंह, 5/2—गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरजीत सिंह, नवजोत कौर पुत्री गुरजीत सिंह, गुरकीरत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह, तविन्द्र सिंह पुत्र मनमोहन सिंह, नवप्रीत कौर पुत्री मनमोहन सिंह, प्रीतम सिंह पुत्री गुरमुख सिंह, कमल कुमार पुत्र नामा राम, जंगीर कौर पत्नी कमल कुमार व अन्य
				15//6	मिन	निजी	सिंचित	3	18	0.1973	अमरजीत सिंह पुत्र नत्था सिंह
				15//7	मिन	निजी	सिंचित	6	18	0.3490	अमरजीत सिंह पुत्र नत्था सिंह
				15//8	मिन	निजी	सिंचित	1	5	0.0632	अमरजीत सिंह पुत्र नत्था सिंह

				15//12	मिन	निजी	सिंचित	0	3	0.0076	परमजीत सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, बहादुर सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, हरमिन्द्र कौर विधवा दलवीर सिंह, चसप्रीत सिंह, जसजीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह, पिरतपाल कौर पुत्री दलवीर सिंह
				15//13	मिन	निजी	सिंचित	6	4	0.3136	परमजीत सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, बहादुर सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, हरमिन्द्र कौर विधवा दलवीर सिंह, चसप्रीत सिंह, जसजीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह, पिरतपाल कौर पुत्री दलवीर सिंह
				15//14	मिन	निजी	सिंचित	2	12	0.1315	परमजीत सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, बहादुर सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, हरमिन्द्र कौर विधवा दलवीर सिंह, चसप्रीत सिंह, जसजीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह, पिरतपाल कौर पुत्री दलवीर सिंह
				15//18	मिन	निजी	सिंचित	5	0	0.2529	जसजीत सिंह पुत्र दलवीर सिंह, परमजीत सिंह, बहादुर सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, पिरतपाल कौर पुत्री दलवीर सिंह, चसप्रीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह, हरमिन्द्र कौर विधवा दलवीर सिंह
				15//19	मिन	निजी	सिंचित	4	8	0.2226	
				15//21	मिन	निजी	सिंचित	2	6	0.1163	परमजीत सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, बहादुर सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, हरमिन्द्र कौर विधवा दलवीर सिंह, चसप्रीत सिंह, जसजीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह, पिरतपाल कौर पुत्री दलवीर सिंह
				15//22	मिन	निजी	सिंचित	6	16	0.3439	परमजीत सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, बहादुर सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, हरमिन्द्र कौर विधवा दलवीर सिंह, चसप्रीत सिंह, जसजीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह, पिरतपाल कौर पुत्री दलवीर सिंह
				15//23	मिन	निजी	सिंचित	0	8	0.0202	परमजीत सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, बहादुर सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, हरमिन्द्र कौर विधवा दलवीर सिंह, चसप्रीत सिंह, जसजीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह, पिरतपाल कौर पुत्री दलवीर सिंह

				21//5	मिन	निजी	सिंचित	0	17	0.0430	जसजीत सिंह पुत्र दलवीर सिंह, परमजीत सिंह, बहादुर सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, पिरतपाल कौर पुत्री दलवीर सिंह, चसप्रीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह, हरमिन्द्र कौर विधवा दलवीर सिंह
				21//6	मिन	निजी	सिंचित	5	14	0.2883	हरगुरपाल सिंह पुत्र गुरचरन सिंह
				21//7	मिन	निजी	सिंचित	0	2	0.0051	जगजीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह
				21//14	मिन	निजी	सिंचित	4	0	0.2023	जगजीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह
				21//15	मिन	निजी	सिंचित	5	4	0.2630	हरगुरपाल सिंह पुत्र गुरचरन सिंह
				21//16	मिन	निजी	सिंचित	0	10	0.0253	गुरसिमरनजीत एगरो फार्म प्राईवेट लिम0, अरविन्द्र कौर पुत्री हरगुपाल सिंह, जसपाल कौर पुत्री हरगुपाल सिंह
				21//17	मिन	निजी	सिंचित	6	17	0.3465	गुरसिमरनजीत एगरो फार्म प्राईवेट लिम0, अरविन्द्र कौर पुत्री हरगुपाल सिंह, जसपाल कौर पुत्री हरगुपाल सिंह
				21//18	मिन	निजी	सिंचित	1	7	0.0683	गुरसिमरनजीत एगरो फार्म प्राईवेट लिम0, अरविन्द्र कौर पुत्री हरगुपाल सिंह, जसपाल कौर पुत्री हरगुपाल सिंह
				21//23	मिन	निजी	सिंचित	5	18	0.2984	गुरसिमरनजीत एगरो फार्म प्राईवेट लिम0, अरविन्द्र कौर पुत्री हरगुपाल सिंह, जसपाल कौर पुत्री हरगुपाल सिंह
				21//24	मिन	निजी	सिंचित	2	8	0.1214	गुरसिमरनजीत एगरो फार्म प्राईवेट लिम0, अरविन्द्र कौर पुत्री हरगुपाल सिंह, जसपाल कौर पुत्री हरगुपाल सिंह
				22//1	मिन	निजी	सिंचित	7	0	0.3541	जसजीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह, परमजीत सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, बहादुर सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, प्रितपाल कौर पुत्री दलबीर सिंह, चसप्रीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह, हरमिन्द्र कौर विधवा दलबीर सिंह
				22//2	मिन	निजी	सिंचित	1	10	0.0759	जसजीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह, परमजीत सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, बहादुर सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, प्रितपाल कौर पुत्री दलबीर सिंह, चसप्रीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह, हरमिन्द्र कौर विधवा दलबीर सिंह
				22//10	मिन	निजी	सिंचित	2	10	0.1265	हरगुरपाल सिंह पुत्र

											गुरचरन सिंह
				25//2	मिन	निजी	सिंचित	2	6	0.1163	बलजीत सिंह, सुखराज सिंह पुत्र सिकन्दर सिंह, जंगीर कौर विधवा सिकंदर सिंह
				25//3	मिन	निजी	सिंचित	6	0	0.3035	महिन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह, बलजीत सिंह, सुखराज सिंह, जंगीर सिंह पुत्र सिकन्दर सिंह,
				25//8	मिन	निजी	सिंचित	2	4	0.1113	बलजीत सिंह, सुखराज सिंह पुत्र सिकन्दर सिंह, जंगीर कौर विधवा सिकंदर सिंह
				25//9	मिन	निजी	सिंचित	6	0	0.3035	बलजीत सिंह, सुखराज सिंह पुत्र सिकन्दर सिंह, जंगीर कौर विधवा सिकंदर सिंह
				25//11	मिन	निजी	सिंचित	0	18	0.0455	करनैल सिंह पुत्र सरवन सिंह
				25//12	मिन	निजी	सिंचित	7	0	0.3541	करनैल सिंह पुत्र सरवन सिंह
				25//20	मिन	निजी	सिंचित	2	9	0.1239	महिन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह
				35	मिन	सरकारी	रास्ता	1	0	0.0506	सामलात देह
			7. अलोवाल	57//7	मिन	सरकारी	सिंचित	4	8	0.2226	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				57//13	मिन	सरकारी	सिंचित	0	19	0.0481	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				57//14	मिन	सरकारी	सिंचित	7	10	0.3794	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				57//17	मिन	सरकारी	सिंचित	3	0	0.1517	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				57//18	मिन	सरकारी	सिंचित	6	3	0.3111	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				57//19	मिन	सरकारी	सिंचित	0	2	0.0051	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				57//22	मिन	सरकारी	सिंचित	4	4	0.2124	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				57//23	मिन	सरकारी	सिंचित	5	2	0.258	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				58//1	मिन	सरकारी	सिंचित	2	3	0.1087	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				58//2	मिन	सरकारी	सिंचित	6	16	0.3439	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				58//3	मिन	सरकारी	सिंचित	0	9	0.0228	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				58//9	मिन	सरकारी	सिंचित	1	13	0.0835	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				58//10	मिन	सरकारी	सिंचित	7	0	0.3541	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				58//11	मिन	सरकारी	सिंचित	3	18	0.1973	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना

				58//20	मिन	सरकारी	सिंचित	0	2	0.0051	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				59//6	मिन	सरकारी	सिंचित	0	12	0.0303	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				59//14	मिन	सरकारी	सिंचित	0	1	0.0025	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				59//15	मिन	सरकारी	सिंचित	2	9	0.1239	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				59//16	मिन	सरकारी	सिंचित	3	6	0.1669	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
			8. शोल्ले	26//16	मिन	सरकारी	सिंचित	0	13	0.0329	पंजाब पुलिस विभाग
				26//24	मिन	सरकारी	सिंचित	1	1	0.0531	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				26//25	मिन	सरकारी	सिंचित	6	19	0.3515	पंजाब पुलिस विभाग
				27//6	मिन	सरकारी	सिंचित	3	9	0.1745	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				27//7	मिन	सरकारी	सिंचित	1	1	0.0531	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				27//12	मिन	सरकारी	सिंचित	1	17	0.0936	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				27//13	मिन	सरकारी	सिंचित	5	16	0.2934	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				27//14	मिन	सरकारी	सिंचित	7	5	0.3667	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				27//15	मिन	सरकारी	सिंचित	4	16	0.2428	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				27//17	मिन	सरकारी	सिंचित	0	3	0.0076	पंजाब पुलिस विभाग
				27//18	मिन	सरकारी	सिंचित	2	13	0.1340	पंजाब पुलिस विभाग
				27//19	मिन	सरकारी	सिंचित	6	15	0.3414	पंजाब पुलिस विभाग
				27//20	मिन	सरकारी	सिंचित	5	2	0.2580	पंजाब पुलिस विभाग
				27//21	मिन	सरकारी	सिंचित	4	7	0.2200	पंजाब पुलिस विभाग
				27//22	मिन	सरकारी	सिंचित	0	4	0.0101	पंजाब पुलिस विभाग
				28//6	मिन	सरकारी	सिंचित	4	10	0.2276	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				28//7	मिन	सरकारी	सिंचित	6	16	0.3439	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				28//8/1	मिन	सरकारी	सिंचित	0	6	0.0152	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				28//8/2	मिन	सरकारी	सिंचित	0	6	0.0152	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				28//9/1	मिन	सरकारी	सिंचित	2	2	0.1062	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन

				28/9/2		सरकारी	सिंचित	4	0	0.2023	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				28/10	मिन	सरकारी	सिंचित	3	16	0.1922	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				28/11	मिन	सरकारी	सिंचित	4	7	0.2200	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				28/12	मिन	सरकारी	सिंचित	2	0	0.1012	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				28/13	मिन	सरकारी	सिंचित	1	9	0.0733	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				28/14	मिन	सरकारी	सिंचित	1	13	0.0835	पंजाब लैंड दीवाल स्माल एंड राईकलोमिशन कारपोरेशन
				32/4	मिन	सरकारी	सिंचित	6	17	0.3465	4/1- अशोक कुमार पुत्र सूरजभान, 4/2- पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना।
				32/5	मिन	सरकारी	सिंचित	3	2	0.1568	पंजाब पुलिस विभाग
				32/19/2	मिन	सरकारी	असिंचित	1	9	0.0733	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				38/1	मिन	सरकारी	रास्ता	0	13	0.0329	सैन्ट्रल सरकार
				32/21	मिन	सरकारी	सिंचित	6	9	0.3262	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				32/22	मिन	सरकारी	सिंचित	1	12	0.0809	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				39/1	मिन	सरकारी	रास्ता	0	6	0.0152	सैन्ट्रल सरकार
				40/1	मिन	सरकारी	रास्ता	0	10	0.0253	सैन्ट्रल सरकार
				33/25	मिन	सरकारी	सिंचित	0	15	0.0379	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				34/5	मिन	सरकारी	सिंचित	5	3	0.2605	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				34/6	मिन	सरकारी	सिंचित	4	7	0.2200	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				34/15	मिन	सरकारी	सिंचित	0	2	0.0051	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				35/1	मिन	सरकारी	सिंचित	3	12	0.1821	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
				35/10	मिन	सरकारी	सिंचित	0	1	0.0025	पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना
			9. मानेवाल	6/10	मिन	निजी	सिंचित	2	10	0.1265	जसप्रीत कौर पत्नी वाहीगुरुपाल सिंह, रुपिन्द्र सिंह पुत्र चरणजीत सिंह
				6/11	मिन	निजी	सिंचित	3	12	0.1821	जसप्रीत कौर पत्नी वाहीगुरुपाल सिंह, रुपिन्द्र सिंह पुत्र चरणजीत सिंह

				7//6	मिन	निजी	सिंचित	3	2	0.1568	जसप्रीत कौर पत्नी वाहीगुरुपाल सिंह, रुपिन्द्र सिंह पुत्र चरणजीत सिंह
				7//7	मिन	निजी	सिंचित	4	0	0.2023	जसप्रीत कौर पत्नी वाहीगुरुपाल सिंह, रुपिन्द्र सिंह पुत्र चरणजीत सिंह
				7//8	मिन	निजी	सिंचित	4	16	0.2428	जसप्रीत कौर पत्नी वाहीगुरुपाल सिंह, रुपिन्द्र सिंह पुत्र चरणजीत सिंह
				7//9	मिन	निजी	सिंचित	5	9	0.2757	पंजाब लैंड डेवलपमेंट एंड राईकलोमिशन लिम0 लाडोवाल
				7//10	मिन	निजी	सिंचित	5	18	0.2984	पंजाब लैंड डेवलपमेंट एंड राईकलोमिशन लिम0 लाडोवाल
				7//11	मिन	निजी	सिंचित	2	2	0.1062	पंजाब लैंड डेवलपमेंट एंड राईकलोमिशन लिम0 लाडोवाल
				7//12	मिन	निजी	सिंचित	2	11	0.1290	पंजाब लैंड डेवलपमेंट एंड राईकलोमिशन लिम0 लाडोवाल
				7//13	मिन	निजी	सिंचित	3	4	0.1619	जसप्रीत कौर पत्नी वाहीगुरुपाल सिंह, रुपिन्द्र सिंह पुत्र चरणजीत सिंह
				7//14	मिन	निजी	सिंचित	4	0	0.2023	जसप्रीत कौर पत्नी वाहीगुरुपाल सिंह, रुपिन्द्र सिंह पुत्र चरणजीत सिंह
				7//15	मिन	निजी	सिंचित	4	16	0.2428	जसप्रीत कौर पत्नी वाहीगुरुपाल सिंह, रुपिन्द्र सिंह पुत्र चरणजीत सिंह
				8//6	मिन	निजी	सिंचित	2	7	0.1189	पंजाब लैंड डेवलपमेंट एंड राईकलोमिशन लिम0 लाडोवाल
				8//15	मिन	निजी	सिंचित	1	11	0.0784	पंजाब लैंड डेवलपमेंट एंड राईकलोमिशन लिम0 लाडोवाल
				16//23	मिन	निजी	सिंचित	0	8	0.0202	निरजीत कौर विधवा महिन्द्र सिंह
			10. गोइंदवाल	25//6	मिन	निजी	सिंचित	0	2	0.0051	चरणजीत सिंह पुत्र साधु सिंह, प्रोवीजनल सरकार
				25//13	मिन	निजी	सिंचित	1	17	0.0936	चरणजीत सिंह पुत्र साधु सिंह, प्रोवीजनल सरकार
				25//14/1	मिन	निजी	सिंचित	3	10	0.1770	चरणजीत सिंह पुत्र साधु सिंह, प्रोवीजनल सरकार
				25//14/2		सरकारी	रास्ता	1	14	0.0860	प्रोवीजनल सरकार
				25//14/3		निजी	सिंचित	0	7	0.0177	चरणजीत सिंह पुत्र साधु सिंह, प्रोवीजनल सरकार
				25//15/1	मिन	निजी	सिंचित	1	6	0.0658	चरणजीत सिंह पुत्र साधु सिंह, प्रोवीजनल सरकार
				25//15/2		सरकारी	रास्ता	1	9	0.0733	प्रोवीजनल सरकार



				25//15/3	मिन	निजी	सिंचित	1	18	0.0961	चरणजीत सिंह पुत्र साधु सिंह, प्रोवीजनल सरकार
				25//16	मिन	निजी	सिंचित	0	4	0.0101	प्रोवीजनल सरकार
				25//17/1	मिन	निजी	सिंचित	2	0	0.1012	चरणजीत सिंह पुत्र साधु सिंह, प्रोवीजनल सरकार
				25//17/2		सरकारी	रास्ता	0	10	0.0253	प्रोवीजनल सरकार
				25//18/1		निजी	सिंचित	0	10	0.0253	चरणजीत सिंह पुत्र साधु सिंह, प्रोवीजनल सरकार
				25//18/2		सरकारी	रास्ता	1	3	0.0582	प्रोवीजनल सरकार
				25//18/3		निजी	सिंचित	0	10	0.0253	चरणजीत सिंह पुत्र साधु सिंह, प्रोवीजनल सरकार
			11. माजरा खुर्द	11//7/1	मिन	सामलात	सिंचित	0	1	0.0025	सामलात देह
				11//7/2	मिन	सामलात	सिंचित	0	3	0.0076	सामलात देह
				11//7/3	मिन	सामलात	सिंचित	0	12	0.0303	समलेह देह काश्तकार इकबल कौर पत्नी महिन्द्र कौर
				11//8/2	मिन	सामलात	सिंचित	0	10	0.0253	समलेह देह काश्तकार इकबल कौर पत्नी महिन्द्र कौर
				11//14		निजी	सिंचित	4	14	0.2377	प्रेम चंद पुत्र जगदीश चंद, संजय गुप्ता पुत्र प्रेम चंद, सुनीला गुप्ता पत्नी प्रेम गुप्ता
				11//15/1/1	मिन	निजी	सिंचित	1	11	0.0784	सुनीला गुप्ता पत्नी प्रेम गुप्ता
				11//15/1/2		निजी	सिंचित	4	17	0.2453	प्रेम चंद पुत्र जगदीश चंद, संजय गुप्ता पुत्र प्रेम चंद, सुनीला गुप्ता पत्नी प्रेम गुप्ता
				11//15/2	मिन	निजी	सिंचित	0	10	0.0253	संजय गुप्ता पुत्र प्रेम चंद
				11//16	मिन	निजी	सिंचित	1	2	0.0556	हरजिन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरमेज सिंह
				11//17	मिन	निजी	सिंचित	0	3	0.0076	हरजिन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरमेज सिंह
				11//26		निजी	सिंचित	0	12	0.0303	सैन्ट्रल सरकार, संजय गुप्ता पुत्र प्रेम गुप्ता
				12//6	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	बलवंत सिंह पुत्र काला राम, रचना गुप्ता पत्नी परवीन गुप्ता, गुलशन लाल पुत्र बलवंत सिंह, मंजू बाला पुत्री किशन लाल, अतुल कुमार पुत्र परवेज कुमार
				12//7/1	मिन	निजी	सिंचित	1	1	0.0531	बलवंत सिंह पुत्र काला राम, रचना गुप्ता पत्नी परवीन गुप्ता, गुलशन लाल पुत्र बलवंत सिंह, मंजू बाला पुत्री किशन लाल, अतुल कुमार पुत्र परवेज कुमार
				12//7/2		निजी	सिंचित	4	4	0.2124	गुलशन लाल पुत्र बलवंत सिंह
				12//11	मिन	निजी	सिंचित	2	11	0.1290	प्रेम चंद पुत्र जगदीश चंद

				12//12/2	मिन	निजी	सिंचित	1	12	0.0809	ज्ञान चंद पुत्र जगत राम, निर्मल सिंह पुत्र सरवन सिंह, बलवीर कौर पत्नी निर्मल सिंह
				12//13/2		निजी	सिंचित	2	8	0.1214	रमनीक कौर पत्नी कुलविन्द्र सिंह, सुरिन्द्र कौर पत्नी रेशम सिंह
				12//14		निजी	सिंचित	8	0	0.4046	रमनीक कौर पत्नी कुलविन्द्र सिंह, सुरिन्द्र कौर पत्नी रेशम सिंह
				12//15	मिन	निजी	सिंचित	5	14	0.2883	रमनीक कौर पत्नी कुलविन्द्र सिंह, सुरिन्द्र कौर पत्नी रेशम सिंह
				12//16	मिन	निजी	सिंचित	5	2	0.2580	रुहानी सत्संग प्रेम समाज
				12//17/1		निजी	सिंचित	7	9	0.3768	रुपन्द्र सिंह पुत्र हरभजन सिंह, गुरप्रीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह
				12//17/2		निजी	सिंचित	0	11	0.0278	सुरिन्द्र सिंह पुत्र गुरबख्खा सिंह
				12//18/2/1		निजी	सिंचित	1	18	0.0961	रुपन्द्र सिंह पुत्र हरभजन सिंह, गुरप्रीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह
				12//18/2/2		निजी	सिंचित	0	2	0.0051	सुरिन्द्र सिंह पुत्र गुरबख्खा सिंह
				12//20/1	मिन	निजी	सिंचित	0	8	0.0202	हरजिन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरमेज सिंह
				12//20/2	मिन	निजी	सिंचित	0	2	0.0051	हरजिन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरमेज सिंह
				27	मिन	सामलात	सिंचित	0	8	0.0202	सामलात देह
				12//23/2		निजी	सिंचित	1	8	0.0708	सुरिन्द्र सिंह पुत्र गुरबख्खा सिंह
				12//24	मिन	निजी	सिंचित	6	19	0.3515	सुरिन्द्र सिंह पुत्र गुरबख्खा सिंह
				12//25	मिन	सामलात	सिंचित	1	0	0.0506	समलात देह काश्तकार हरबस कौर पत्नी जसइन्द्रपाल सिंह
				16//3/1		निजी	सिंचित	0	7	0.0177	रुहानी सत्संग प्रेम समाज 1009 इस्लामिया स्कूल रोड, लुधियाना
				16//4/1	मिन	निजी	सिंचित	0	9	0.0228	रुहानी सत्संग प्रेम समाज 1009 इस्लामिया स्कूल रोड, लुधियाना
								1216	4049	71.746	

[फा. सं. प.का.ई./पी डी/जल/2015/05/344 ऐ]

राजेश गुप्ता, उपसचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th May, 2016

**S.O. 1729(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 2562 (E), dated 18<sup>th</sup> September, 2015, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Laddowal Bypass Ludhiana on the stretches of land from 0.000 to 17.041 in the District of Ludhiana in the State of Punjab.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Tribune” (English) & “Jagbani” (Punjabi) dated 12<sup>th</sup> October, 2015 and “Punjab Kesari” (Hindi) dated 13<sup>th</sup> October, 2015 under sub-section (3) of section 3(A) of the said Act.

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Beief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the stretch from K.m. 0+000 to 17+041 K.m of the Laddowal Bypass in the state of Punjab.

Sl. No.	Name of the district	Name of the tehsil	Name of the Village	Survey Number		Type of land	Nature of land	Area in			Name of Land Owners/interested persons
								Kanal	Marla	Hectare	
1	2	3	4	5		6	7	8			9
1	1. Ludhiana	1. Ludhiana West	1. Ayali Khurd	36// 8	Min	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Preetam Singh S/o Jairam Singh, Damanjeet Singh S/o jasbeer Singh, jasbeer Singh S/o Karnail Singh, Inderjeet Kaur W/o jasbeer Singh
				182	Min	Government	Road	0	6	0.0152	Mustaraka Malkan
				58	Min	Government	Drain	2	6	0.1163	Provisonal Government
				183	Min	Government	Road	0	16	0.0405	Mustaraka Malkan
				184	Min	Government	Road	0	12	0.0303	Mustaraka Malkan

				36// 12	Min	Private	Irrigated	2	14	0.1366	Surjeet Singh , Dilbag Singh, Santosh Singh S/o Gurdayal Singh, PWD Chandigarh, Gurmeet Singh, Sukhmandar Singh S/o Baldev Singh, Harjinder Singh S/o Barkat Singh, Bhupindar Kaur W/o Davindar Singh, Ravindar Mital S/o Shaamlal and Others
				36// 13	Min	Private	Irrigated	1	11	0.0784	Dilbag Singh S/o Gurdiyal Singh, Santokh Singh S/o Gurdiyal Singh, Dalbeer Singh S/o Banta Singh, Parmeela Gupta W/o Pradeep Kumar, Varinder kaur W/o Tejendarpal, Gurdeep Singh S/o Jaswant Singh, Ramesh Kumar Sahani S/o Balaki Ram and Others
				36// 18	Min	Private	Irrigated	2	15	0.1391	Dilbag Singh S/o Gurdiyal Singh, Santokh Singh S/o Gurdiyal Singh, Dalbeer Singh S/o Banta Singh, Parmeela Gupta W/o Pradeep Kumar, Varinder kaur W/o Tejendarpal, Gurdeep Singh S/o Jaswant Singh, Ramesh Kumar Sahani S/o Balaki Ram and Others
				36// 19	Min	Private	Irrigated	2	1	0.1037	Surjeet Singh , Dilbag Singh, Santosh Singh S/o Gurdayal Singh, PWD Chandigarh, Gurmeet Singh, Sukhmandar Singh S/o Baldev Singh, Harjinder Singh S/o Barkat Singh, Bhupindar Kaur W/o Davindar Singh, Ravindar Mital S/o Shaamlal and Others
			2. Jhamat	3// 18	Min	Private	Irrigated	2	10	0.1265	Balbeer Singh S/o Lal Singh, Ranjeet Kaur W/o Balbeer Singh
				3// 19/1	Min	Private	Irrigated	0	5	0.0126	Ramesh Saini S/o Balaki Ram, Anil Kumar Mittal S/o Dharampal
				276	Min	Government	Road	0	10	0.0253	Panchyat Deh
				22/2	Min	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Darsan Singh Upal S/o Sardara Singh, Ramesh Saini S/o Balaki Ram, Anil Kumar Mittal S/o Dharampal

				3// 23/1	Min	Private	Irrigated	2	17	0.1442	Nirmala Kumari W/o Ranbeer Singh
				3// 23/2	Min	Private	Irrigated	3	11	0.1796	Balbeer Singh S/o Lal Singh, Ranjeet Kaur W/o Balbeer Singh
				3// 24	Min	Private	Irrigated	1	4	0.0607	Balbeer Singh S/o Lal Singh, Ranjeet Kaur W/o Balbeer Singh
				274	Min	Government	Drain	0	10	0.0253	Panchyat Deh
				7// 9	Min	Private	Irrigated	1	17	0.0936	Gautam Jain S/o Visan Jain, Abrasi jain S/o Visan Jain, Amit Jain S/o Arirant jain, Adarsh Jham S/o Prem Sagar, Vinay jham S/o Prem Sagar, Navtej jham S/o Prem Sagar, Sarabjeet Singh S/o Jagjeet Singh, jashbinder Singh S/o Tarlochan Singh, Ravindar Kumar S/o Madanlal, jaspreet Kaur D/o Darshan Singh and Others
				7// 10	Min	Private	Irrigated	3	2	0.1568	Balbeer Singh S/o Labh Singh
				7// 11		Private	Irrigated	3	2	0.1568	Balbeer Singh S/o Labh Singh
				7// 12		Private	Irrigated	1	4	0.0607	Gautam Jain S/o Visan Jain, Abrasi jain S/o Visan Jain, Amit Jain S/o Arirant jain, Adarsh Jham S/o Prem Sagar, Vinay jham S/o Prem Sagar, Navtej jham S/o Prem Sagar, Sarabjeet Singh S/o Jagjeet Singh, jashbinder Singh S/o Tarlochan Singh, Ravindar Kumar S/o Madanlal, jaspreet Kaur D/o Darshan Singh and Others
				8// 3	Min	Private	Irrigated	3	4	0.1619	M/S Bhasin And Company Ludhiana, Unitech Farmoniuthical, Deepak Goel S/o Hemraj Goel
				8//4/1/1	Min	Private	Irrigated	5	13	0.2858	Ravindar Kaur W/o Amarjeet Singh, M/S Bhasin And Company Ludhiana
				8//4/1/2	Min	Private	Irrigated	0	6	0.0152	Murarilal Aggarwal S/o Kasturilal
				8// 4/2	Min	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Murarilal Aggarwal S/o Kasturilal
				8// 5	Min	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Balbeer Singh S/o Lal Singh, Ranjeet Singh S/o Balbeer Singh, Murarilal Aggarwal S/o Kasturilal
				8// 6	Min	Private	Irrigated	6	8	0.3237	Murarilal Aggarwal S/o Kasturilal

				8// 7	Min	Private	Irrigated	6	7	0.3212	Chetan Jain S/o Radhesyam, Manish Jain S/o Radhesyam
				8// 8	Min	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Chetan Jain S/o Radhesyam, Manish Jain S/o Radhesyam
				8//14/2	Min	Private	Irrigated	0	17	0.043	Chetan Jain S/o Radhesyam, Manish Jain S/o Radhesyam
				8// 15	Min	Private	Irrigated	5	1	0.2554	Murarilal Aggarwal S/o Kasturilal
				275	Min	Government	Road	0	16	0.0405	Panchyat Deh
			3. Malakpur	29// 8	Min	Private	Irrigated	0	5	0.0126	Dilwara Singh S/o Kapoor Singh
				90	Min	Government	Road	2	1	0.1037	Provinsal Government
				29// 12	Min	Private	Irrigated	1	19	0.0986	Dimpal S/o Khajanchilal, Maharaj Singh(HUF) S/o Balbeer Singh
				29//13	Min	Private	Irrigated	3	8	0.172	Tarmeshlal S/o Khajanchilal, Navdeep Kaur W/o Maharaj Singh, Harish Jain S/o Ramurti Jain, Shashi Rani W/o Harish Jain, Tamna Arora W/o Rovin Arora
				29//18	Min	Private	Irrigated	2	4	0.1113	Tarsemlal S/o Khajanchilal, Navdeep kaur W/o Maharaj Singh, Tamna Arora W/o Robin Arora
				29//19	Min	Private	Irrigated	5	14	0.2883	Amarjeet Singh S/o Atma Singh
				29//21/2	Min	Private	Irrigated	0	12	0.0303	Prem Singh S/o Puran Singh, Kulwant Kaur W/o Naagar Singh, Bhagwant Singh S/o Naagar Singh, Jeet Singh S/o Puran Singh, Dalbag Singh S/o Puran Singh, Khajanchilal S/o Ram Chandar, Santokh Singh S/o Darshan Singh, Brijbala Sarin W/o Kedar Nath Sarin and Others.
				29//22	Min	Private	Irrigated	6	18	0.349	Prem Singh S/o Puran Singh, Kulwant Kaur W/o Naagar Singh, Bhagwant Singh S/o Naagar Singh, Jeet Singh S/o Puran Singh, Dalbag Singh S/o Puran Singh, Khajanchilal S/o Ram Chandar, Santokh Singh S/o Darshan Singh, Brijbala Sarin W/o Kedar Nath Sarin and Others

				29//23	Min	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Prem Singh S/o Puran Singh, Kulwant Kaur Wd/o Naagar Singh, Bhagwant Singh S/o Naagar Singh, Jeet Singh S/o Puran Singh, Dalbag Singh S/o Puran Singh, Khajanchilal S/o Ram Chandar, Santokh Singh S/o Darshan Singh, Brijbala Sarin W/o Kedar Nath Sarin and Others
				31//1	Min	Private	Irrigated	2	18	0.1467	Harjinder Singh S/o Labh Singh, Prem Singh S/o Puran Singh, Dalbag Singh S/o Puran Singh, Jeet Singh S/o Puran Singh, Kulwant Kaur Wd/o Nagar Singh, Bhagwant Singh S/o Nagar Singh, Khajanchi lal S/o Ram Chandar, Santokh Singh S/o Darshan Singh and Others
				31//2	Min	Private	Irrigated	4	8	0.2226	Prem Singh S/o Puran Singh, Kulwant Kaur Wd/o Naagar Singh, Bhagwant Singh S/o Naagar Singh, Jeet Singh S/o Puran Singh, Dalbag Singh S/o Puran Singh, Khajanchilal S/o Ram Chandar, Santokh Singh S/o Darshan Singh, Brijbala Sarin W/o Kedar Nath Sarin and Others
				31//9	Min	Private	Irrigated	2	8	0.1214	Harjinder Singh S/o Labh Singh, Prem Singh S/o Puran Singh, Dalbag Singh S/o Puran Singh, Jeet Singh S/o Puran Singh, Kulwant Kaur Wd/o Nagar Singh, Bhagwant Singh S/o Nagar Singh, Khajanchi lal S/o Ram Chandar, Santokh Singh S/o Darshan Singh and Others
				31//10	Min	Private	Irrigated	4	16	0.2428	Prem Singh S/o Puran Singh, Kulwant Kaur Wd/o Naagar Singh, Bhagwant Singh S/o Naagar Singh, Jeet Singh S/o Puran Singh, Dalbag Singh S/o Puran Singh, Khajanchilal S/o Ram Chandar, Santokh Singh S/o Darshan Singh, Brijbala Sarin W/o Kedar Nath Sarin

											and Others
				31//11	Min	Private	Irrigated	5	8	0.2731	Buta Singh S/o Gurbakhas Singh
				31//12	Min	Private	Irrigated	1	8	0.0708	Buta Singh S/o Gurbakhas Singh
				31//19	Min	Private	Irrigated	1	8	0.0708	Gurbakhas Singh S/o Bagha Singh
				31//20	Min	Private	Irrigated	6	0	0.3035	Gurbakhas Singh S/o Bagha Singh
				31//21	Min	Private	Irrigated	5	2	0.258	Jaggiwan Singh S/o Bachitar Singh, Gurpreet Singh S/o Darshan Singh, Sukhjeet Singh S/o Darshan Singh, Baljeet Kaur Wd/o Makhan Singh, Pawandeep Kaur D/o Makhan Singh
				31//22/1		Private	Irrigated	1	12	0.0809	Jaggiwan Singh S/o Bachitar Singh, Gurpreet Singh S/o Darshan Singh, Sukhjeet Singh S/o Darshan Singh, Baljeet Kaur Wd/o Makhan Singh, Pawandeep Kaur D/o Makhan Singh
				31//22/2	Min	Private	Irrigated	0	12	0.0303	Pradeep Gupta S/o Kishanchand, Sandeep Gupta S/o Kishanchand, Deepak Gupta S/o Kishanchand and Others
				351	Min	Government	Road	0	8	0.0202	Gram Panchyat
				41//1/2	Min	Private	Irrigated	3	6	0.1669	Poonam Gupta W/o Pradeep Singh , Pradeep, Deepak S/o Kishanchand, Sonia Gupta W/o Deepak, Sandeep Gupta S/o Karishanchand, Meena Gupta W/o Sandeep Gupta
				41//2	Min	Private	Irrigated	3	19	0.1998	Poonam Gupta W/o Pradeep Singh , Pradeep, Deepak S/o Kishanchand, Sonia Gupta W/o Deepak, Sandeep Gupta S/o Karishanchand, Meena Gupta W/o Sandeep Gupta



				41/8	Min	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Poonam Gupta W/o Pradeep Singh , Pradeep, Deepak S/o Kishanchand, Sonia Gupta W/o Deepak, Sandeep Gupta S/o Karishanchand, Meena Gupta W/o Sandeep Gupta
				41/9	Min	Private	Irrigated	6	0	0.3035	Poonam Gupta W/o Pradeep Singh , Pradeep, Deepak S/o Kishanchand, Sonia Gupta W/o Deepak, Sandeep Gupta S/o Karishanchand, Meena Gupta W/o Sandeep Gupta
				41/10/1		Private	Irrigated	0	17	0.043	Poonam Gupta W/o Pradeep Singh , Pradeep, Deepak S/o Kishanchand, Sonia Gupta W/o Deepak, Sandeep Gupta S/o Karishanchand, Meena Gupta W/o Sandeep Gupta
				41/12/2		Private	Irrigated	4	12	0.2327	Charanjeet Singh, Hardev Singh Ss/o Mohan Singh, Surindar Singh S/o Charan Singh, Malkeet Singh S/o Charan Singh, Preetam Singh S/o Charan Singh, Mohan Singh S/o Jaimal Singh, Karnail Singh S/o Jaimal Singh, Hardev Singh, Gurdev Singh Ss/o Natha Singh and Others
				41/13	Min	Private	Irrigated	2	8	0.1214	Charanjeet Singh, Hardev Singh Ss/o Mohan Singh, Surindar Singh S/o Charan Singh, Malkeet Singh S/o Charan Singh, Preetam Singh S/o Charan Singh, Mohan Singh S/o Jaimal Singh, Karnail Singh S/o Jaimal Singh, Hardev Singh, Gurdev Singh Ss/o Natha Singh and Others
				41/18	Min	Private	Irrigated	6	1	0.306	Hardev Singh, Gurdev Singh Ss/o Natha Singh, Labh Singh S/o Nidhan Singh, Karnail Singh S/o Jaimal Singh, Mohan Singh S/o Jaimal Singh, Jogindar Singh S/o Nidhan Singh, Kuldeep Singh S/o Nidhan Singh,

											Gurbachan Kaur W/o Natha Singh, Natha Singh S/o Jagat Singh, Amrindar Singh S/o Hardev Singh and Others
				41/19/2		Private	Irrigated	0	17	0.043	Darshan Singh S/o Jangeer Singh, Mastar Infrastructure real state Developers limited, Pradeep Kumar S/o Paramveer Aggarwal , Kulwant Kaur W/o Darshan Singh, Rachit Jain S/o Rajindar Kumar Jain and Others
				41/23/2		Private	Irrigated	4	5	0.215	Hardev Singh, Gurdev Singh Ss/o Natha Singh, Labh Singh S/o Nidhan Singh, Karnail Singh S/o Jaimal Singh, Mohan Singh S/o Jaimal Singh, Jogindar Singh S/o Nidhan Singh, Kuldeep Singh S/o Nidhan Singh, Gurbachan Kaur W/o Natha Singh, Natha Singh S/o Jagat Singh, Amrindar Singh S/o Hardev Singh and Others
				41/24	Min	Private	Irrigated	2	3	0.1087	Karnail S/o Jaimal Singh, Sohan Singh Jaimal Singh, Labh Singh, Jogindar Singh, Kuldeep Singh S/o Nidhan Singh, Gurdev Singh, Hardev Singh Ss/o Natha Singh, Natha Singh, Jagat Singh S/o Mastan Singh and Others
				370	Min	Government	Road	0	7	0.0177	Gram Panchyat
				44/11	Min	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Karnail S/o Jaimal Singh, Sohan Singh Jaimal Singh, Sarla W/o Kishan mohan, Hardev Singh S/o Natha Singh, Natha Singh S/o Jagat Singh and Others
				44/20/1	Min	Private	Irrigated	1	4	0.0607	Karnail S/o Jaimal Singh, Sohan Singh Jaimal Singh, Sarla W/o Kishan mohan, Hardev Singh S/o Natha Singh, Natha Singh S/o Jagat Singh and Others

				44/20/2	Min	Private	Irrigated	1	0	0.0506	20/2/1- Jaimal Singh S/o Ameer Singh, Ashish Bansal S/o Pawan Bansal, Satish Kumar S/o Amarnath, Jatindar Singh S/o Preetam Singh, Nandlal Gupta S/o Kamal Das and others 20/2/2-Praveen Kumar Jain S/o Rajkumar Jain, Paromila Jain S/o Nemchand Jain, Vikash Jain S/o Permchand Jain, Taribhwan Kumar Jain S/o Deshraj Jain
				44/21	Min	Private	Irrigated	6	4	0.3136	21/1-Praveen Kumar Jain S/o Rajkumar Jain, Paromila Jain S/o Nemchand Jain, Vikash Jain S/o Permchand Jain, Taribhwan Kumar Jain S/o Deshraj Jain 21/2- Jaimal Singh S/o Ameer Singh, Ashish Bansal S/o Pawan Bansal, Satish Kumar S/o Amarnath, Jatindar Singh S/o Preetam Singh, Nandlal Gupta S/o Kamal Das and others
				349	Min	Government	Road	0	8	0.0202	Gram Panchyat
				45/3/2		Private	Irrigated	0	15	0.0379	Sarla Aggarwal W/o Kishan Mohan Aggarwal, Sohan Singh, Karnail Singh S/o Jaimal Singh, Labh Singh, Kuldeep Singh S/o Nidhan Singh, Lakha Singh S/o Jagat Singh, Gurcharan Kaur W/o Natha Singh and Others
				45/4	Min	Private	Irrigated	6	2	0.3085	Sarla Aggarwal W/o Kishan Mohan Aggarwal, Sohan Singh, Karnail Singh S/o Jaimal Singh, Labh Singh, Kuldeep Singh S/o Nidhan Singh, Lakha Singh S/o Jagat Singh, Gurcharan Kaur W/o Natha Singh and Others
				45/6	Min	Private	Irrigated	2	8	0.1214	Sarla Aggarwal W/o Kishan Mohan Aggarwal, Sohan Singh, Karnail Singh S/o Jaimal Singh, Labh Singh, Kuldeep Singh S/o Nidhan Singh, Lakha Singh

											S/o Jagat Singh, Gurcharan Kaur W/o Natha Singh and Others
				45//7/1		Private	Irrigated	4	12	0.2327	Sarla Aggarwal W/o Kishan Mohan Aggarwal, Sohan Singh, Karnail Singh S/o Jaimal Singh, Labh Singh, Kuldeep Singh S/o Nidhan Singh, Lakha Singh S/o Jagat Singh, Gurcharan Kaur W/o Natha Singh and Others
				45//14/2		Private	Irrigated	0	17	0.043	Sarla Aggarwal W/o Kishan Mohan Aggarwal, Sohan Singh, Karnail Singh S/o Jaimal Singh, Labh Singh, Kuldeep Singh S/o Nidhan Singh, Lakha Singh S/o Jagat Singh, Gurcharan Kaur W/o Natha Singh and Others
				45//15	Min	Private	Irrigated	5	9	0.2757	Sarla Aggarwal W/o Kishan Mohan Aggarwal, Sohan Singh, Karnail Singh S/o Jaimal Singh, Labh Singh, Kuldeep Singh S/o Nidhan Singh, Lakha Singh S/o Jagat Singh, Gurcharan Kaur W/o Natha Singh and Others
				45//16/1		Private	Irrigated	2	15	0.1391	Sarla Aggarwal W/o Kishan Mohan Aggarwal, Sohan Singh, Karnail Singh S/o Jaimal Singh, Labh Singh, Kuldeep Singh S/o Nidhan Singh, Lakha Singh S/o Jagat Singh, Gurcharan Kaur W/o Natha Singh and Others
				45//16/2		Private	Irrigated	0	12	0.0304	Praveen Kumar Jain S/o Rajkumar Jain, Paromila Jain S/o Nemchand Jain, Vikash Jain S/o Permchand Jain, Taribhwan Kumar Jain S/o Deshraj Jain
				45//25/2		Private	Irrigated	0	17	0.043	Praveen Kumar Jain S/o Rajkumar Jain, Paromila Jain S/o Nemchand Jain, Vikash Jain S/o Permchand Jain,

											Taribhwan Kumar Jain S/o Deshraj Jain
				369	Min	Government	Road	0	10	0.0253	Gram Panchyat
				54//1/2		Private	Irrigated	4	12	0.2327	Jaimal Singh S/o Ameer Singh, Ashish Bansal S/o Pawan Bansal, Satish Kumar S/o Amarnath, Jatindar Singh S/o Preetam Singh, Nandlal Gupta S/o Kamal Das and others
				54//2	Min	Private	Irrigated	2	10	0.1265	Jaimal Singh S/o Ameer Singh, Ashish Bansal S/o Pawan Bansal, Satish Kumar S/o Amarnath, Jatindar Singh S/o Preetam Singh, Nandlal Gupta S/o Kamal Das and others
				54//8	Min	Private	Irrigated	0	1	0.0025	8/1- Satish Kumar S/o Amarnath, Jatindar Singh S/o Preetam Singh, Sukomal Jain W/o Mahindarpal Jain, Bandana Jain W/o Aman Jain 8/2- Jaimal Singh S/o Ameer Singh, Ashish Bansal S/o Pawan Bansal, Nandlal Gupta S/o Kaushal Das Gupta, Ashwani Kumar S/o Suresh Kumar
				54//9	Min	Private	Irrigated	6	4	0.3136	9/1- Satish Kumar S/o Amarnath, Jatindar Singh S/o Preetam Singh, Sukomal Jain W/o Mahindarpal Jain, Bandana Jain W/o Aman Jain 9/2- Jaimal Singh S/o Ameer Singh, Ashish Bansal S/o Pawan Bansal, Nandlal Gupta S/o Kaushal Das Gupta, Ashwani Kumar S/o Suresh Kumar
				54//10/1		Private	Irrigated	0	17	0.043	Jaimal Singh S/o Ameer Singh, Ashish Bansal S/o Pawan Bansal, Satish Kumar S/o Amarnath, Jatindar Singh S/o Preetam Singh, Nandlal Gupta S/o Kamal Das and others
				54//12/2		Private	Irrigated	4	12	0.2327	Jaimal Singh S/o Ameer Singh, Ashish Bansal S/o Pawan Bansal, Nandlal Gupta S/o Kaushal Das Gupta, Ashwani

											Kumar S/o Suresh Kumar
				54//13	Min	Private	Irrigated	2	12	0.1315	Jaimal Singh S/o Ameer Singh, Ashish Bansal S/o Pawan Bansal, Nandlal Gupta S/o Kaushal Das Gupta, Ashwani Kumar S/o Suresh Kumar
				54//17/2	Min	Private	Irrigated	0	1	0.0025	17/2/1- Jaimal Singh S/o Ameer Singh, Ashish Bansal S/o Pawan Bansal, Nandlal Gupta S/o Kaushal Das Gupta, Ashwani Kumar S/o Suresh Kumar, 17/2/2- Sadhu Singh S/o Niranjan Singh
				54//18	Min	Private	Irrigated	6	4	0.3136	18/1-Jaimal Singh S/o Ameer Singh, Ashish Bansal S/o Pawan Bansal, Nandlal Gupta S/o Kaushal Das Gupta, Ashwani Kumar S/o Suresh Kumar 18/2 ,18/3- Sadhu Singh S/o Naranjan Singh
				54//19/1		Private	Irrigated	0	17	0.043	19/1/1-Jaimal Singh S/o Ameer Singh, Ashish Bansal S/o Pawan Bansal, Nandlal Gupta S/o Kaushal Das Gupta, Ashwani Kumar S/o Suresh Kumar, 19/1/2- Sadhu Singh S/o Naranjan Singh
				54//23/2		Private	Irrigated	4	12	0.2327	Jeet Singh S/o Paal Singh
				54//24	Min	Private	Irrigated	2	10	0.1265	24/1- Jeet Singh S/o Pal Singh, 24/2- Harvinder Singh S/o Jeet Singh, Sadhu Singh S/o Naranjan Singh 24/3-Sadhu Singh S/o Naranjan Singh
				56//20	Min	Private	Irrigated	2	6	0.1163	Gurdeep Singh, Santokh Singh, Ajeet Singh , Dalwara Singh S/o Gurdiyal Singh
				56//21	Min	Private	Irrigated	5	17	0.2959	Gurdeep Singh, Santokh Singh, Ajeet Singh , Dalwara Singh S/o Gurdiyal Singh
				57//3/2		Private	Irrigated	0	17	0.043	3/2/1- Jeet Singh S/o Pal Singh, 3/2/2- Manjit Kaur Wd/o Jagat Singh @ Jagdev Singh
				57//4	Min	Private	Irrigated	6	4	0.3136	4/1-Jeet Singh S/o Pal Singh 4/2-Manjit Kaur Wd/o Jagat

											Singh @Jagdev Singh
				57//5	Min	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Jeet Singh S/o Pal Singh
				57//6	Min	Private	Irrigated	2	10	0.1265	6/1- Manjit Kaur Wd/o Jagat Singh @Jagdev Singh, 6/2- Bhajan Singh S/o Gopal Singh
				57//7/1		Private	Irrigated	4	12	0.2327	7/1/1- Manjit Kaur Wd/o Jagat Singh @Jagdev Singh, 7/1/2- Bhajan Singh S/o Gopal Singh
				57//14/2		Private	Irrigated	0	16	0.0405	14/2/1-Bhajan Singh S/o Gopal Singh, 14/2/2- Karnail Kaur Wd/o Gurdev Singh, Ravindar Singh S/o Gurdev Singh, Gurvinder Singh S/o Gurdev Singh
				57//15	Min	Private	Irrigated	6	2	0.3085	15/1-Bhajan Singh S/o Gopal Singh, 15/2-Karnail Kaur Wd/o Gurdev Singh, Ravindar Singh S/o Gurdev Singh, Gurvinder Singh S/o Gurdev Singh
				57//16/1		Private	Irrigated	4	12	0.2327	Gurdeep Singh, Santokh Singh, Ajeet Singh , Dalwara Singh S/o Gurdiyal Singh
				57//25/2		Private	Irrigated	0	17	0.043	Gurdeep Singh, Santokh Singh, Ajeet Singh , Dalwara Singh S/o Gurdiyal Singh
				66//1/2		Private	Irrigated	4	12	0.2327	Gurdeep Singh, Santokh Singh, Ajeet Singh , Dalwara Singh S/o Gurdiyal Singh
				66//2	Min	Private	Irrigated	2	0	0.1012	Gurdeep Singh, Santokh Singh, Ajeet Singh , Dalwara Singh S/o Gurdiyal Singh
				66//9	Min	Private	Irrigated	4	10	0.2276	Gurdeep Singh, Santokh Singh, Ajeet Singh , Dalwara Singh S/o Gurdiyal Singh
				66//10/1		Private	Irrigated	0	17	0.043	Gurdeep Singh, Santokh Singh, Ajeet Singh , Dalwara Singh S/o Gurdiyal Singh
				98-100	Min	Government	Road	22	15	1.1507	Gram Panchyat
				348-367	Min	Government	Drain	9	2	0.4603	Gram Panchyat
			4. Jainpur	3//12/2	Min	Private	Irrigated	1	4	0.0607	Panchyat Deh
				50	Min	Government	Non-Irrigated	4	2	0.2074	Government Drain
				3//13/1	Min	Private	Irrigated	1	19	0.0986	Panchyat Deh
				3//18	Min	Private	Irrigated	5	0	0.2529	Aashu Gupta S/o Pyaralal, Kewal karishan S/o Pursotam Das

				3/19/1	Min	Private	Irrigated	0	5	0.0126	Keshav krishan S/o Pursotam Das
				3/19/2	Min	Private	Irrigated	2	3	0.1087	Keshav krishan S/o Pursotam Das
				3/22/2	Min	Private	Irrigated	2	0	0.1012	Keshav krishan S/o Parshotam Dass, Ashu Gupta S/o Pyara lal, Jaswindar Singh S/o Sukhdev Singh, Balwindar Singh S/o Sukhdev Singh
				3/23	Min	Private	Irrigated	4	12	0.2327	Keshav krishan S/o Pursotam Das, Ashu Gupta S/o Pyara lal
				10/2	Min	Private	Irrigated	2	4	0.1113	Prakash Kaur W/o Gurcharan Singh, Sawran Singh S/o Budha Singh, Karamjeet Jeet Singh S/o Budha Singh
				166	Min	Government	Non-Irrigated	0	12	0.0303	Panchyat Deh
				10/3	Min	Private	Irrigated	5	0	0.2529	Amarjeet Singh S/o Karnail Singh, Hardeep Singh S/o Karnail Singh
				10/8	Min	Private	Irrigated	5	0	0.2529	Amarjeet Singh S/o Karnail Singh, Hardeep Singh S/o Karnail Singh
				10/9	Min	Private	Irrigated	2	4	0.1113	Prakash Kaur W/o Gurcharan Singh, Sawran Singh S/o Budha Singh, Karamjeet Jeet Singh S/o Budha Singh
				10/12/1	Min	Private	Irrigated	1	15	0.0885	Prakash Kaur W/o Gurcharan Singh, Sawran Singh S/o Budha Singh, Karamjeet Jeet Singh S/o Budha Singh
				10/12/2	Min	Private	Irrigated	0	10	0.0253	Panchyat Deh
				10/13/1	Min	Private	Irrigated	2	10	0.1265	Bachitar Singh S/o Hari Singh, Gurpreet Singh S/o Darshan Singh, Sukhjeet Singh S/o Darshan Singh, Baljeet Kaur Wd/o Makhan Singh, Pawandeep Kaur D/o Makhan Singh
				10/13/2	Min	Private	Irrigated	2	10	0.1265	Amarjeet Singh S/o Karnail Singh, Hardeep Singh S/o Karnail Singh
				10/18	Min	Private	Irrigated	5	0	0.2529	Bachitar Singh S/o Hari Singh, Gurpreet Singh S/o Darshan Singh, Sukhjeet Singh S/o Darshan Singh, Baljeet Kaur Wd/o Makhan Singh, Pawandeep Kaur D/o Makhan Singh



				10/19	Min	Private	Irrigated	2	4	0.1113	19/1- Panchayat, 19/2- Prakash Kaur W/o Gurcharan Singh, Sawran Singh S/o Budha Singh, Karamjeet Jeet Singh S/o Budha Singh
				10/22	Min	Private	Irrigated	2	4	0.1113	Panchyat Deh
				10/23	Min	Private	Irrigated	5	0	0.2529	Wakf Board Masjid
				13/2	Min	Private	Irrigated	2	4	0.1113	Panchyat Deh
				13/3	Min	Private	Irrigated	5	0	0.2529	Wakf Board Masjid
				13/8/1	Min	Private	Irrigated	4	5	0.2150	Sukhwant Singh S/o Surindar Singh, Tejendar Singh S/o Paramjeet Singh, Gurpreet Singh S/o Darshan Singh, Sunil Kumar S/o Rampal, Rampal S/o Veeru ram and Others
				13/8/2	Min	Private	Irrigated	0	6	0.0152	Wakf Board Masjid
				63	Min	Government	Non-Irrigated	1	18	0.0961	Panchyat Deh
				13/9	Min	Private	Irrigated	2	6	0.1163	Panchyat Deh
				13/12	Min	Private	Irrigated	2	10	0.1265	Panchyat Deh
				13/13/1		Private	Irrigated	3	4	0.1619	Sunil Kumar S/o Rampal, Rampal S/o Veeru ram, Sunita Jain D/o Dhani ram, Sahila Jain S/o Lavindar Jain, Harpreet Singh garewal S/o Surjeet Singh and Others
				13/13/2	Min	Private	Irrigated	1	2	0.0556	Rampal S/o Veeru Ram, Sunil Kumar S/o Rampal, Chetan Kumar S/o Rampal, Rani Verma W/o Anil Kumar, Vivek Bhushan S/o Giyan chand and Others
				13/18/1	Min	Private	Irrigated	0	10	0.0253	Rampal S/o Veeru Ram, Sunil Kumar S/o Rampal, Chetan Kumar S/o Rampal, Rani Verma W/o Anil Kumar, Vivek Bhushan S/o Giyan chand and Others
				13/18/2		Private	Irrigated	3	4	0.1619	Sunil Kumar S/o Rampal, Rampal S/o Veeru ram, Sunita Jain D/o Dhani ram, Sahila Jain S/o Lavindar Jain, Harpreet Singh garewal S/o Surjeet Singh and Others
				13/19	Min	Private	Irrigated	3	0	0.1517	Satpal Singh S/o Balbeer Singh
				13/22/2	Min	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Satpal Singh S/o Balbeer Singh

				13//23/1	Min	Private	Irrigated	2	5	0.1138	Sunil Kumar S/o Rampal, Rampal S/o Veeru ram, Sunita Jain D/o Dhani ram, Sahila Jain S/o Lavindar Jain, Harpreet Singh garewal S/o Surjeet Singh and Others
				83	Min	Government	Non-Irrigated	0	16	0.0405	Panchyat Deh
				19//16/1	Min	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Sarita Gupta W/o Susil Gupta, Anita Gupta W/o Sunil Gupta
				19//23	Min	Private	Irrigated	0	13	0.0329	Jagjeet Kaur Wd/o Gurdeep Singh, Devendar Singh S/o Gurdeep Singh, Parmindar Singh S/o Gurdeep Singh, Jaswindar Singh S/o Gurdeep Singh, Piratpal Singh s/o Hardev Singh, Buta Singh S/o ajeet Singh and Others
				19//24	Min	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Sanjeev Kumar S/o Parvesh chandar, Parvesh Chander S/o Krishanlal, Sanni Saluja S/o Jagdish Chandar, Suresh Kumari W/o Parvesh chandar, Anubhav Kumar S/o Sunil Kumar, Sagun Kumari D/o Shusheel Kumar and Others
				19//25/1	Min	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Sanjeev Kumar S/o Parvesh chandar, Parvesh Chander S/o Krishanlal, Sanni Saluja S/o Jagdish Chandar, Suresh Kumari W/o Parvesh chandar, Anubhav Kumar S/o Sunil Kumar, Sagun Kumari D/o Shusheel Kumar and Others
				19//25/2	Min	Private	Irrigated	1	4	0.0607	Anita Gupta W/o Sunil Gupta, Paramjeet Singh S/o Nand Singh, Indermohan Jain S/o Amritlal Jain, Manoj Kumar S/o Roshan lal
				20//1	Min	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Satpal Singh S/o Balbeer Singh
				20//2	Min	Private	Irrigated	6	19	0.3515	Kailash Bajaj S/o Samer lal Bajaj, Nand lal S/o Ved prakash, Darshan lal S/o Ved prakash

				20/3	Min	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Mandeep Singh S/o Harjinder Singh, Rajesh Jain S/o Devraj Jain, Sanjeev Jain S/o Shital Kumar Jain, Indermohan Jain S/o Amrit lal Jain, Satish Bajaj S/o Sumer lal bajaj, Satia Jain W/o Amrit lal Jain
				20/9/1	Min	Private	Irrigated	2	0	0.1012	Nand lal S/o Ved prakash, Darshan lal S/o Ved Prakash
				20/9/2		Private	Irrigated	3	16	0.1922	Gurwans Kaur Wd/o Mahindar Singh, Sukhchain S/o Mahindar Singh, Ravindar Singh S/o Satpal Singh
				20/10	Min	Private	Irrigated	1	14	0.0860	Gurwans Kaur Wd/o Mahindar Singh, Sukhchain S/o Mahindar Singh
				20/11	Min	Private	Irrigated	4	14	0.2377	Naresh Kumar S/o Tilak Ram
				20/12/1	Min	Private	Irrigated	3	4	0.1619	Naresh Kumar S/o Tilak Ram
				20/12/2	Min	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Naresh Kumar S/o Tilak Ram
				20/19	Min	Private	Irrigated	0	10	0.0253	Naresh Kumar S/o Tilak Raj, Radha Jain W/o Manoj Kumar, Paramjeet Singh S/o Nand Singh, Indermohan Jain Amritlal Jain, Manoj Kumar S/o Roshanlal
				65	Min	Government	Non-Irrigated	1	17	0.0936	Panchyat Deh
				20/20	Min	Private	Irrigated	7	2	0.3591	Sarita Gupta W/o Susil Gupta, Anita Gupta W/o Sunil Gupta
				20/21	Min	Private	Irrigated	4	11	0.2301	Anita Gupta W/o Sunil Gupta, Paramjeet Singh S/o Nand Singh, Indermohan Jain S/o Amritlal Jain, Manoj Kumar S/o Roshan lal
				170	Min	Government	Non-Irrigated	0	4	0.0101	Panchyat Deh
				60	Min	Government	Non-Irrigated	0	4	0.0101	Panchyat Deh
				61	Min	Government	Non-Irrigated	0	4	0.0101	Panchyat Deh
				23/1/1	Min	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Sanjeev Kumar S/o Parvesh chandar, Parvesh Chander S/o Krishanlal, Sanni Saluja S/o Jagdish Chandar, Suresh Kumari W/o Parvesh chandar, Anubhav

											Kumar S/o Sunil Kumar, Sagun Kumari D/o Shusheel Kumar and Others
				23//1/2	Min	Private	Irrigated	1	1	0.0531	Jaswant Kaur W/o Avtar Singh, Bhagwant Singh S/o Jodh Singh, Bahadur Singh S/o Jodh Singh, Dalip Kaur M/o Baiant Singh, Paramjeet Kaur W/o Saudagar Singh
				23//10/2	Min	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Sanjeev Kumar S/o Parvesh chandar, Parvesh Chander S/o Krishanlal, Sanni Saluja S/o Jagdish Chandar, Suresh Kumari W/o Parvesh chandar, Anubhav Kumar S/o Sunil Kumar, Sagun Kumari D/o Shusheel Kumar and Others
				23//21	Min	Private	Irrigated	1	1	0.0531	Jaswant Kaur W/o Avtar Singh, Bhagwant Singh S/o Jodh Singh, Bahadur Singh S/o Jodh Singh, Dalip Kaur M/o Baiant Singh, Paramjeet Kaur W/o Saudagar Singh, Lalit Chopra S/o N.D. Chopra and Others
				24//3	Min	Private	Irrigated	5	8	0.2731	Jagjeet Kaur Wd/o Gurdeep Singh, Devendar Singh S/o Gurdeep Singh, Parmindar Singh S/o Gurdeep Singh, Jaswindar Singh S/o Gurdeep Singh, Piratpal Singh s/o Hardev Singh, Buta Singh S/o ajeet Singh, Darshan Singh S/o Ajeet Singh, Balbeer Singh S/o Ajeet Singh and Others
				24//4	Min	Private	Irrigated	6	16	0.3439	Sanjeev Kumar S/o Parvesh chandar, Parvesh Chander S/o Krishanlal, Sanni Saluja S/o Jagdish Chandar, Suresh Kumari W/o Parvesh chandar, Anubhav Kumar S/o Sunil Kumar, Sagun Kumari D/o Shusheel Kumar and Others

				24/5	Min	Private	Irrigated	6	10	0.3288	Sanjeev Kumar S/o Parvesh chandar, Parvesh Chander S/o Krishanlal, Sanni Saluja S/o Jagdish Chandar, Suresh Kumari W/o Parvesh chandar, Anubhav Kumar S/o Sunil Kumar, Sagun Kumari D/o Shusheel Kumar and Others
				24/6	Min	Private	Irrigated	6	17	0.3465	Sanjeev Kumar S/o Parvesh chandar, Parvesh Chander S/o Krishanlal, Sanni Saluja S/o Jagdish Chandar, Suresh Kumari W/o Parvesh chandar, Anubhav Kumar S/o Sunil Kumar, Sagun Kumari D/o Shusheel Kumar and Others
				24/7	Min	Private	Irrigated	8	0	0.4046	Sanjeev Kumar S/o Parvesh chandar, Parvesh Chander S/o Krishanlal, Sanni Saluja S/o Jagdish Chandar, Suresh Kumari W/o Parvesh chandar, Anubhav Kumar S/o Sunil Kumar, Sagun Kumari D/o Shusheel Kumar and Others
				24/8	Min	Private	Irrigated	7	15	0.3920	Jagjeet Kaur Wd/o Gurdeep Singh, Devendar Singh S/o Gurdeep Singh, Parmindar Singh S/o Gurdeep Singh, Jaswindar Singh S/o Gurdeep Singh, Piratpal Singh s/o Hardev Singh, Buta Singh S/o ajeet Singh, Darshan Singh S/o Ajeet Singh, Balbeer Singh S/o Ajeet Singh and Others
				24/9	Min	Private	Irrigated	0	12	0.0303	Jagjeet Kaur Wd/o Gurdeep Singh, Devendar Singh S/o Gurdeep Singh, Parmindar Singh S/o Gurdeep Singh, Jaswindar Singh S/o Gurdeep Singh, Piratpal Singh s/o Hardev Singh, Buta Singh S/o ajeet Singh, Darshan Singh S/o Ajeet Singh, Balbeer Singh S/o Ajeet Singh and Others

				24//12	Min	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Jagjeet Kaur Wd/o Gurdeep Singh, Devendar Singh S/o Gurdeep Singh, Parmindar Singh S/o Gurdeep Singh, Jaswindar Singh S/o Gurdeep Singh, Piratpal Singh s/o Hardev Singh, Buta Singh S/o ajeet Singh, Darshan Singh S/o Ajeet Singh, Balbeer Singh S/o Ajeet Singh and Others
				24//13	Min	Private	Irrigated	3	0	0.1517	Jagjeet Kaur Wd/o Gurdeep Singh, Devendar Singh S/o Gurdeep Singh, Parmindar Singh S/o Gurdeep Singh, Jaswindar Singh S/o Gurdeep Singh, Piratpal Singh s/o Hardev Singh, Buta Singh S/o ajeet Singh and Others
				24//14	Min	Private	Irrigated	7	6	0.3692	Sanjeev Kumar S/o Parvesh chandar, Parvesh Chander S/o Krishanlal, Sanni Saluja S/o Jagdish Chandar, Suresh Kumari W/o Parvesh chandar, Anubhav Kumar S/o Sunil Kumar, Sagun Kumari D/o Shusheel Kumar and Others
				24//15	Min	Private	Irrigated	4	0	0.2023	Sanjeev Kumar S/o Parvesh chandar, Parvesh Chander S/o Krishanlal, Sanni Saluja S/o Jagdish Chandar, Suresh Kumari W/o Parvesh chandar, Anubhav Kumar S/o Sunil Kumar, Sagun Kumari D/o Shusheel Kumar and Others
				24//16/2	Min	Private	Irrigated	1	2	0.0556	Anil Jain S/o Sardarilal, Deepak Bajaj S/o Shyamlal Bajaj, Rajindar Parmar S/o Lal ji Ram, Hardev Singh S/o Nika Singh, Chandar Kiran Jain S/o Ram Chand Jain, Sunita Rani W/o Chandar kiran Jain, Abhinandan Jain S/o Susheel Kumar Jain, Aniket Jain S/o Bhushan Kumar And Others

				24//17/1	Min	Private	Irrigated	5	3	0.2605	Anil Jain S/o Sardarilal, Deepak Bajaj S/o Shyamlal Bajaj, Rajindar Parmar S/o Lal ji Ram, Hardev Singh S/o Nika Singh, Chandar Kiran Jain S/o Ram Chand Jain, Sunita Rani W/o Chandar kiran Jain, Abhinandan Jain S/o Susheel Kumar Jain, Aniket Jain S/o Bhushan Kumar And Others
				24//17/2	Min	Private	Irrigated	1	10	0.0759	Anil Jain S/o Sardarilal, Deepak Bajaj S/o Shyamlal Bajaj, Rajindar Parmar S/o Lal ji Ram, Hardev Singh S/o Nika Singh, Chandar Kiran Jain S/o Ram Chand Jain, Sunita Rani W/o Chandar kiran Jain, Abhinandan Jain S/o Susheel Kumar Jain, Aniket Jain S/o Bhushan Kumar And Others
				24//23	Min	Private	Irrigated	1	14	0.0860	Radhika Rani W/o Harish Kumar Monika Rani W/o Lalit Kumar, Harish Kumar S/o N.D. Kumar, Lalit Chopra S/o ND Chopra, Sunil Modi S/o Ramsarup, Sapna Modi W/o Sunil Modi and Others
				24//24	Min	Private	Irrigated	8	0	0.4046	Radhika Rani W/o Harish Kumar Monika Rani W/o Lalit Kumar, Harish Kumar S/o N.D. Kumar, Lalit Chopra S/o ND Chopra, Sunil Modi S/o Ramsarup, Sapna Modi W/o Sunil Modi and Others
				24//25	Min	Private	Irrigated	4	13	0.2352	25/1- Anil Jain S/o Sardarilal, Deepak Bajaj S/o Shyamlal Bajaj, Rajindar Parmar S/o Lal ji Ram, Hardev Singh S/o Nika Singh, Chandar Kiran Jain S/o Ram Chand Jain, Sunita Rani W/o Chandar kiran Jain, Abhinandan Jain S/o Susheel Kumar Jain, Aniket Jain S/o Bhushan Kumar And Others 25/2 Anil Kumar Jain S/o

											Parduman Kumar Jain
				26//3/1	Min	Private	Irrigated	2	6	0.1163	Bhagwant Singh S/o Jodh Singh
				26//3/2		Private	Irrigated	2	8	0.1214	Paramjeet Kaur W/o Saudagar Singh, Bhagwant Singh S/o Jodh Singh
				26//4	Min	Private	Irrigated	6	18	0.3490	Paramjeet Kaur W/o Saudagar Singh, Bhagwant Singh S/o Jodh Singh
				26//5	Min	Private	Irrigated	6	18	0.3490	Paramjeet Kaur W/o Saudagar Singh, Bhagwant Singh S/o Jodh Singh
				26//6	Min	Private	Irrigated	1	18	0.0961	Paramjeet Kaur W/o Saudagar Singh, Bhagwant Singh S/o Jodh Singh
				26//7	Min	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Surindar Kaur W/o Arvinder Singh, Randheer Singh S/o AmarSingh, Dalip Kaur W/o Randheer Singh, Sandeep Singh S/o Randheer Singh, Devendarjeet Kaur W/o Jarnail Singh, Baldev Singh S/o Randheer Singh
				26//8	Min	Private	Irrigated	5	19	0.3010	Surindar Kaur W/o Arvinder Singh, Randheer Singh S/o AmarSingh, Dalip Kaur W/o Randheer Singh, Sandeep Singh S/o Randheer Singh, Devendarjeet Kaur W/o Jarnail Singh, Baldev Singh S/o Randheer Singh
				64	Min	Government	Non-Irrigated	0	18	0.0455	Provinsal Government
				65	Min	Government	Non-Irrigated	0	16	0.0405	Panchyat Deh
				69	Min	Government	Non-Irrigated	0	4	0.0101	Panchyat Deh
				26//13/2	Min	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Panchyat Deh
				27//1	Min	Private	Irrigated	7	9	0.3768	Jaspal Singh S/o Amarjeet Singh, Kamlesh W/o Subhash Saini, Satindar Kumar S/o Khushi Ram, Syamsundar S/o Omprakash, Manoj Kumar S/o Babu



											Ram, Shashibala W/o Vijay Kumar and Others
				27//2/1	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Jaspal Singh S/o Amarjeet Singh, Kamlesh W/o Subhash Saini, Satindar Kumar S/o Khushi Ram, Syamsundar S/o Omprakash, Manoj Kumar S/o Babu Ram, Shashibala W/o Vijay Kumar and Others
				58	Min	Panchyat	Path	0	10	0.0253	Panchyat Deh
				27//9	Min	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Jaspal Singh S/o Amarjeet Singh, Kamlesh W/o Subhash Saini, Satindar Kumar S/o Khushi Ram, Syamsundar S/o Omprakash, Manoj Kumar S/o Babu Ram, Shashibala W/o Vijay Kumar and Others
				27//10	Min	Private	Irrigated	5	5	0.2655	Jaspal Singh S/o Amarjeet Singh, Kamlesh W/o Subhash Saini, Satindar Kumar S/o Khushi Ram, Syamsundar S/o Omprakash, Manoj Kumar S/o Babu Ram, Shashibala W/o Vijay Kumar and Others
			5. Bagga kalan	5//19	Min	Private	Irrigated	1	10	0.0759	Prem Singh, Dewindar Singh, Amar Singh, Pal Singh Urf Harpal Singh ,Surindarpal urf Sindar Urf Surindar Singh S/o Tara Singh, Harjindar Singh S/o Gurdev Singh and Others
				5//20		Private	Irrigated	0	17	0.0430	Prem Singh, Dewindar Singh, Amar Singh, Pal Singh Urf Harpal Singh ,Surindarpal urf Sindar Urf Surindar Singh S/o Tara Singh, Harjindar Singh S/o Gurdev Singh and Others
				5//21	Min	Private	Irrigated	5	12	0.2832	Prem Singh, Dewindar Singh, Amar Singh, Pal Singh Urf Harpal Singh ,Surindarpal urf

											Sindar Urf Surindar Singh S/o Tara Singh, Harjindar Singh S/o Gurdev Singh and Others
				5//22	Min	Private	Irrigated	1	18	0.0961	Prem Singh, Dewindar Singh, Amar Singh, Pal Singh Urf Harpal Singh ,Surindarpal urf Sindar Urf Surindar Singh S/o Tara Singh, Harjindar Singh S/o Gurdev Singh and Others
				10//1	Min	Private	Irrigated	6	18	0.3490	Prem Singh, Tejindar Singh, Amar Singh, Harpal Singh S/o Tara Singh,Surindarpal urf Sindar Urf Surindar Singh S/o Tara Singh, Harbans Kaur Wd/o Gurdev Singh and Others
				10//2	Min	Private	Irrigated	0	10	0.0253	Prem Singh, Tejindar Singh, Amar Singh, Harpal Singh S/o Tara Singh,Surindarpal urf Sindar Urf Surindar Singh S/o Tara Singh, Harbans Kaur Wd/o Gurdev Singh and Others
				10//10/1	Min	Private	Irrigated	3	14	0.1871	Prem Singh, Tejindar Singh, Amar Singh, Harpal Singh S/o Tara Singh,Surindarpal urf Sindar Urf Surindar Singh S/o Tara Singh, Harbans Kaur Wd/o Gurdev Singh and Others
				10//10/2	Min	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Balak Singh S/o Harbhajan Singh
				10//11	Min	Private	Irrigated	7	4	0.3642	Balak Singh S/o Harbhajan Singh
				10//20/1	Min	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Balak Singh S/o Harbhajan Singh
				10//20/2	Min	Private	Irrigated	6	4	0.3136	Balak Singh S/o Harbhajan Singh
				10//21/1	Min	Private	Irrigated	5	0	0.2529	Balak Singh S/o Harbhajan Singh
				10//21/2	Min	Private	Irrigated	1	6	0.0658	Ganda Singh S/o Kaku Singh, Anju Gupta W/o Vinod Kumar, Manju Gupta W/o Anil Kumar,M/S Jain Enterprizes Private Limited, Sakandar Singh S/o Sadhu Singh, Ramnik Kaur W/o Kulbindar Sandha

				17//1	Min	Private	Irrigated	7	3	0.3616	Ganda Singh S/o Kaku Singh, Anju Gupta W/o Vinod Kumar, Manju Gupta W/o Anil Kumar, M/S Jain Enterprizes Private Limited, Sakandar Singh S/o Sadhu Singh, Ramnik Kaur W/o Kulbindar Sandha
				17//10	Min	Private	Irrigated	7	4	0.3642	Ganda Singh S/o Kaku Singh, Anju Gupta W/o Vinod Kumar, Manju Gupta W/o Anil Kumar, M/S Jain Enterprizes Private Limited, Sakandar Singh S/o Sadhu Singh, Ramnik Kaur W/o Kulbindar Sandha
				17//11	Min	Private	Irrigated	7	4	0.3642	Davindar Singh, Amar Singh, Harpal Singh Ss/o Tara Singh, Baljindar Kaur D/o Gurdev Singh, Harbans kaur Wd/o Gurdev Singh, Harjindar Singh S/o Gurdev Singh and Others
				17//19/1	Min	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Jeet Singh S/o Prem Singh
				17//20/1	Min	Private	Irrigated	3	2	0.1568	Davindar Singh, Amar Singh, Harpal Singh Ss/o Tara Singh, Baljindar Kaur D/o Gurdev Singh, Harbans kaur Wd/o Gurdev Singh, Harjindar Singh S/o Gurdev Singh and Others
				17//20/2	Min	Private	Irrigated	1	2	0.0556	Gurmeet Singh S/o Jeet Singh, Rachhpal Singh S/o Jeet Singh
				70	Min	Government	Road	3	0	0.1517	Gram Panchayat
				17//21	Min	Private	Irrigated	5	16	0.2934	Gurmeet Singh S/o Jeet Singh, Rachhpal Singh S/o Jeet Singh, Jeet Singh S/o Prem Singh
				17//22	Min	Private	Irrigated	1	14	0.0860	Jeet Singh S/o Prem Singh
				22//1	Min	Private	Irrigated	3	10	0.1770	Gurmit Singh S/o Jeet Singh, Richhpal Singh S/o Jeet Singh
				22//2	Min	Private	Irrigated	3	15	0.1897	Gurmit Singh S/o Jeet Singh, Richhpal Singh S/o Jeet Singh

				22/8	Min	Private	Irrigated	0	16	0.0405	8/1/1- Kehar Singh S/o Thakur Singh, 8/1/2- Kehar Singh S/o Thakur Singh, Lohara Singh S/o Inder Singh, Jeet Singh S/o Prem Singh, 8/2- Gurdeep Singh S/o Charan Singh, Ajit Singh S/o Charan Singh, Gurmeet Singh S/o Jeet Singh, Rachhpal Singh S/o Jeet Singh,
				22/9	Min	Private	Irrigated	7	2	0.3591	Gurdeep Singh S/o Charan Singh, Ajit Singh S/o Charan Singh, Gurmeet Singh S/o Jeet Singh, Rachhpal Singh S/o Jeet Singh
				22/10	Min	Private	Irrigated	0	13	0.0329	Gurmit Singh S/o Jeet Singh, Richhpal Singh S/o Jeet Singh
				22/12	Min	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Gurdeep Singh S/o Charan Singh, Ajit Singh S/o Charan Singh, Gurmeet Singh S/o Jeet Singh, Rachhpal Singh S/o Jeet Singh
				22/13	Min	Private	Irrigated	5	12	0.2832	Gurdeep Singh S/o Charan Singh, Ajit Singh S/o Charan Singh, Gurmeet Singh S/o Jeet Singh, Rachhpal Singh S/o Jeet Singh
				22/14	Min	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Gurdeep Singh S/o Charan Singh, Ajit Singh S/o Charan Singh, Gurmeet Singh S/o Jeet Singh, Rachhpal Singh S/o Jeet Singh
				22/17	Min	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Gram Panchayat Kast Jeet Singh S/o Prem Singh
				22/18	Min	Private	Irrigated	6	0	0.3035	Gurmit Singh S/o Jeet Singh, Richhpal Singh S/o Jeet Singh
				22/23	Min	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Gurmit Singh S/o Jeet Singh, Richhpal Singh S/o Jeet Singh
				22/24	Min	Private	Irrigated	6	14	0.3389	Gram Panchayat Kast Jeet Singh S/o Prem Singh
				22/25	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Gurdev Kaur Mata Manroop Singh, Samreet Kaur D/o Manroop Kaur, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Ravindar Singh S/o Balbeer Singh

				28//1	Min	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Gurdev Kaur Mata Manroop Singh, Samreet Kaur D/o Manroop Kaur, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Ravindar Singh S/o Balbeer Singh
				28//10	Min	Private	Irrigated	4	4	0.2124	Gurdev Kaur Mata Manroop Singh, Samreet Kaur D/o Manroop Kaur, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Ravindar Singh S/o Balbeer Singh
				28//11	Min	Private	Irrigated	7	10	0.3794	Gurdev Kaur Mata Manroop Singh, Samreet Kaur D/o Manroop Kaur, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Ravindar Singh S/o Balbeer Singh
				28//12	Min	Private	Irrigated	1	8	0.0708	12/1-Gurdev Kaur Mata Manroop Singh, Samreet Kaur D/o Manroop Kaur, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Ravindar Singh S/o Balbeer Singh, 12/2-Bindarpal Singh S/o Jasbeer inder Singh Inderpal Singh, Jagmohan Singh S/o Sundar Singh and Others
				28//19	Min	Private	Irrigated	5	16	0.2934	Gurdev Kaur Mata Manroop Singh, Samreet Kaur D/o Manroop Kaur, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Ravindar Singh S/o Balbeer Singh
				28//20	Min	Private	Irrigated	2	8	0.1214	Gurdev Kaur Mata Manroop Singh, Samreet Kaur D/o Manroop Kaur, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Ravindar Singh S/o Balbeer Singh
				28//22	Min	Private	Irrigated	5	2	0.2580	Gurdev Kaur Mata Manroop Singh, Samreet Kaur D/o Manroop Kaur, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Ravindar Singh S/o Balbeer Singh
				28//23	Min	Private	Irrigated	2	0	0.1012	Gurdev Kaur Mata Manroop Singh, Samreet Kaur D/o Manroop Kaur, Muntab Singh S/o Manroop Singh,

											Ravindar Singh S/o Balbeer Singh
				29//4	Min	Private	Irrigated	1	16	0.0910	Gurdev Kaur Mata Manroop Singh, Samreet Kaur D/o Manroop Kaur, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Ravindar Singh S/o Balbeer Singh
				29//6	Min	Private	Irrigated	5	4	0.2630	Gurdev Kaur Mata Manroop Singh, Samreet Kaur D/o Manroop Kaur, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Ravindar Singh S/o Balbeer Singh
				29//15	Min	Private	Irrigated	0	10	0.0253	Balbeer Singh S/o Takhat Singh, Anoop raj Singh S/o Ravindar Singh
				35//2	Min	Private	Irrigated	2	14	0.1366	Gurdev Kaur Mata Manroop Singh, Samreet Kaur D/o Manroop Kaur, Ravindar Singh S/o Balbeer Singh, Muntab Singh S/o Manroop Singh
				35//3	Min	Private	Irrigated	4	2	0.2074	Gurdev Kaur Mata Manroop Singh, Samreet Kaur D/o Manroop Kaur, Ravindar Singh S/o Balbeer Singh, Muntab Singh S/o Manroop Singh
				35//8	Min	Private	Irrigated	4	16	0.2428	Gram Panchayat
				35//9	Min	Private	Irrigated	1	16	0.0910	Gram Panchayat
				35//12	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Gram Panchayat
				35//13	Min	Private	Irrigated	4	18	0.2478	Gram Panchayat
				35//18	Min	Private	Irrigated	4	16	0.2428	Sukhdev Kaur Wd/o Harnek Singh, Manjeet Singh S/o Harnek Singh, Udho Singh S/o Ram Singh, Gurmej Singh S/o Bawa Singh, Jaswant Kaur Wd/o Nirmal Singh, Bahadar Singh S/o Udho Singh
				35//19/1	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Sukhdev Kaur Wd/o Harnek Singh Singh, Manjeet Singh S/o Harnek Singh, Gurmej Singh S/o Bawa Singh, Jaswant Kaur Wd/o Nirmal Singh
				35//22	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Sukhdev Kaur Wd/o Harnek Singh, Manjeet Singh S/o Harnek Singh, Gurmej Singh S/o Bawa

											Singh, Jaswant Kaur Wd/o Nirmal Singh
				35//23	Min	Private	Irrigated	4	16	0.2428	Sukhdev Kaur Wd/o Harnek Singh, Manjeet Singh S/o Harnek Singh,Udho Singh S/o Ram Singh, Gurmej Singh S/o Bawa Singh, Jaswant Kaur Wd/o Nirmal Singh, Bahadar Singh S/o Udho Singh
				40//2	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Sukhdev Kaur Wd/o Harnek Singh, Manjeet Singh S/o Harnek Singh, Gurmej Singh S/o Bawa Singh, Jaswant Kaur Wd/o Nirmal Singh
				40//3	Min	Private	Irrigated	4	16	0.2428	Sukhdev Kaur Wd/o Harnek Singh, Manjeet Singh S/o Harnek Singh,Udho Singh S/o Ram Singh, Gurmej Singh S/o Bawa Singh, Jaswant Kaur Wd/o Nirmal Singh, Bahadar Singh S/o Udho Singh
				40//8	Min	Private	Irrigated	4	11	0.2301	Sukhdev Kaur Wd/o Harnek Singh, Manjeet Singh S/o Harnek Singh,Udho Singh S/o Ram Singh, Gurmej Singh S/o Bawa Singh, Jaswant Kaur Wd/o Nirmal Singh, Bahadar Singh S/o Udho Singh
				40//9/1	Min	Private	Irrigated	0	12	0.0303	Sukhdev Kaur Wd/o Harnek Singh, Manjeet Singh S/o Harnek Singh,Udho Singh S/o Ram Singh, Gurmej Singh S/o Bawa Singh, Jaswant Kaur Wd/o Nirmal Singh, Bahadar Singh S/o Udho Singh
				40//9/2	Min	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Anoopraj Singh S/o Ravindar Singh, Balbeer Singh S/o Takhat Singh, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Samrit Kaur D/o Manroop, Gurdev Kaur M/o Manroop Singh,Mohan Singh S/o Amar Kaur, Kuldeep Kaur S/o Amar Kaur, Sakuntla Devi W/o Jaupati ram and Others

				40//12	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Anoopraj Singh S/o Ravindar Singh, Balbeer Singh S/o Takhat Singh, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Samrit Kaur D/o Manroop, Gurdev Kaur M/o Manroop Singh, Mohan Singh S/o Amar Kaur, Kuldeep Kaur S/o Amar Kaur, Sakuntla Devi W/o Jaupati ram and Others
				40//13/1		Private	Irrigated	3	12	0.1821	Anoopraj Singh S/o Ravindar Singh, Balbeer Singh S/o Takhat Singh, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Samrit Kaur D/o Manroop, Gurdev Kaur M/o Manroop Singh, Mohan Singh S/o Amar Kaur, Kuldeep Kaur S/o Amar Kaur, Sakuntla Devi W/o Jaupati ram and Others
				40//13/2	Min	Private	Irrigated	1	4	0.0607	Anoopraj Singh S/o Ravindar Singh, Balbeer Singh S/o Takhat Singh, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Samrit Kaur D/o Manroop, Gurdev Kaur M/o Manroop Singh, Mohan Singh S/o Amar Kaur, Kuldeep Kaur S/o Amar Kaur, Sakuntla Devi W/o Jaupati ram and Others
				40//18	Min	Private	Irrigated	4	16	0.2428	Anoopraj Singh S/o Ravindar Singh, Balbeer Singh S/o Takhat Singh, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Samrit Kaur D/o Manroop, Gurdev Kaur M/o Manroop Singh, Mohan Singh S/o Amar Kaur, Kuldeep Kaur S/o Amar Kaur, Sakuntla Devi W/o Jaupati ram and Others
				40//19	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Anoopraj Singh S/o Ravindar Singh, Balbeer Singh S/o Takhat Singh, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Samrit Kaur D/o Manroop, Gurdev Kaur M/o Manroop Singh, Mohan Singh S/o Amar Kaur, Kuldeep Kaur S/o Amar Kaur, Sakuntla Devi W/o Jaupati ram



											and Others
				40//22	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Anoopraj Singh S/o Ravindar Singh, Balbeer Singh S/o Takhat Singh, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Samrit Kaur D/o Manroop, Gurdev Kaur M/o Manroop Singh, Mohan Singh S/o Amar Kaur, Kuldeep Kaur S/o Amar Kaur, Sakuntla Devi W/o Jaupati ram and Others
				40//23	Min	Private	Irrigated	4	16	0.2428	Anoopraj Singh S/o Ravindar Singh, Balbeer Singh S/o Takhat Singh, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Samrit Kaur D/o Manroop, Gurdev Kaur M/o Manroop Singh, Mohan Singh S/o Amar Kaur, Kuldeep Kaur S/o Amar Kaur, Sakuntla Devi W/o Jaupati ram and Others
				47//2/2	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Anoopraj Singh S/o Ravindar Singh, Balbeer Singh S/o Takhat Singh, Mantab Singh S/o Manroop Singh, Mohan Singh S/o Amar Kaur, Kuldeep Singh S/o Amar Singh, Sarindar Kaur W/o Surindarpal Singh, Barindar Kumar S/o Vedprakash and Others
				47//3/1	Min	Private	Irrigated	2	0	0.1012	Anoopraj Singh S/o Ravindar Singh, Balbeer Singh S/o Takhat Singh, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Samrit Kaur D/o Manroop, Gurdev Kaur M/o Manroop Singh, Mohan Singh S/o Amar Kaur, Kuldeep Kaur S/o Amar Kaur, Sakuntla Devi W/o Jaupati ram and Others

				47//3/2	Min	Private	Irrigated	2	11	0.1290	Anoopraj Singh S/o Ravindar Singh, Balbeer Singh S/o Takhat Singh, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Samrit Kaur D/o Manroop, Gurdev Kaur M/o Manroop Singh, Mohan Singh S/o Amar Kaur, Kuldeep Kaur S/o Amar Kaur, Sakuntla Devi W/o Jaupati ram and Others
				47//8	Min	Private	Irrigated	4	16	0.2428	Anoopraj Singh S/o Ravindar Singh, Balbeer Singh S/o Takhat Singh, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Samrit Kaur D/o Manroop, Gurdev Kaur M/o Manroop Singh, Mohan Singh S/o Amar Kaur, Kuldeep Kaur S/o Amar Kaur, Sakuntla Devi W/o Jaupati ram and Others
				47//9	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Anoopraj Singh S/o Ravindar Singh, Balbeer Singh S/o Takhat Singh, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Samrit Kaur D/o Manroop, Gurdev Kaur M/o Manroop Singh, Mohan Singh S/o Amar Kaur, Kuldeep Kaur S/o Amar Kaur, Sakuntla Devi W/o Jaupati ram and Others
				47//12/1	Min	Private	Irrigated	1	10	0.0759	Parmindar Singh S/o Ajaib Singh, Gurmeet Singh S/o Ajaib Singh
				47//12/2	Min	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Ajaib Singh S/o Santa Singh
				47//13/1	Min	Private	Irrigated	1	7	0.0683	Piratpal Singh, Karnail Singh, Tarlochan Singh S/o Harchand Singh, Devendar Singh S/o Mejar Singh, Warindarpal S/o Mejar Singh
				47//13/2	Min	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Anoopraj Singh S/o Ravindar Singh, Balbeer Singh S/o Takhat Singh, Muntab Singh S/o Manroop Singh, Samrit Kaur D/o Manroop, Gurdev Kaur M/o Manroop Singh, Mohan Singh S/o Amar Kaur, Kuldeep Kaur S/o Amar Kaur, Sakuntla Devi W/o Jaupati ram and Others

				47//18	Min	Private	Irrigated	4	16	0.2428	Parmindar Singh S/o Ajaib Singh, Gurmeet Singh S/o Ajaib Singh
				47//19	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Parmindar Singh S/o Ajaib Singh, Gurmeet Singh S/o Ajaib Singh
				47//22	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Parmindar Singh S/o Ajaib Singh, Gurmeet Singh S/o Ajaib Singh
				47//23	Min	Private	Irrigated	4	16	0.2428	Parmindar Singh S/o Ajaib Singh, Gurmeet Singh S/o Ajaib Singh
				51//2	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Parmindar Singh S/o Ajaib Singh, Gurmeet Singh S/o Ajaib Singh
				51//3	Min	Private	Irrigated	4	16	0.2428	Parmindar Singh S/o Ajaib Singh, Gurmeet Singh S/o Ajaib Singh
				51//8	Min	Private	Irrigated	3	4	0.1619	Parmindar Singh S/o Ajaib Singh, Gurmeet Singh S/o Ajaib Singh
				51//9	Min	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Parmindar Singh S/o Ajaib Singh, Gurmeet Singh S/o Ajaib Singh
				66	Min	Government	Non-Irrigated	1	4	0.0607	Gram Panchyat
			6. Chahar	5//16	Min	Private	Irrigated	2	16	0.1416	Gurnam Singh S/o Fauja Singh, Samser Singh S/o Daler Singh, Gurdev Singh S/o Daler Singh, Jangeer Singh S/o Amar Singh, Parsan Singh S/o Amar Singh, Pyara Singh S/o Gulab Singh and Others
				5//17	Min	Private	Irrigated	3	10	0.1770	Gurnam Singh S/o Fauja Singh, Samser Singh S/o Daler Singh, Gurdev Singh S/o Daler Singh, Jangeer Singh S/o Amar Singh, Parsan Singh S/o Amar Singh, Pyara Singh S/o Gulab Singh and Others
				5//22	Min	Private	Irrigated	0	6	0.0152	Harbhajan Singh S/o Gurbachan Singh, Indar Singh S/o Gurmukh Singh, Jogindar Singh S/o Gurmukh Singh, Satnam Singh S/o Gurmukh Singh, Pyara Kaur W/o Santa Singh and Others
				5//23/1	Min	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Jogindar Singh, Indar Singh, Satnam Singh Ss/o Gurmukh Singh, Ganga Ram S/o Gulab Singh, Gurnam Singh S/o Fauja Singh and Others

				5//23/2	Min	Private	Irrigated	1	8	0.0708	Gurnam Singh S/o Fauja Singh, Samser Singh S/o Daler Singh, Gurdev Singh S/o Daler Singh, Jangeer Singh S/o Amar Singh, Parsan Singh S/o Amar Singh, Pyara Singh S/o Gulab Singh and Others
				5//24	Min	Private	Irrigated	7	0	0.3541	Gurnam Singh S/o Fauja Singh, Samser Singh S/o Daler Singh, Gurdev Singh S/o Daler Singh, Jangeer Singh S/o Amar Singh, Parsan Singh S/o Amar Singh, Pyara Singh S/o Gulab Singh and Others
				5//25	Min	Private	Irrigated	0	14	0.0354	Gurnam Singh S/o Fauja Singh, Samser Singh S/o Daler Singh, Gurdev Singh S/o Daler Singh, Jangeer Singh S/o Amar Singh, Parsan Singh S/o Amar Singh, Pyara Singh S/o Gulab Singh and Others
				10//15		Private	Irrigated	3	12	0.1821	Gurwindar Kaur W/o Gurjeet Singh, Harmel Singh S/o Dalip Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Nama Ram
				10//16/1	Min	Private	Irrigated	6	12	0.3338	Gurwindar Kaur W/o Gurjeet Singh, Harmel Singh S/o Dalip Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Nama Ram
				10//16/2		Private	Irrigated	0	4	0.0101	Gurwindar Kaur W/o Gurjeet Singh, Harmel Singh S/o Dalip Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Nama Ram
				10//17		Private	Irrigated	1	10	0.0759	Gurwindar Kaur W/o Gurjeet Singh, Harmel Singh S/o Dalip Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Nama Ram
				10//23		Private	Irrigated	0	6	0.0152	Amarjeet Singh S/o Natha Singh
				10//24	Min	Private	Irrigated	6	16	0.3439	Amarjeet Singh S/o Natha Singh, Rajindar Kaur D/o Banta Singh
				10//25	Min	Private	Irrigated	8	0	0.4046	Amarjeet Singh S/o Natha Singh

				31	Min	Government	Road	1	16	0.0910	Samlat Deh
				11//1		Private	Irrigated	0	15	0.0379	Amar Singh S/o Nihal Singh, Gurnam Singh, Mahindar Singh, Giyan Singh, Balbindar Singh S/o Amar Singh
				11//2/1	Min	Private	Irrigated	3	1	0.1543	Gurvindar Kaur Wd/o Gurjeet Singh, Navjot Kaur D/o Gurjeet Singh, Gurkirat Singh S/o Gurjeet Singh, Tavindar Singh S/o Manmohan Singh, Navpreet Kaur D/o Manmohan Singh, Preetam Singh S/o Gurmukh Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Kamal Kumar and Others
				11//2/2	Min	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Sewa Singh S/o Dharam Singh, Ranjeet Singh S/o Sewa Singh, Surindar Kaur Wd/o Sewa Singh, Harbhajan Singh S/o Ganga Singh, Gurbachan Singh S/o Ganga Singh, Jodh Singh S/o Karnail Singh
				11//3	Min	Private	Irrigated	7	1	0.3566	Gurnam Singh S/o Fauja Singh, Samser Singh S/o Daler Singh, Gurdev Singh S/o Daler Singh, Jangeer Singh S/o Amar Singh, Parsan Singh S/o Amar Singh, Pyara Singh S/o Gulab Singh and Others
				11//4	Min	Private	Irrigated	2	4	0.1113	4/1-Gurnam Singh S/o Fauja Singh, Samser Singh S/o Daler Singh, Gurdev Singh S/o Daler Singh, Jangeer Singh S/o Amar Singh, Parsan Singh S/o Amar Singh, Pyara Singh S/o Gulab Singh and Others, 4/2- Sher Singh S/o Rola Singh
				11//7	Min	Private	Irrigated	2	12	0.1315	Sher Singh S/o Rola Singh
				11//8/1		Private	Irrigated	4	0	0.2023	Gurnam Singh S/o Fauja Singh, Samser Singh S/o Daler Singh, Gurdev Singh S/o Daler Singh, Jangeer Singh S/o Amar Singh, Parsan Singh S/o Amar Singh, Pyara Singh

											S/o Gulab Singh and Others
				11/8/2		Private	Irrigated	3	4	0.1619	Sucha Singh, Preetm Singh, Indar Singh, Jogindar Singh, Surindar Singh, Satnam Singh Ss/o Gurmukh Singh
				11/9		Private	Irrigated	8	0	0.4046	Gurvindar Kaur Wd/o Gurjeet Singh, Navjot Kaur D/o Gurjeet Singh, Gurkirat Singh S/o Gurjeet Singh, Tavindar Singh S/o Manmohan Singh, Navpreet Kaur D/o Manmohan Singh, Preetam Singh S/o Gurmukh Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Kamal Kumar and Others
				11/10	Min	Private	Irrigated	5	15	0.2908	Gurvindar Kaur Wd/o Gurjeet Singh, Navjot Kaur D/o Gurjeet Singh, Gurkirat Singh S/o Gurjeet Singh, Tavindar Singh S/o Manmohan Singh, Navpreet Kaur D/o Manmohan Singh, Preetam Singh S/o Gurmukh Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Kamal Kumar and Others
				11/11		Private	Irrigated	8	0	0.4046	Gurwindar Kaur W/o Gurjeet Singh, Harmel Singh S/o Dalip Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Nama Ram
				11/12		Private	Irrigated	8	0	0.4046	Gurwindar Kaur W/o Gurjeet Singh, Harmel Singh S/o Dalip Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Nama Ram
				11/13	Min	Private	Irrigated	7	5	0.3667	13/1-Gurmukh Singh S/o Nihal Singh, 13/2-Gurwindar Kaur W/o Gurjeet Singh, Harmel Singh S/o Dalip Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Nama Ram
				11/14/1	Min	Private	Irrigated	0	5	0.0126	Gurmukh Singh S/o Nihal Singh
				11/14/2	Min	Private	Irrigated	0	5	0.0126	Sher Singh S/o Rola Singh

				11/18	Min	Private	Irrigated	2	3	0.1087	Gurwinder Kaur W/o Gurjeet Singh, Harmel Singh S/o Dalip Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Nama Ram
				11/19/1	Min	Private	Irrigated	7	6	0.3692	Tawindar Singh S/o Manmohan Singh, Gurvinder Kaur D/o Gurjeet Singh, Gurkirat Singh S/o Gurjeet Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Kamal Kumar and Others
				11/19/2		Private	Irrigated	0	12	0.0303	Gurwinder Kaur W/o Gurjeet Singh, Harmel Singh S/o Dalip Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Nama Ram
				11/20		Private	Irrigated	8	0	0.4046	Gurwinder Kaur W/o Gurjeet Singh, Harmel Singh S/o Dalip Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Nama Ram
				11/21		Private	Irrigated	8	0	0.4046	Gurwinder Kaur Wd/o Gurjeet Singh, Navjot Kaur D/o Gurjeet Singh, Gurkirat Singh S/o Gurjeet Singh, Tavindar Singh S/o Manmohan Singh, Navpreet Kaur D/o Manmohan Singh, Preetam Singh S/o Gurmukh Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Kamal Kumar and Others
				11/22	Min	Private	Irrigated	4	12	0.2327	Gurwinder Kaur Wd/o Gurjeet Singh, Navjot Kaur D/o Gurjeet Singh, Gurkirat Singh S/o Gurjeet Singh, Tavindar Singh S/o Manmohan Singh, Preetam Singh S/o Gurmukh Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram and Others
				13-14/1	Min	Private	Irrigated	6	15	0.3414	1/1- Harmel Singh S/o Dalip Singh, 1/2- Gurwinder Kaur Wd/o Gurjeet Singh, Navjot Kaur D/o Gurjeet Singh, Gurkirat Singh S/o Gurjeet Singh, Tavindar Singh S/o Manmohan Singh, Navpreet Kaur D/o

											Manmohan Singh, Preetam Singh S/o Gurmukh Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Kamal Kumar and Others
				13-14/2	Min	Private	Irrigated	0	6	0.0152	2/1-Harmel Singh S/o Dalip Singh, 2/2- Gurvindar Kaur Wd/o Gurjeet Singh, Navjot Kaur D/o Gurjeet Singh, Gurkirat Singh S/o Gurjeet Singh, Tavindar Singh S/o Manmohan Singh, Navpreet Kaur D/o Manmohan Singh, Preetam Singh S/o Gurmukh Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Kamal Kumar and Others
				13-14/10	Min	Private	Irrigated	1	10	0.0759	Harmel Singh S/o Dalip Singh
				15/3	Min	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Amarjeet Singh S/o Natha Singh
				15/4	Min	Private	Irrigated	6	4	0.3136	Amarjeet Singh S/o Natha Singh
				15/5		Private	Irrigated	8	0	0.4046	5/1-Harmel Singh S/o Dalip Singh, 5/2- Gurvindar Kaur Wd/o Gurjeet Singh, Navjot Kaur D/o Gurjeet Singh, Gurkirat Singh S/o Gurjeet Singh, Tavindar Singh S/o Manmohan Singh, Navpreet Kaur D/o Manmohan Singh, Preetam Singh S/o Gurmukh Singh, Kamal Kumar S/o Nama Ram, Jangeer Kaur W/o Kamal Kumar and Others
				15/6	Min	Private	Irrigated	3	18	0.1973	Amarjeet Singh S/o Natha Singh
				15/7	Min	Private	Irrigated	6	18	0.3490	Amarjeet Singh S/o Natha Singh
				15/8	Min	Private	Irrigated	1	5	0.0632	Amarjeet Singh S/o Natha Singh
				15/12	Min	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Paramjeet Singh S/o Mahindar Singh, Bahadar Singh S/o Mahindar Singh, Harmindar Kaur Wd/o Dalbeer Singh, Chaspreet Singh, Jasjeet Singh Ss/o Dalbeer Singh, Piratpal Kaur D/o Dalbeer Singh



				15/13	Min	Private	Irrigated	6	4	0.3136	Paramjeet Singh S/o Mahindar Singh, Bahadar Singh S/o Mahindar Singh, Harmindar Kaur Wd/o Dalbeer Singh, Chaspreet Singh, Jasjeet Singh Ss/o Dalbeer Singh, Piratpal Kaur D/o Dalbeer Singh
				15/14	Min	Private	Irrigated	2	12	0.1315	Paramjeet Singh S/o Mahindar Singh, Bahadar Singh S/o Mahindar Singh, Harmindar Kaur Wd/o Dalbeer Singh, Chaspreet Singh, Jasjeet Singh Ss/o Dalbeer Singh, Piratpal Kaur D/o Dalbeer Singh
				15/18	Min	Private	Irrigated	5	0	0.2529	Jasjeet Singh S/o Dalbeer Singh, Paramjeet Singh S/o Mahindar Singh, Bahadar Singh S/o Mahindar Singh, Piratpal Kaur D/o Dalbeer Singh, Chaspreet Singh S/o Dalbeer Singh, Harmindar Kaur Wd/o Dalbeer Singh
				15/19	Min	Private	Irrigated	4	8	0.2226	Jasjeet Singh S/o Dalbeer Singh, Paramjeet Singh S/o Mahindar Singh, Bahadar Singh S/o Mahindar Singh, Piratpal Kaur D/o Dalbeer Singh, Chaspreet Singh S/o Dalbeer Singh, Harmindar Kaur Wd/o Dalbeer Singh
				15/21	Min	Private	Irrigated	2	6	0.1163	Paramjeet Singh S/o Mahindar Singh, Bahadar Singh S/o Mahindar Singh, Harmindar Kaur Wd/o Dalbeer Singh, Chaspreet Singh, Jasjeet Singh Ss/o Dalbeer Singh, Piratpal Kaur D/o Dalbeer Singh
				15/22	Min	Private	Irrigated	6	16	0.3439	Paramjeet Singh S/o Mahindar Singh, Bahadar Singh S/o Mahindar Singh, Harmindar Kaur Wd/o Dalbeer Singh, Chaspreet Singh, Jasjeet Singh Ss/o Dalbeer Singh, Piratpal Kaur D/o Dalbeer Singh

				15/23	Min	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Paramjeet Singh S/o Mahindar Singh, Bahadar Singh S/o Mahindar Singh, Harmindar Kaur Wd/o Dalbeer Singh, Chaspreet Singh, Jasjeet Singh Ss/o Dalbeer Singh, Piratpal Kaur D/o Dalbeer Singh
				21/5	Min	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Jasjeet Singh S/o Dalbeer Singh, Paramjeet Singh S/o Mahindar Singh, Bahadar Singh S/o Mahindar Singh, Piratpal Kaur D/o Dalbeer Singh, Chaspreet Singh S/o Dalbeer Singh, Harmindar Kaur Wd/o Dalbeer Singh
				21/6	Min	Private	Irrigated	5	14	0.2883	Hargurpal Singh S/o Gurcharan Singh
				21/7	Min	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Jagjeet Singh S/o Gurcharan Singh
				21/14	Min	Private	Irrigated	4	0	0.2023	Jagjeet Singh S/o Gurcharan Singh
				21/15	Min	Private	Irrigated	5	4	0.2630	Hargurpal Singh S/o Gurcharan Singh
				21/16	Min	Private	Irrigated	0	10	0.0253	Gursimranjeet Agro Farm Private Limited, Arvinder Kaur D/o Hargupal Singh, Jaspal Kaur D/o Hargupal Singh
				21/17	Min	Private	Irrigated	6	17	0.3465	Gursimranjeet Agro Farm Private Limited, Arvinder Kaur D/o Hargupal Singh, Jaspal Kaur D/o Hargupal Singh
				21/18	Min	Private	Irrigated	1	7	0.0683	Gursimranjeet Agro Farm Private Limited, Arvinder Kaur D/o Hargupal Singh, Jaspal Kaur D/o Hargupal Singh
				21/23	Min	Private	Irrigated	5	18	0.2984	Gursimranjeet Agro Farm Private Limited, Arvinder Kaur D/o Hargupal Singh, Jaspal Kaur D/o Hargupal Singh
				21/24	Min	Private	Irrigated	2	8	0.1214	Gursimranjeet Agro Farm Private Limited, Arvinder Kaur D/o Hargupal Singh, Jaspal Kaur D/o Hargupal Singh
				22/1	Min	Private	Irrigated	7	0	0.3541	Jasjeet Singh S/o Dalbeer Singh, Paramjeet Singh S/o Mahindar Singh, Bahadar Singh S/o Mahindar Singh, Piratpal Kaur D/o

											Dalbeer Singh, Chaspreet Singh S/o Dalbeer Singh, Harmindar Kaur Wd/o Dalbeer Singh
				22//2	Min	Private	Irrigated	1	10	0.0759	Jasjeet Singh S/o Dalbeer Singh, Paramjeet Singh S/o Mahindar Singh, Bahadar Singh S/o Mahindar Singh, Piratpal Kaur D/o Dalbeer Singh, Chaspreet Singh S/o Dalbeer Singh, Harmindar Kaur Wd/o Dalbeer Singh
				22//10	Min	Private	Irrigated	2	10	0.1265	Hargurpal Singh S/o Gurcharan Singh
				25//2	Min	Private	Irrigated	2	6	0.1163	Baljeet Singh, Sukhraj Singh S/o Sikandar Singh, Jangeer Kaur Wd/o Sakandar Singh
				25//3	Min	Private	Irrigated	6	0	0.3035	Mahindar Singh S/o Karnail Singh, Baljeet Singh, Sukhraj Singh S/o Sikandar Singh, Jangeer Kaur Wd/o Sikandar Singh
				25//8	Min	Private	Irrigated	2	4	0.1113	Baljeet Singh, Sukhraj Singh Ss/o Sikandar Singh, Jangeer Kaur Wd/o Sakandar Singh
				25//9	Min	Private	Irrigated	6	0	0.3035	
				25//11	Min	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Karnail Singh S/o Sarwan Singh
				25//12	Min	Private	Irrigated	7	0	0.3541	Karnail Singh S/o Sarwan Singh
				25//20	Min	Private	Irrigated	2	9	0.1239	Mahindar Singh S/o Karnail Singh
				35	Min	Government	Road	1	0	0.0506	Samlat Deh
			7. Allowal	57//7	Min	Government	Irrigated	4	8	0.2226	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				57//13	Min	Government	Irrigated	0	19	0.0481	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				57//14	Min	Government	Irrigated	7	10	0.3794	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				57//17	Min	Government	Irrigated	3	0	0.1517	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				57//18	Min	Government	Irrigated	6	3	0.3111	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				57//19	Min	Government	Irrigated	0	2	0.0051	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				57//22	Min	Government	Irrigated	4	4	0.2124	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				57//23	Min	Government	Irrigated	5	2	0.258	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				58//1	Min	Government	Irrigated	2	3	0.1087	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				58//2	Min	Government	Irrigated	6	16	0.3439	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				58//3	Min	Government	Irrigated	0	9	0.0228	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				58//9	Min	Government	Irrigated	1	13	0.0835	Punjab Kheta Badi University Ludhiana

				58//10	Min	Government	Irrigated	7	0	0.3541	Punjab Khedi Badi University Ludhiana
				58//11	Min	Government	Irrigated	3	18	0.1973	Punjab Khedi Badi University Ludhiana
				58//20	Min	Government	Irrigated	0	2	0.0051	Punjab Khedi Badi University Ludhiana
				59//6	Min	Government	Irrigated	0	12	0.0303	Punjab Khedi Badi University Ludhiana
				59//14	Min	Government	Irrigated	0	1	0.0025	Punjab Khedi Badi University Ludhiana
				59//15	Min	Government	Irrigated	2	9	0.1239	Punjab Khedi Badi University Ludhiana
				59//16	Min	Government	Irrigated	3	6	0.1669	Punjab Khedi Badi University Ludhiana
			8. Chhohle	26//16	Min	Government	Irrigated	0	13	0.0329	Punjab Police Department
				26//24	Min	Government	Irrigated	1	1	0.0531	Punjab Khedi Badi University Ludhiana
				26//25	Min	Government	Irrigated	6	19	0.3515	Punjab Police Department
				27//6	Min	Government	Irrigated	3	9	0.1745	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				27//7	Min	Government	Irrigated	1	1	0.0531	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				27//12	Min	Government	Irrigated	1	17	0.0936	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				27//13	Min	Government	Irrigated	5	16	0.2934	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				27//14	Min	Government	Irrigated	7	5	0.3667	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				27//15	Min	Government	Irrigated	4	16	0.2428	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				27//17	Min	Government	Irrigated	0	3	0.0076	Punjab Police Department
				27//18	Min	Government	Irrigated	2	13	0.134	Punjab Police Department
				27//19	Min	Government	Irrigated	6	15	0.3414	Punjab Police Department
				27//20	Min	Government	Irrigated	5	2	0.258	Punjab Police Department
				27//21	Min	Government	Irrigated	4	7	0.22	Punjab Police Department
				27//22	Min	Government	Irrigated	0	4	0.0101	Punjab Police Department
				28//6	Min	Government	Irrigated	4	10	0.2276	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				28//7	Min	Government	Irrigated	6	16	0.3439	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				28//8/1	Min	Government	Irrigated	0	6	0.0152	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				28//8/2	Min	Government	Irrigated	0	6	0.0152	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				28//9/1	Min	Government	Irrigated	2	2	0.1062	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				28//9/2		Government	Irrigated	4	0	0.2023	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation

				28//10	Min	Government	Irrigated	3	16	0.1922	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				28//11	Min	Government	Irrigated	4	7	0.22	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				28//12	Min	Government	Irrigated	2	0	0.1012	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				28//13	Min	Government	Irrigated	1	9	0.0733	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				28//14	Min	Government	Irrigated	1	13	0.0835	Punjab Land Deewal small and riclomation corporation
				32//4	Min	Government	Irrigated	6	17	0.3465	4/1-Ashok Kumar S/o Surajbhan,4/2- Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				32//5	Min	Government	Irrigated	3	2	0.1568	Punjab Police Department
				32//19/2	Min	Government	Non-Irrigated	1	9	0.0733	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				38/1	Min	Government	Road	0	13	0.0329	Central Government
				32//21	Min	Government	Irrigated	6	9	0.3262	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				32//22	Min	Government	Irrigated	1	12	0.0809	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				39/1	Min	Government	Road	0	6	0.0152	Central Government
				40/1	Min	Government	Road	0	10	0.0253	Central Government
				33//25	Min	Government	Irrigated	0	15	0.0379	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				34//5	Min	Government	Irrigated	5	3	0.2605	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				34//6	Min	Government	Irrigated	4	7	0.22	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				34//15	Min	Government	Irrigated	0	2	0.0051	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				35//1	Min	Government	Irrigated	3	12	0.1821	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
				35//10	Min	Government	Irrigated	0	1	0.0025	Punjab Kheta Badi University Ludhiana
			9. Manewal	6//10	Min	Private	Irrigated	2	10	0.1265	Jaspreet Kaur W/o Wahigurupal Singh, Rubindar Singh S/o Charanjeet Singh
				6//11	Min	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Jaspreet Kaur W/o Wahigurupal Singh, Rubindar Singh S/o Charanjeet Singh
				7//6	Min	Private	Irrigated	3	2	0.1568	Jaspreet Kaur W/o Wahigurupal Singh, Rubindar Singh S/o Charanjeet Singh
				7//7	Min	Private	Irrigated	4	0	0.2023	Jaspreet Kaur W/o Wahigurupal Singh, Rubindar Singh S/o Charanjeet Singh
				7//8	Min	Private	Irrigated	4	16	0.2428	Jaspreet Kaur W/o Wahigurupal Singh, Rubindar Singh S/o Charanjeet Singh
				7//9	Min	Private	Irrigated	5	9	0.2757	Punjab Land Development and Reclomotion Limited

											Laddowal
				7//10	Min	Private	Irrigated	5	18	0.2984	Punjab Land Development and Reclamation Limited Laddowal
				7//11	Min	Private	Irrigated	2	2	0.1062	Punjab Land Development and Reclamation Limited Laddowal
				7//12	Min	Private	Irrigated	2	11	0.1290	Punjab Land Development and Reclamation Limited Laddowal
				7//13	Min	Private	Irrigated	3	4	0.1619	Jaspreet Kaur W/o Wahigurupal Singh, Rubindar Singh S/o Charanjeet Singh
				7//14	Min	Private	Irrigated	4	0	0.2023	Jaspreet Kaur W/o Wahigurupal Singh, Rubindar Singh S/o Charanjeet Singh
				7//15	Min	Private	Irrigated	4	16	0.2428	Jaspreet Kaur W/o Wahigurupal Singh, Rubindar Singh S/o Charanjeet Singh
				8//6	Min	Private	Irrigated	2	7	0.1189	Punjab Land Development and Reclamation Limited Laddowal
				8//15	Min	Private	Irrigated	1	11	0.0784	Punjab Land Development and Reclamation Limited Laddowal
				16//23	Min	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Nirjeet Kaur Wd/o Mahindar Singh
			10. Goindwal	25//6	Min	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Charanjeet Singh S/o Sadhu Singh, Provinsal Government
				25//13	Min	Private	Irrigated	1	17	0.0936	Charanjeet Singh S/o Sadhu Singh, Provinsal Government
				25//14/1	Min	Private	Irrigated	3	10	0.1770	Charanjeet Singh S/o Sadhu Singh, Provinsal Government
				25//14/2		Government	Road	1	14	0.0860	Provinsal Government
				25//14/3		Private	Irrigated	0	7	0.0177	Charanjeet Singh S/o Sadhu Singh, Provinsal Government
				25//15/1	Min	Private	Irrigated	1	6	0.0658	Charanjeet Singh S/o Sadhu Singh, Provinsal Government
				25//15/2		Government	Road	1	9	0.0733	Provinsal Government
				25//15/3	Min	Private	Irrigated	1	18	0.0961	Charanjeet Singh S/o Sadhu Singh, Provinsal Government
				25//16	Min	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Charanjeet Singh S/o Sadhu Singh, Provinsal Government
				25//17/1	Min	Private	Irrigated	2	0	0.1012	Charanjeet Singh S/o Sadhu Singh, Provinsal Government
				25//17/2		Government	Road	0	10	0.0253	Provinsal Government
				25//18/1		Private	Irrigated	0	10	0.0253	Charanjeet Singh S/o Sadhu Singh, Provinsal Government

				25/18/2		Government	Road	1	3	0.0582	Provinsal Government
				25/18/3		Private	Irrigated	0	10	0.0253	Charanjeet Singh S/o Sadhu Singh, Provinsal Government
			11. Mazara Khurd	11/7/1	Min	Samlat	Irrigated	0	1	0.0025	Samlat Deh
				11/7/2	Min	Samlat	Irrigated	0	3	0.0076	Samlat Deh
				11/7/3	Min	Samlat	Irrigated	0	12	0.0303	Samlat Deh Kastkar Ekbal Kaur W/o Mahindar Kaur
				11/8/2	Min	Samlat	Irrigated	0	10	0.0253	Samlat Deh Kastkar Ekbal Kaur W/o Mahindar Kaur
				11/14		Private	Irrigated	4	14	0.2377	Prem Chand S/o Jagdish chand, Sanjay Gupta S/o Prem Chand, Sunila Gupta W/o Prem Gupta
				11/15/1 /1	Min	Private	Irrigated	1	11	0.0784	Sunila Gupta W/o Prem Gupta
				11/15/1 /2		Private	Irrigated	4	17	0.2453	Prem Chand S/o Jagdish chand, Sanjay Gupta S/o Prem Chand, Sunila Gupta W/o Prem Gupta
				11/15/2	Min	Private	Irrigated	0	10	0.0253	Sanjay Gupta S/o Prem chand
				11/16	Min	Private	Irrigated	1	2	0.0556	Harjindarpal Singh S/o Gurmej Singh
				11/17	Min	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Harjindarpal Singh S/o Gurmej Singh
				11/26		Private	Irrigated	0	12	0.0303	Central Government, Sanjay Gupta S/o Prem Gupta
				12/6	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Balwant Singh S/o Kala Ram, Rachna Gupta W/o Parveen Gupta, Gulsanlal S/o Balwant Singh, Manju Bala D/o Kishan Lal, Atul Kumar S/o Parvej Kumar
				12/7/1	Min	Private	Irrigated	1	1	0.0531	Balwant Singh S/o Kala Ram, Rachna Gupta W/o Parveen Gupta, Gulsanlal S/o Balwant Singh, Manju Bala D/o Kishan Lal, Atul Kumar S/o Parvej Kumar
				12/7/2		Private	Irrigated	4	4	0.2124	Gulshan Lal S/o Balwant Singh
				12/11	Min	Private	Irrigated	2	11	0.1290	Prem Chand S/o Jagdish chand
				12/12/2	Min	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Giyanchand S/o Jagat Ram, Nirmal Singh S/o Sarwan Singh, Balbeer Kaur W/o Nirmal Singh
				12/13/2		Private	Irrigated	2	8	0.1214	Ramnik Kaur W/o Kulbindar Singh, Surindar Kaur W/o Resham Singh.
				12/14		Private	Irrigated	8	0	0.4046	Ramnik Kaur W/o Kulbindar Singh, Surindar Kaur W/o Resham Singh.

				12//15	Min	Private	Irrigated	5	14	0.2883	Ramnik Kaur W/o Kulbindar Singh, Surindar Kaur W/o Resham Singh.
				12//16	Min	Private	Irrigated	5	2	0.2580	Rahani Satsang Prem Samaj
				12//17/1		Private	Irrigated	7	9	0.3768	Rupindar Singh S/o Harbhajan Singh, Gurpreet Singh S/o Harbhajan Singh
				12//17/2		Private	Irrigated	0	11	0.0278	Surindar Singh S/o Gurbakhas Singh
				12//18/2/ 1		Private	Irrigated	1	18	0.0961	Rupindar Singh S/o Harbhajan Singh, Gurpreet Singh S/o Harbhajan Singh
				12//18/2/ 2		Private	Irrigated	0	2	0.0051	Surindar Singh S/o Gurbakhas Singh
				12//20/1	Min	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Harjindarpal Singh S/o Gurmej Singh
				12//20/2	Min	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Harjindarpal Singh S/o Gurmej Singh
				27	Min	Samlat	Irrigated	0	8	0.0202	Samlat Deh
				12//23/2		Private	Irrigated	1	8	0.0708	Surindar Singh S/o Gurbakhas Singh
				12//24	Min	Private	Irrigated	6	19	0.3515	Surindar Singh S/o Gurbakhas Singh
				12//25	Min	Samlat	Irrigated	1	0	0.0506	Samlat Deh Kastkar Harbans Kaur W/o Jasindarpal Singh
				16//3/1		Private	Irrigated	0	7	0.0177	Ruhani Satsang Prem Samaj 1009 Islamiya School Road Ludhiana
				16//4/1	Min	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Ruhani Satsang Prem Samaj 1009 Islamiya School Road Ludhiana
				Total area of the Village				1216	4049	71.746	

[ F No. No : PIU/PD/JAL/2015/05/344 A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.